



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2019/माघ 17, 1940

No. 603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019/MAGHA 17, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.आ. 721(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3701(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में 27 जुलाई 2018 प्रकाशित की गई थी तथा का.आ. 5093(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में 1 अक्टूबर 2018 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ जिले में नए इस्माईलाबाद (गंगहेड़ी) - नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग के कि.मी. 180 से कि.मी. 230 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/पेन्ड शोल्डर सहित 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और का.आ. 3701(अ) तारीख 27 जुलाई 2018, अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 07 अगस्त 2018 को "टाईम्स ऑफ इण्डिया" और "हरि भूमि" दोनों में प्रकाशित किया गया था, तथा का.आ. 5093(अ) दिनांक 1 अक्टूबर 2018, अधिसूचना अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23 अक्टूबर 2018 को "दि ट्रिब्यून" और "हरि भूमि" दोनों में प्रकाशित किया गया था,

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ जिले में नए इस्माईलाबाद (गंगहेड़ी) - नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग के कि.मी. 180 से कि.मी. 230 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: महेन्द्रगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अटेली					
गांव का नाम: अटाली					
1	13//1	निजी	कृषि	0.0923	जसवंत सिंह, विरेन्दर, दयाराम, मुकेश पुत्र व रामरती, भगवानी पुत्री हर छः समभाग 1/2 भाग हिस्सेदारन थावर सिंह पुत्र 1/2 भाग वासिदेह हिस्सेदार (13//1)
2	13//10	निजी	कृषि	0.034	जसवंत सिंह, विरेन्दर, दयाराम, मुकेश पुत्र व रामरती, भगवानी पुत्री हर छः समभाग 1/2 भाग हिस्सेदारन थावर सिंह पुत्र 1/2 भाग वासिदेह हिस्सेदार (13//10)
3	13//11/1	निजी	कृषि	0.0024	रामसजन, राम सिंह, माडूराम पुत्र मेहरचंद पुत्र किशन हर तीन समभाग वासिदेह (13//11/1)
4	14//14	निजी	कृषि	0.0413	रामसजन, राम सिंह, माडूराम पुत्र मेहरचंद पुत्र किशन हर तीन समभाग वासिदेह (14//14)
5	14//15	निजी	कृषि	0.3571	रामसजन, राम सिंह, माडूराम पुत्र मेहरचंद पुत्र किशन हर तीन समभाग वासिदेह (14//15)

6	14//16	निजी	कृषि	0.3255	सूबे सिंह उर्फ शिव लाल पुत्र बुद्धा पुत्र हरनु 494/1875 भाग राम प्रताप पुत्र दाताराम पुत्र हरनु 48/125 भाग विनय कुमार पुत्र डिगाराम पुत्र श्योलाल 19/375 भाग वीरेंदर सिंह राम निवास पुत्र सुमेर सिंह पुत्र श्योलाल हर 3 समभाग 16/625 भाग अभय सिंह , सतीश कुमार पुत्र फूल सिंह पुत्र मान सिंह हर दो समभाग 47/375 भाग महेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र हरदयाल 41/1875 भाग विकाश विपिन पुत्र सतवीर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह हर दो समभाग 82/1875 भाग अशोक कुमार वेदप्रकाश , सुनील कुमार पुत्र व प्रेम लता पुत्री व शमत. समाकौर विधवा शोभाराम हर पांच समभाग 16/375 भाग अतर सिंह पुत्र फतेह सिंह पुत्र जी सुख 16/375 भाग वासिदेह (14//16)
7	14//17	निजी	कृषि	0.0923	श्रीमती कृष्णा देवी विधवा हरी सिंह पुत्र बुद्धा 29/140 भाग कुलदीप पुत्र हीरा सिंह पुत्र बूढा 111/140 भाग वासिदेह (14//17)
8	14//24/1	निजी	कृषि	0.0656	श्रीमती कृष्णा देवी विधवा हरी सिंह पुत्र बुद्धा 29/140 भाग कुलदीप पुत्र हीरा सिंह पुत्र बूढा 111/140 भाग वासिदेह (14//24/1)
9	14//24/2	निजी	कृषि	0.0777	दलीप सिंह , जय दयाल सिंह , ओम प्रकाश , रमेशचंद्र पुत्र गणपत पुत्र कुरडा हर चार समभाग वासिदेह (14//24/2)
10	14//25	निजी	कृषि	0.2769	सूबे सिंह उर्फ शिव लाल पुत्र बुद्धा पुत्र हरनु 494/1875 भाग राम प्रताप पुत्र दाताराम पुत्र हरनु 48/125 भाग विनय कुमार पुत्र डिगाराम पुत्र श्योलाल 19/375 भाग वीरेंदर सिंह राम निवास पुत्र सुमेर सिंह पुत्र श्योलाल हर 3 समभाग 16/625 भाग अभय सिंह , सतीश कुमार पुत्र फूल सिंह पुत्र मान सिंह हर दो समभाग 47/375 भाग महेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र हरदयाल 41/1875 भाग विकाश विपिन पुत्र सतवीर सिंह पुत्र

					हरदयाल सिंह हर दो समभाग 82/1875 भाग अशोक कुमार वेदप्रकाश , सुनील कुमार पुत्र व प्रेम लता पुत्री व शमत. समाकौर विधवा शोभाराम हर पांच समभाग 16/375 भाग अतर सिंह पुत्र फ़तेह सिंह पुत्र जी सुख 16/375 भाग वासिदेह (14//25)
11	14//5/1	निजी	कृषि	0.1263	रोशन लाल , लाला राम , राम भरोश पुत्र हेतराम पुत्र काशी राम हर तीन समभाग 160/703 भाग ईशर पुत्र अर्जुन पुत्र किशन 398/703 भाग , कैलाश , धर्मवीर अशोक पुत्र चंद्रभान पुत्र थावर सिंह हर तीन समभाग 435/2312 भाग देवेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र थावर सिंह 145/2812 भाग वासिदेह (14//5/1)
12	14//5/2	निजी	कृषि	0.2016	श्रीमती रामरती पुत्री व श्रीमती भगवानी विधवा हरी सिंह पुत्र प्रलाद हर दो समभाग 5/144 भाग थावर सिंह पुत्र प्रलाहद पुत्र सेतु 5/48 भाग श्रीमती बसंती , छिमा पुत्री सेतु पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/6 भाग सुकर्मपाल , महेश कुमार , सुरेश कुमार पुत्र थावर सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 65/576 भाग जसवंत सिंह वीरेंद्र दया राम , मुकेश पुत्र हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 95576 भाग दीनदयाल , हंसराज , धर्मपाल पुत्रा एडिसाल पुत्र सदी हर तीन समभाग वासिदेह (14//5/2)
13	14//6/1	निजी	कृषि	0.2235	रोशन लाल , लाला राम , राम भरोश पुत्र हेतराम पुत्र काशी राम हर तीन समभाग 160/703 भाग ईशर पुत्र अर्जुन पुत्र किशन 398/703 भाग , कैलाश , धर्मवीर अशोक पुत्र चंद्रभान पुत्र थावर सिंह हर तीन समभाग 435/2312 भाग देवेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र थावर सिंह 145/2812 भाग वासिदेह (14//6/1)
14	14//6/2	निजी	कृषि	0.0923	रामसजन , राम सिंह , माडूराम पुत्र मेहरचंद पुत्र किशन हर तीन समभाग

					वासिदेह (14//6/2)
15	14//7	निजी	कृषि	0.0049	रामसजन , राम सिंह , माडूराम पुत्र मेहरचंद पुत्र किशन हर तीन समभाग वासिदेह (14//7)
16	19//14	निजी	कृषि	0.2964	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19//14)
17	19//15	निजी	कृषि	0.1263	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19//15)
18	19//16	निजी	कृषि	0.0729	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19//16)
19	19//17/1	निजी	कृषि	0.1849	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19//17/1)
20	19//17/2	निजी	कृषि	0.0437	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19//17/2)
21	19//23	निजी	कृषि	0.0073	तेजपाल , उदयपाल श्री पाल पुत्र छत्र पाल पुत्र मुलिया हर तीन समभाग 1/2 भाग कवर पाल सुखपाल पुत्र जीत पाल पुत्र मुलिया हर दो समभाग 1/2 भाग वासिदेह (19//23)

22	19//24/1	निजी	कृषि	0.1263	तेजपाल , उदयपाल श्री पाल पुत्र छत्र पाल पुत्र मुलिया हर तीन समभाग 1/2 भाग कवर पाल सुखपाल पुत्र जीत पाल पुत्र मुलिया हर दो समभाग 1/2 भाग वासिदेह (19//24/1)
23	19//24/2/2	निजी	कृषि	0.2089	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19//24/2)
24	19//25	निजी	कृषि	0.0243	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19//25)
25	19//4	निजी	कृषि	0.1943	सूबे सिंह उर्फ शिव लाल पुत्र बुद्धा पुत्र हरनु 494/1875 भाग राम प्रताप पुत्र दाताराम पुत्र हरनु 48/125 भाग विनय कुमार पुत्र डिगाराम पुत्र श्योलाल 19/375 भाग वीरेंद्र सिंह राम निवास पुत्र सुमेर सिंह पुत्र श्योलाल हर 3 समभाग 16/625 भाग अभय सिंह , सतीश कुमार पुत्र फूल सिंह पुत्र मान सिंह हर दो समभाग 47/375 भाग महेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र हरदयाल 41/1875 भाग विकाश विपिन पुत्र सतबीर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह हर दो समभाग 82/1875 भाग अशोक कुमार वेदप्रकाश , सुनील कुमार पुत्र व प्रेम लता पुत्री व शमत. समाकौर विश्ववा शोभाराम हर पांच समभाग 16/375 भाग अतर सिंह पुत्र फ़तेह सिंह पुत्र जी सुख 16/375 भाग वासिदेह (19//4)
26	19//5	निजी	कृषि	0.2284	सूबे सिंह उर्फ शिव लाल पुत्र बुद्धा पुत्र हरनु 494/1875 भाग राम प्रताप पुत्र दाताराम पुत्र हरनु 48/125 भाग विनय कुमार पुत्र डिगाराम पुत्र श्योलाल 19/375 भाग वीरेंद्र सिंह राम निवास पुत्र सुमेर सिंह पुत्र श्योलाल हर 3

					समभाग 16/625 भाग अभय सिंह , सतीश कुमार पुत्र फूल सिंह पुत्र मान सिंह हर दो समभाग 47/375 भाग महेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र हरदयाल 41/1875 भाग विकास विपिन पुत्र सतवीर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह हर दो समभाग 82/1875 भाग अशोक कुमार वेदप्रकाश , सुनील कुमार पुत्र व प्रेम लता पुत्री व शमत. समाकौर विधवा शोभाराम हर पांच समभाग 16/375 भाग अतर सिंह पुत्र फ़तेह सिंह पुत्र जी सुख 16/375 भाग वासिदेह (19/5)
27	19/6	निजी	कृषि	0.1798	लक्ष्मीनारायण पुत्र बोहत राम पुत्र जयराम 1/5 भाग प्रताप सिंह राजेंद्र सिंह भरत सिंह सुरेंद्र पुत्र लक्ष्मी नारायण पुत्र बोहतरम हर चार समभाग 4/5 भाग वासिदेह (19/6)
28	19/7	निजी	कृषि	0.2478	सूबे सिंह उर्फ शिव लाल पुत्र बुद्धा पुत्र हरनु 494/1875 भाग राम प्रताप पुत्र दाताराम पुत्र हरनु 48/125 भाग विनय कुमार पुत्र डिगाराम पुत्र श्योलाल 19/375 भाग वीरेंद्र सिंह राम निवास पुत्र सुमेर सिंह पुत्र श्योलाल हर 3 समभाग 16/625 भाग अभय सिंह , सतीश कुमार पुत्र फूल सिंह पुत्र मान सिंह हर दो समभाग 47/375 भाग महेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र हरदयाल 41/1875 भाग विकास विपिन पुत्र सतवीर सिंह पुत्र हरदयाल सिंह हर दो समभाग 82/1875 भाग अशोक कुमार वेदप्रकाश , सुनील कुमार पुत्र व प्रेम लता पुत्री व शमत. समाकौर विधवा शोभाराम हर पांच समभाग 16/375 भाग अतर सिंह पुत्र फ़तेह सिंह पुत्र जी सुख 16/375 भाग वासिदेह (19/7)
29	232	सरकारी	रास्ता	0.0243	हरियाणा सरकार (232)
30	3/16	निजी	कृषि	0.1555	श्रीमती रामरती पुत्री व श्रीमती भगवानी विधवा हरी सिंह पुत्र प्रलाद हर दो

					समभाग 5/144 भाग थावर सिंह पुत्र प्रलाहद पुत्र सेतु 5/48 भाग श्रीमती बसंती , छिमा पुत्री सेतु पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/6 भाग सुकर्मपाल , महेश कुमार , सुरेश कुमार पुत्र थावर सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 65/576 भाग जसवंत सिंह बीरेंद्र दया राम , मुकेश पुत्र हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 95576 भाग दीनदयाल , हंसराज , धर्मपाल पुत्रा एडिसाल पुत्र सदी हर तीन समभाग वासिदेह (3//16)
31	3//24	निजी	कृषि	0.0024	श्रीमती रामरती पुत्री व श्रीमती भगवानी विधवा हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर दो समभाग 5/144 भाग थावर सिंह पुत्र प्रलाहद पुत्र सेतु 5/48 भाग श्रीमती बसंती , छिमा पुत्री सेतु पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/6 भाग सुकर्मपाल , महेश कुमार , सुरेश कुमार पुत्र थावर सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 65/576 भाग जसवंत सिंह बीरेंद्र दया राम , मुकेश पुत्र हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 95576 भाग दीनदयाल , हंसराज , धर्मपाल पुत्रा एडिसाल पुत्र सदी हर तीन समभाग वासिदेह (3//24)
32	3//25	निजी	कृषि	0.2721	श्रीमती रामरती पुत्री व श्रीमती भगवानी विधवा हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर दो समभाग 5/144 भाग थावर सिंह पुत्र प्रलाहद पुत्र सेतु 5/48 भाग श्रीमती बसंती , छिमा पुत्री सेतु पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/6 भाग सुकर्मपाल , महेश कुमार , सुरेश कुमार पुत्र थावर सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 65/576 भाग जसवंत सिंह बीरेंद्र दया राम , मुकेश पुत्र हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 95576 भाग दीनदयाल , हंसराज , धर्मपाल पुत्रा एडिसाल पुत्र सदी हर तीन समभाग वासिदेह (3//25)
33	36//13	निजी	कृषि	0.1603	शयोचंद पुत्रसुल्तान पुत्रधंसी 797/3252 भाग उमेश देवी पत्नी राजेश कुमार पुत्र शयोचंद 16/813 भाग सुखदेव , ताराचंद ,

					सतपाल पुत्र सुल्तान पुत्र धंसी हर तीन समभाग 797/1084 भाग वासिदेह (36//13)
34	36//14	निजी	कृषि	0.2672	राम निवास , नन्द राम , श्री राम पुत्र व श्रीमती. सुगना देवी पुत्री व श्रीमती. चंद्रपति विधवा घीसाराम पुत्र रामप्रसाद हर पांच समभाग 1/3 भाग सुभाष वीरेंदर पुत्र व सुशीला पुत्री व भनी विधवा श्योनाथ पुत्र प्रसाद हर चार समभाग 1/3 भाग सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती. विमला पुत्री व श्रीमती. संतोष विधवा लाला राम पुत्र प्रसाद हर तीन समभाग 1/3 भाग वासिदेह (36//14)
35	36//17	निजी	कृषि	0.2138	राम निवास , नन्द राम , श्री राम पुत्र व श्रीमती. सुगना देवी पुत्री व श्रीमती. चंद्रपति विधवा घीसाराम पुत्र रामप्रसाद हर पांच समभाग 1/3 भाग सुभाष वीरेंदर पुत्र व सुशीला पुत्री व भनी विधवा श्योनाथ पुत्र प्रसाद हर चार समभाग 1/3 भाग सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती. विमला पुत्री व श्रीमती. संतोष विधवा लाला राम पुत्र प्रसाद हर तीन समभाग 1/3 भाग वासिदेह (36//17)
36	36//18	निजी	कृषि	0.2089	श्योचंद पुत्रसुल्तान पुत्रधंसी 797/3252 भाग उमेश देवी पत्नी राजेश कुमार पुत्र श्योचंद 16/813 भाग सुखदेव , ताराचंद , सतपाल पुत्र सुल्तान पुत्र धंसी हर तीन समभाग 797/1084 भाग वासिदेह (36//18)
37	36//23	निजी	कृषि	0.2575	शेर सिंह पुत्र सोमदत्त पुत्र विधा पुत्री आशा 1/2 भाग सुमेर सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र सोमदत्त 1/2 भाग वासिदेह (36//23)
38	36//24	निजी	कृषि	0.1603	राम निवास , नन्द राम , श्री राम पुत्र व श्रीमती. सुगना देवी पुत्री व श्रीमती. चंद्रपति विधवा घीसाराम पुत्र रामप्रसाद हर पांच समभाग 1/3 भाग सुभाष वीरेंदर पुत्र व सुशीला पुत्री व भनी विधवा श्योनाथ पुत्र प्रसाद हर चार समभाग 1/3 भाग सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती. विमला

					पुत्री व श्रीमती. संतोष विधवा लाला राम पुत्र प्रसाद हर तीन समभाग 1/3 भाग वासिदेह (36//24)
39	36//3	निजी	कृषि	0.0534	कुरडा राम , मन फूल सिंह पुत्र व श्रीमती भाती देवी , सरती देवी , विमला पुत्री मधु उर्फ महादेव प्रसाद पुत्र ठाकरसी पुत्रराम सहाय हर छः समभाग वासिदेह (36//3)
40	36//4	निजी	कृषि	0.3693	अभय सिंह नरेश कुमार पुत्र बलदेव पुत्र नेत राम हर दो समभाग 1/2 भाग श्रीमती रामरती पत्नी व सुरेश पुत्र बलदेव पुत्र नेत राम हर तीन समभाग 1/4 भाग साजन सिंह पुत्र व श्रीमती. राजेश मुकेश आशा देवी , बिंदु पुत्री व श्रीमती चंद्रो विधवा रसगान लाल पुत्र सूरजभान हर छः समभाग 1/4 भाग वासिदेह (36//4)
41	36//7	निजी	कृषि	0.3158	अभय सिंह नरेश कुमार पुत्र बलदेव पुत्र नेत राम हर दो समभाग 1/2 भाग श्रीमती रामरती पत्नी व सुरेश पुत्र बलदेव पुत्र नेत राम हर तीन समभाग 1/4 भाग साजन सिंह पुत्र व श्रीमती. राजेश मुकेश आशा देवी , बिंदु पुत्री व श्रीमती चंद्रो विधवा रसगान लाल पुत्र सूरजभान हर छः समभाग 1/4 भाग वासिदेह (36//7)
42	36//8	निजी	कृषि	0.1069	अभय सिंह नरेश कुमार पुत्र बलदेव पुत्र नेत राम हर दो समभाग 1/2 भाग श्रीमती रामरती पत्नी व सुरेश पुत्र बलदेव पुत्र नेत राम हर तीन समभाग 1/4 भाग साजन सिंह पुत्र व श्रीमती. राजेश मुकेश आशा देवी , बिंदु पुत्री व श्रीमती चंद्रो विधवा रसगान लाल पुत्र सूरजभान हर छः समभाग 1/4 भाग वासिदेह (36//8)
43	4//20	निजी	कृषि	0.1288	श्रीमती रामरती पुत्री व श्रीमती भगवानी विधवा हरी सिंह पुत्र प्रलाद हर दो समभाग 5/144 भाग थावर सिंह पुत्र प्रलाहद पुत्र सेतु 5/48 भाग श्रीमती बसंती , छिमा पुत्री सेतु पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/6 भाग सुकर्मपाल , महेश

					कुमार , सुरेश कुमार पुत्र थावर सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 65/576 भाग जसवंत सिंह वीरेंद्र दया राम , मुकेश पुत्र हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 95576 भाग दीनदयाल , हंसराज , धर्मपाल पुत्रा एडिसाल पुत्र सदी हर तीन समभाग वासिदेह (4//20)
44	4//21	निजी	कृषि	0.1414	श्रीमती रामरती पुत्री व श्रीमती भगवानी विधवा हरी सिंह पुत्र प्रलाद हर दो समभाग 5/144 भाग थावर सिंह पुत्र प्रलाहद पुत्र सेतु 5/48 भाग श्रीमती बसंती , छिमा पुत्री सेतु पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/6 भाग सुकर्मपाल , महेश कुमार , सुरेश कुमार पुत्र थावर सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 65/576 भाग जसवंत सिंह वीरेंद्र दया राम , मुकेश पुत्र हरी सिंह पुत्र प्रलाहद हर तीन समभाग 95576 भाग दीनदयाल , हंसराज , धर्मपाल पुत्रा एडिसाल पुत्र सदी हर तीन समभाग वासिदेह (4//21)
45	40//12	निजी	कृषि	0.0219	अमर सिंह पुत्र व श्रीमती सुमित्रा देवी सिलोचना , कमला , सावित्री बिमला , सुमन देवी , समीना देवी पुत्री श्रीमती विधा विधवा नन्द पुत्र धंसी हर नौ समभाग वासिदेह (40//12)
46	40//13	निजी	कृषि	0.3887	अमर सिंह पुत्र व श्रीमती सुमित्रा देवी सिलोचना , कमला , सावित्री बिमला , सुमन देवी , समीना देवी पुत्री श्रीमती विधा विधवा नन्द पुत्र धंसी हर नौ समभाग वासिदेह (40//13)
47	40//14	निजी	कृषि	0.0146	महावीर , रामनिवास , ओमप्रकाश पुत्र व श्रीमती.कौशल्या माया पुत्री व श्रीमती. शरवती विधवा हरी सिंह पुत्र हर नारायण हर छः समभाग वासिदेह (40//14)
48	40//18	निजी	कृषि	0.3547	अमर सिंह पुत्र व श्रीमती सुमित्रा देवी सिलोचना , कमला , सावित्री बिमला , सुमन देवी , समीना देवी पुत्री श्रीमती

					विधा विधवा नन्द पुत्र धंसी हर नौ समभाग वासिदेह (40//18)
49	40//19	निजी	कृषि	0.0437	अमर सिंह पुत्र व श्रीमती सुमित्रा देवी सिलोचना , कमला , सावित्री बिमला , सुमन देवी , समीना देवी पुत्री श्रीमती विधा विधवा नन्द पुत्र धंसी हर नौ समभाग वासिदेह (40//19)
50	40//3	निजी	कृषि	0.2672	शेर सिंह पुत्र सोमदत्त पुत्र विधा पुत्री आशा 1/2 भाग सुमेर सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र सोमदत्त 1/2 भाग वासिदेह (40//3)
51	40//4	निजी	कृषि	0.1288	शेर सिंह पुत्र सोमदत्त पुत्र विधा पुत्री आशा 1/2 भाग सुमेर सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र सोमदत्त 1/2 भाग वासिदेह (40//4)
52	40//7	निजी	कृषि	0.0534	अमर सिंह पुत्र व श्रीमती सुमित्रा देवी सिलोचना , कमला , सावित्री बिमला , सुमन देवी , समीना देवी पुत्री श्रीमती विधा विधवा नन्द पुत्र धंसी हर नौ समभाग वासिदेह (40//7)
53	40//8	निजी	कृषि	0.2559	अमर सिंह पुत्र व श्रीमती सुमित्रा देवी सिलोचना , कमला , सावित्री बिमला , सुमन देवी , समीना देवी पुत्री श्रीमती विधा विधवा नन्द पुत्र धंसी हर नौ समभाग वासिदेह (40//8)
54	65	सरकारी	रास्ता	0.0292	ग्राम पंचायत (65)
55	76	निजी	रास्ता	0.0462	ग्राम पंचायत (76)
गांव का नाम: सागरपुर					
56	49//14	निजी	कृषि	0.3136	निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये पुत्र झाबर 1/3 भाग मूलचंद कर्मवीर पुत्र निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह (49//14)
57	49//15	निजी	कृषि	0.1315	निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये पुत्र झाबर

					1/3 भाग मूलचंद कर्मवीर पुत्र निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह (49//15)
58	49//16	निजी	कृषि	0.0556	निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये पुत्र झाबर 1/3 भाग मूलचंद कर्मवीर पुत्र निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह (49//16)
59	49//17	निजी	कृषि	0.387	निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये पुत्र झाबर 1/3 भाग मूलचंद कर्मवीर पुत्र निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह (49//17)
60	49//18	निजी	कृषि	0.0025	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (49//18)
61	49//23	निजी	कृषि	0.0607	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (49//23)
62	49//24	निजी	कृषि	0.3819	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (49//24)
63	49//25	निजी	कृषि	0.0025	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (49//25)
64	49//4/1	निजी	कृषि	0.0379	निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये पुत्र झाबर 1/3 भाग मूलचंद कर्मवीर पुत्र निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये हर दो

					समभाग 2/3 भाग वासीदेह (49//4/1)
65	49//4/2/1	निजी	कृषि	0.0152	राकेश कुमार पुत्र लेखराम दत्तक पुत्र मन्ना 1/8 भाग राजेश कुमार मुकेश कुमार पुत्र लेखराम पुत्र मन्ना हर दो समभाग 125/2228 भाग वासीदेह श्रीमती नीलम पत्नी जगतसिंह पुत्र दरयावसिंह 343/20052 भाग बसी बसई जिला गुडगांव श्रीमती इंदरा विधवा लेखराम पुत्र मन्ना 125/4456 भाग श्रीमती रट्टा देवी रामकर्ण पुत्र सुभाषचंद 54 1/6684 भाग वासीदेह तेजराम पुत्र सूरजमल उर्फ सूरजभान पुत्र लालसिंह 160/1671 भाग वासी शिकोहपुर तेह. मानेसर जिला गुडगांव शिवचरण सुरेंद्र देवेंद्र पुत्र राजकुमार पुत्र लालसिंह हर तीन समभाग 818/5013 वाशी शिकोहपुर तेह.मानेसर जिला गुडगांव जगराम जगवीरसिंह पुत्र मामचंद पुत्र विशनलाल हर दो समभाग 160/5013 भाग वासी खतरीपुर हरिकेश पुत्र श्योकरण उर्फ श्योलाल पुत्र पत्रं 2015/5013 भाग वासीदेह (49//4/2/1)
66	49//4/2/2	सरकारी	नहर	0.0404688	राजकीय माध्यमिक विद्यालय (49//4/2/2)
67	49//5/1	सरकारी	नहर	0.0329	राजकीय माध्यमिक विद्यालय (49//5/1)
68	49//5/2	निजी	कृषि	0.1669	मैनपालसिंह यसवानतसिंह पुत्र रामसिंह पुत्र जसराम हर दो समभाग वासीदेह (49//5/2)
69	49//6	निजी	कृषि	0.1973	निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये पुत्र झाबर 1/3 भाग मूलचंद कर्मवीर पुत्र निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह (49//6)
70	49//7	निजी	कृषि	0.2378	निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये पुत्र झाबर 1/3 भाग मूलचंद कर्मवीर पुत्र निरंजनलाल पुत्र देवीसहाये हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह (49//7)
71	52//13	निजी	कृषि	0.2883	धर्मपाल रिघराम पुत्र मोहनलाल पुत्र

					कालूराम हर दो समभाग वासीदेह (52//13)
72	52//14	निजी	कृषि	0.1568	धर्मपाल रिघराम पुत्र मोहनलाल पुत्र कालूराम हर दो समभाग वासीदेह (52//14)
73	52//17	निजी	कृषि	0.0809	नीतू देवी पुत्री मोतीसिंह पुत्र शेरसिंह 1/36 भाग टेकचंद धनसिंह प्रतापसिंह शेरसिंह पुत्र हरीराम हर चार समभाग 2/3 भाग श्रीमतीसंतोष विधवा व रेनू देवी पुत्री मोटेराम पुत्र शेरसिंह हर दो समभाग 77/3510 भाग संदीप कुमार पुत्र मोटीसिंह पुत्र शेरसिंह 77/2340 भाग वासीदेह श्रीमतीसुमित्रा देवी पत्नी सत्यपाल पुत्र रामस्वरूप 10/351 भाग बसी दुलोठ जाट श्रीमती ओमपति पत्नी सिंहंराम पुत्र बेगराज 1/54 भाग बसी दुलोठ जाट ब्रिमलापत्नी मनफूलसिंह पुत्र बेगराज 1/54 भाग बसी दुलोठ जाट बशंति पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्र बेगराज 1/54 भाग वासी दुलोठ जाट मनोज कुमार राजपाल पुत्र हरफूलसिंह पुत्र शरसिंह हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह (52//17)
74	52//18	निजी	कृषि	0.3642	मनोज कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दोसमभाग वासीदेह (52//18)
75	52//22	निजी	कृषि	0.0354	मनोज कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दोसमभाग वासीदेह (52//22)
76	52//23	निजी	कृषि	0.3971	मनोज कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दोसमभाग वासीदेह (52//23)
77	52//24	निजी	कृषि	0.0101	नीतू देवी पुत्री मोतीसिंह पुत्र शेरसिंह 1/36 भाग टेकचंद धनसिंह प्रतापसिंह शेरसिंह पुत्र हरीराम हर चार समभाग 2/3 भाग श्रीमतीसंतोष विधवा व रेनू देवी पुत्री मोटेराम पुत्र शेरसिंह हर दो समभाग 77/3510 भाग संदीप कुमार पुत्र मोटीसिंह पुत्र शेरसिंह 77/2340 भाग वासीदेह श्रीमतीसुमित्रा देवी पत्नी सत्यपाल पुत्र रामस्वरूप 10/351 भाग

					बसी दुलोठ जाट श्रीमती ओमपति पत्नी सिंहंराम पुत्र बेगराज 1/54 भाग बसी दुलोठ जाट बिमलापत्नी मनफूलसिंह पुत्र बेगराज 1/54 भाग बसी दुलोठ जाट बशंति पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्र बेगराज 1/54 भाग वासी दुलोठ जाट मनोज कुमार राजपाल पुत्र हरफूलसिंह पुत्र शरसिंह हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह (52//24)
78	52//3	निजी	कृषि	0.1366	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (52//3)
79	52//4	निजी	कृषि	0.3086	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (52//4)
80	52//7	निजी	कृषि	0.2125	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (52//7)
81	52//8	निजी	कृषि	0.1846	श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया पुत्र खीमानंद 1/4 भाग यशपालसिंह भीमसिंह जयप्रकाश पुत्र श्यामराम दत्तक पुत्र जोतिया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह (52//8)
82	61//12	निजी	कृषि	0.263	जयदयाल पुत्र नेतराम पुत्र रामरतन 1/3 भाग प्यारेलाल हरप्रसाद कैलाश अशोक पुत्र & कमला शकुंतला सबिता पत्नी व श्रीमती. मेवा विधवा बंशी हर 8 समभाग 1/3 भाग रघुवीर सिंह रोहतास प्रताप रामनिवास रणधीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र नेतराम हर 5 समभाग 5/18 भाग बबीता पत्नी कंवर सिंह पत्नी दुलीचंद 1/18 भाग वासीदेह

					(61//12)
83	61//13	निजी	कृषि	0.1821	प्रताप सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 59/2740 भाग टेकचंद पुत्र हरीराम 117/1370 भाग धनसिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 35/548 भाग सबई सिंह पुत्र हरीराम 989/2740 भाग मोहन कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 3/1370 भाग निम्बो देवी पत्नी हरफूल पुत्र शेर सिंह 17/2740 भाग सांता देवी पत्नी प्रताप सिंह पुत्र बीरेंदर सिंह पुत्र गुरदयाल 43/2740 भाग संदीप कुमार पुत्र मोती सिंह पुत्र शेर सिंह 37/1370 भाग रेनू सिंह पुत्र व संतोष देवी विधवा मोती सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो सनभाग 26/685 भाग नीतू देवी पुत्री मोती सिंह शेर सिंह 127/1370 भाग वासीदेह (61//13)
84	61//18	निजी	कृषि	0.1062	प्रताप सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 59/2740 भाग टेकचंद पुत्र हरीराम 117/1370 भाग धनसिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 35/548 भाग सबई सिंह पुत्र हरीराम 989/2740 भाग मोहन कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 3/1370 भाग निम्बो देवी पत्नी हरफूल पुत्र शेर सिंह 17/2740 भाग सांता देवी पत्नी प्रताप सिंह पुत्र बीरेंदर सिंह पुत्र गुरदयाल 43/2740 भाग संदीप कुमार पुत्र मोती सिंह पुत्र शेर सिंह 37/1370 भाग रेनू सिंह पुत्र व संतोष देवी विधवा मोती सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो सनभाग 26/685 भाग नीतू देवी पुत्री मोती सिंह शेर सिंह 127/1370 भाग वासीदेह (61//18)
85	61//19	निजी	कृषि	0.3389	बलवान सत्यवीर सिंह जवाहरलाल पुत्र सूरत सिंह पुत्र पालाराम हर तीन समभाग 150/4573 भाग संदीप कुमार पुत्र चंदरभान पुत्र सूरत सिंह 50/4573 भाग लक्ष्मी पुत्री चिरंजीलाल पुत्र अमीलाल 26407/1202699 भाग अमर सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 66898/1202699

					भाग शकुंतला पुत्री व श्रीमती दड़कली विधवा दुलीचंद पुत्र अमीलाल हर दो समभाग 32/4471 भाग महेश कुमार पुत्र व सुनीता पुत्री व संतरा देवी विधवा व किताब कौर माता सरजीत सिंह पुत्र मानक चाँद हर चार समभाग 12776/212241 भाग दलीप सिंह बलजीत सिंह पुत्र मानकचंद पुत्र अमीलाल हर दो समभाग 432761/3608097 भाग सितार पुत्र चिरंजी लाल पुत्र अमीलाल 317/4573 भाग राजपाल अशोक कुमार पुत्र व सुमित्रा पुत्री व सावित्री विधवा धर्मपाल पुत्र चिरंजीलाल हर चार समभाग 249/4573 भाग सतपाल मुकेश पुत्र व पिंकी पुत्री व सुशीला विधवा व शांति देवी माता तेज सिंह पुत्र मन सिंह हर पांच समभाग 2087/4573 भाग भीम सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 96/1202699 भाग कंवर सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 133700/1202699 भाग वासीदेह (61//19)
86	61//2	निजी	कृषि	0.0835	मनोज कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दोसमभाग वासीदेह (61//2)
87	61//21	निजी	कृषि	0.0126	बलवान सत्यवीर सिंह जवाहरलाल पुत्र सूरत सिंह पुत्र पालाराम हर तीन समभाग 150/4573 भाग संदीप कुमार पुत्र चंदरभान पुत्र सूरत सिंह 50/4573 भाग लक्ष्मी पुत्री चिरंजीलाल पुत्र अमीलाल 26407/1202699 भाग अमर सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 66898/1202699 भाग शकुंतला पुत्री व श्रीमती दड़कली विधवा दुलीचंद पुत्र अमीलाल हर दो समभाग 32/4471 भाग महेश कुमार पुत्र व सुनीता पुत्री व संतरा देवी विधवा व किताब कौर माता सरजीत सिंह पुत्र मानक चाँद हर चार समभाग 12776/212241 भाग दलीप सिंह बलजीत सिंह पुत्र मानकचंद पुत्र अमीलाल हर दो समभाग 432761/3608097 भाग सितार पुत्र चिरंजी लाल पुत्र अमीलाल 317/4573 भाग राजपाल अशोक कुमार पुत्र व सुमित्रा पुत्री व सावित्री विधवा

					धर्मपाल पुत्र चिरंजीलाल हर चार समभाग 249/4573 भाग सतपाल मुकेश पुत्र व पिंकी पुत्री व सुशीला विधवा व शांति देवी माता तेज सिंह पुत्र मन सिंह हर पांच समभाग 2087/4573 भाग भीम सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 96/1202699 भाग कंवर सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 133700/1202699 भाग वासीदेह (61//21)
88	61//22	निजी	कृषि	0.3996	बलवान सत्यवीर सिंह जवाहरलाल पुत्र सूरत सिंह पुत्र पालाराम हर तीन समभाग 150/4573 भाग संदीप कुमार पुत्र चंदरभान पुत्र सूरत सिंह 50/4573 भाग लक्ष्मी पुत्री चिरंजीलाल पुत्र अमीलाल 26407/1202699 भाग अमर सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 66898/1202699 भाग शकुंतला पुत्री व श्रीमती दड़कली विधवा दुलीचंद पुत्र अमीलाल हर दो समभाग 32/4471 भाग महेश कुमार पुत्र व सुनीता पुत्री व संतरा देवी विधवा व किताब कौर माता सरजीत सिंह पुत्र मानक चाँद हर चार समभाग 12776/212241 भाग दलीप सिंह बलजीत सिंह पुत्र मानकचंद पुत्र अमीलाल हर दो समभाग 432761/3608097 भाग सितार पुत्र चिरंजी लाल पुत्र अमीलाल 317/4573 भाग राजपाल अशोक कुमार पुत्र व सुमित्रा पुत्री व सावित्री विधवा धर्मपाल पुत्र चिरंजीलाल हर चार समभाग 249/4573 भाग सतपाल मुकेश पुत्र व पिंकी पुत्री व सुशीला विधवा व शांति देवी माता तेज सिंह पुत्र मन सिंह हर पांच समभाग 2087/4573 भाग भीम सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 96/1202699 भाग कंवर सिंह पुत्र दुलीचंद पुत्र अमीलाल 133700/1202699 भाग वासीदेह (61//22)
89	61//23	निजी	कृषि	0.0329	प्रताप सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 59/2740 भाग टेकचंद पुत्र हरीराम 117/1370 भाग धनसिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 35/548 भाग सबई सिंह पुत्र हरीराम 989/2740 भाग मोहन कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर

					दो समभाग 3/1370 भाग निम्बो देवी पत्नी हरफूल पुत्र शेर सिंह 17/2740 भाग सांता देवी पत्नी प्रताप सिंह पुत्र बीरेंदर सिंह पुत्र गुरदयाल 43/2740 भाग संदीप कुमार पुत्र मोती सिंह पुत्र शेर सिंह 37/1370 भाग रेनू सिंह पुत्र व संतोष देवी विधवा मोती सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो सनभाग 26/685 भाग नीतू देवी पुत्री मोती सिंह शेर सिंह 127/1370 भाग वासीदेह (61//23)
90	61//3/1	निजी	कृषि	0.1771	मनोज कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दोसमभाग वासीदेह (61//3/1)
91	61//3/2	निजी	कृषि	0.1138	जयदयाल पुत्र नेतराम पुत्र रामरतन 1/3 भाग प्यारेलाल हरप्रसाद कैलाश अशोक पुत्र & कमला शकुंतला सबिता पत्नी व श्रीमती. मेवा विधवा बंशी हर 8 समभाग 1/3 भाग रघुवीर सिंह रोहतास प्रताप रामनिवास रणधीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र नेतराम हर 5 समभाग 5/18 भाग बबीता पत्नी कंवर सिंह पत्नी दुलीचंद 1/18 भाग वासीदेह (61//3/2)
92	61//8	निजी	कृषि	0.258	जयदयाल पुत्र नेतराम पुत्र रामरतन 1/3 भाग प्यारेलाल हरप्रसाद कैलाश अशोक पुत्र & कमला शकुंतला सबिता पत्नी व श्रीमती. मेवा विधवा बंशी हर 8 समभाग 1/3 भाग रघुवीर सिंह रोहतास प्रताप रामनिवास रणधीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र नेतराम हर 5 समभाग 5/18 भाग बबीता पत्नी कंवर सिंह पत्नी दुलीचंद 1/18 भाग वासीदेह (61//8)
93	61//9	निजी	कृषि	0.1897	जयदयाल पुत्र नेतराम पुत्र रामरतन 1/3 भाग प्यारेलाल हरप्रसाद कैलाश अशोक पुत्र & कमला शकुंतला सबिता पत्नी व श्रीमती. मेवा विधवा बंशी हर 8 समभाग 1/3 भाग रघुवीर सिंह रोहतास प्रताप रामनिवास रणधीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र नेतराम हर 5 समभाग 5/18 भाग बबीता पत्नी कंवर सिंह पत्नी दुलीचंद

					1/18 भाग वासीदेह (61//9)
94	63//25	निजी	कृषि	0.0025	प्रताप सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 59/2740 भाग टेकचंद पुत्र हरीराम 117/1370 भाग धनसिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र हरीराम 35/548 भाग सबई सिंह पुत्र हरीराम 989/2740 भाग मोहन कुमार राजपाल पुत्र हरफूल सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 3/1370 भाग निम्बो देवी पत्नी हरफूल पुत्र शेर सिंह 17/2740 भाग सांता देवी पत्नी प्रताप सिंह पुत्र बीरेंदर सिंह पुत्र गुरदयाल 43/2740 भाग संदीप कुमार पुत्र मोती सिंह पुत्र शेर सिंह 37/1370 भाग रेनू सिंह पुत्र व संतोष देवी विधवा मोती सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 26/685 भाग नीतू देवी पुत्री मोती सिंह शेर सिंह 127/1370 भाग वासीदेह (63//25)
95	64//1	निजी	कृषि	0.0809	ओमप्रकाश रमेशचंद पुत्र प्रभाती पुत्र गिरधारी हर दो समभाग 2/3 भाग श्रीमती सुरजी माता व जसवीर सिंह विनीत पुत्र व श्रीमती चंद्र देवी विधवा जयसिंह प्रभाती हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह (64//1)
96	64//10	निजी	कृषि	0.1568	रामकर्ण पुत्र साभचन्द पुत्र हीरा 75/2326 भाग जगतसिंह पुत्र सभाचन्द पुत्र हीरा 388/12163 भाग हवासिंह सिंह सभाचन्द पुत्र हीरा 135/2326 भाग राजवीर सिंह पुत्र गोमाराम पुत्र नेता राम 160/1163 भाग श्रीमती . सकुंतला देवी विधवा व देवदत्त सिध्दार्थ पुत्र जोगेंद्र सिंह सरजीत सिंह हर तीन समभाग 32/1163 भाग वासीदेह अशोक कुमार पुत्र व सुमन देवी सुषमा देवी पुत्री व श्रीमती . समै कौर विधवा सरजीत सिंह पुत्र गोमा हर चार समभाग 128/1163 भाग वाशी दुलोठ जाट अनूप सिंह प्रीतम सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र रिसाल सिंह हर दो समभाग 350/1163 भाग वासी बसई जिला गुडगांव

					(64//10)
97	64//11	निजी	कृषि	0.2327	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (64//11)
98	64//12	निजी	कृषि	0.2074	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (64//12)
99	64//2/1	निजी	कृषि	0.101172	ओमप्रकाश रमेशचंद्र पुत्र प्रभाती पुत्र गिरधारी हर दो समभाग 2/3 भाग

					श्रीमती सुरजी माता व जसवीर सिंह विनीत पुत्र व श्रीमती चंद्र देवी विधवा जयसिंह प्रभाती हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह (64//2/1)
100	64//2/2	निजी	कृषि	0.258	रामकर्ण पुत्र साभचन्द पुत्र हीरा 75/2326 भाग जगतसिंह पुत्र सभाचन्द पुत्र हीरा 388/12163 भाग हवासिंह सिंह सभाचन्द पुत्र हीरा 135/2326 भाग राजवीर सिंह पुत्र गोमाराम पुत्र नेता राम 160/1163 भाग श्रीमती . सकुंतला देवी विधवा व देवदत्त सिध्दार्थ पुत्र जोगेंद्र सिंह सरजीत सिंह हर तीन समभाग 32/1163 भाग वासीदेह अशोक कुमार पुत्र व सुमन देवी सुषमा देवी पुत्री व श्रीमती . समै कौर विधवा सरजीत सिंह पुत्र गोमा हर चार समभाग 128/1163 भाग वाशी दुलोठ जाट अनूप सिंह प्रीतम सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र रिसाल सिंह हर दो समभाग 350/1163 भाग वासी बसई जिला गुडगांव (64//2/2)
101	64//20	निजी	कृषि	0.3086	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर द्वः 80/1989 भाग वासीदेह (64//20)

102	64//21	निजी	कृषि	0.3769	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (64//21)
103	64//22	निजी	कृषि	0.0101	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (64//22)
104	64//9	निजी	कृषि	0.2833	ओमप्रकाश रमेशचंद्र पुत्र प्रभाती पुत्र गिरधारी हर दो समभाग 2/3 भाग श्रीमती सुरजी माता व जसवीर सिंह

					विनीत पुत्र व श्रीमती चंद्र देवी विधवा जयसिंह प्रभाती हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह (64//9)
105	73//1/1	निजी	कृषि	0.2074	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (73//1/1)
106	73//1/2	निजी	कृषि	0.1037	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह

					(73//1/2)
107	73//10/1	निजी	कृषि	0.1113	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (73//10/1)
108	73//10/2	निजी	कृषि	0.0405	ग्राम पंचायत देह (73//10/2)
109	73//10/3	निजी	कृषि	0.0354	ग्राम पंचायत देह (73//10/3)
110	73//11	निजी	कृषि	0.2023	ग्राम पंचायत देह (73//11)
111	73//2	निजी	कृषि	0.0025	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र

					दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (73//2)
112	74//15/1	निजी	कृषि	0.0531	ग्राम पंचायत देह (74//15/1)
113	74//15/2	निजी	कृषि	0.0607	ग्राम पंचायत देह (74//15/2)
114	74//5/2	निजी	कृषि	0.0556	कर्णसिंह पुत्र डालू पुत्र श्योदयाल 253/1989 भाग राजेश कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र करण सिंह पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग सुकर्म सिंह विक्रम सिंह पुत्र सुभाष पुत्र डालू हर दो समभाग 62/663 भाग मुकेश कुमार पुत्र व बबली रोशनी देवी पुत्री सजना देवी पुत्री डालू हर तीन समभाग 83/1326 भाग राजेश सिंह तेजपाल पुत्र रिशाल पुत्र श्योदयाल हर दो समभाग 83/1326 भाग श्रीमती रामरती विधवा रामचंद्र पुत्र गगन 1675/3978 भाग श्रीमती फूलवती विधवा सुभाष पुत्र डालू 83/3978 भाग बलवान सिंह पुत्र हरदयाल सिंह पुत्र रामजीलाल 76/1989 भाग अनिल कुमार पुत्र कुंवर सिंह पुत्र दौलाराम 80/1989 भाग मुख्त्यार सिंह , अतर सिंह सतवीर पुत्र व लखपति सुनहरी पुत्री व श्रवन देवी विधवा रामजीलाल हर छः 80/1989 भाग वासीदेह (74//5/2)
115	74//6	निजी	कृषि	0.0784	ग्राम पंचायत देह (74//6)
तालुक का नाम: कनीना					
गांव का नाम: खेड़ी					
1	1//12	निजी	कृषि	0.1366	जयपाल सिंह मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह पुत्र व अतरिबै बालाबाई पुत्री जगपाल सिंह लष्मणसिंह हर पांच समभाग 5/21 भाग होशयार सिंह पुत्र जोखि पुत्र उमडा 1/3 भाग तेजपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लष्मणसिंह 2/6951 भाग रधुपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लक्समन सिंह 17/2317 भाग

					श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कैलाश पुत्र सांवल 29/331 भाग वासिदेह मनोज राजकुमार पुत्र व मंजू पुत्री व चंद्रो विधवा जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन हर चार समभाग 1/3 भाग वासी सेहलंग (1/12)
2	1/13/1	निजी	कृषि	0.1391	जयपाल सिंह मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह पुत्र व अतरिबै बालाबाई पुत्री जगपाल सिंह लष्मणसिंघ हर पांच समभाग 5/21 भाग होशयार सिंह पुत्र जोखि पुत्र उमडा 1/3 भाग तेजपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लष्मणसिंघ 2/6951 भाग रधुपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लक्समन सिंह 17/2317 भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कैलाश पुत्र सांवल 29/331 भाग वासिदेह मनोज राजकुमार पुत्र व मंजू पुत्री व चंद्रो विधवा जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन हर चार समभाग 1/3 भाग वासी सेहलंग (1/13/1)
3	1/13/2	निजी	कृषि	0.1088	चन्दर पुत्र सलग पुत्र विशाल सिंह 1/4 भाग तेजपाल वेदपाल पुत्र मामराज पुत्र दरियाई हर दो समभाग 7/48 भाग शांति विधवा मामराज पुत्र दरियाई 1/96 भाग बलवीर रविंद्र पुत्र मामचंद पुत्र गुलाब हर दो समभाग 1/4 भाग वासिदेह धर्मपाल रामभूल बंशी पुत्र कालूराम हर तीन समभाग 1/8 भाग वासी भगौत तेह. डिस. महेंद्रगढ रामसिंघ पुत्र जालूराम पुत्र कालूराम 1/8 भाग वासी भगौत तेह. डिस. महेंद्रगढ जगपाल पुत्र दरियाई पुत्र सलग 1/16 भाग सुरेश नरेश महेंद्र पुत्र जगपाल हर तीन समभाग 1/32 भाग वासिदेह (1/13/2)
4	1/18	निजी	कृषि	0.2732	जयपाल सिंह मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह पुत्र व अतरिबै बालाबाई पुत्री जगपाल सिंह लष्मणसिंघ हर पांच समभाग 5/21 भाग होशयार सिंह पुत्र जोखि पुत्र उमडा 1/3 भाग तेजपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लष्मणसिंघ 2/6951 भाग रधुपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लक्समन सिंह 17/2317 भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कैलाश पुत्र

					सांवल 29/331 भाग वासिदेह मनोज राजकुमार पुत्र व मंजू पुत्री व चंद्रो विधवा जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन हर चार समभाग 1/3 भाग वासी सेहलंग (1//18)
5	1//19	निजी	कृषि	0.1619	जयपाल सिंह मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह पुत्र व अतरिबै बालाबाई पुत्री जगपाल सिंह लष्मणसिंघ हर पांच समभाग 5/21 भाग होशयार सिंह पुत्र जोखि पुत्र उमडा 1/3 भाग तेजपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लष्मणसिंघ 2/6951 भाग रधुपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लक्समन सिंह 17/2317 भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कैलाश पुत्र सांवल 29/331 भाग वासिदेह मनोज राजकुमार पुत्र व मंजू पुत्री व चंद्रो विधवा जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन हर चार समभाग 1/3 भाग वासी सेहलंग (1//19)
6	1//2	निजी	कृषि	0.1113	विजय पाल सिंह पुत्री व चित्र देवी विधवा अमरसिंघ पुत्र सावत सिंह हर दो समभाग 53/1292 भाग हंसी भूरी नवल संतोष पुत्री अमरसिंघ सावत सिंह हर चार समभाग मन सिंह पुत्र मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 41/1938 भाग संतोषबाई पुत्री मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 43/1292 भाग जोहरी सिंह पुत्र सावत सिंह रामनाथ सिंह 80/323 भाग गिंदौड़ी विधवा बढ सिंह पुत्र सावत सिंह 40/323 भाग राजेंद्र प्रसाद पुत्र बदलू राम पुत्र नत्थूराम 155/1292 भाग रोहताश पुत्र मातु पुत्र उमडी 215/2584 भाग सुनील कुमार्पुत्र व ललिता पुत्री व विमला विधवा श्रीराम पुत्र मातु हर तीन समभाग 18/323 भाग कृष्णा बाई, मगनभाई पुत्री मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह हर दो समभाग 53/1292 भाग महेंद्र सिंह पुत्र मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 181/3876 भाग श्रीमती रामरती विधवा व श्रीमती रेखा सिमा रेनू पुत्री व राजेश पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र मामराज हर पांच समभाग 41/1938 भाग वासिदेह रामकिशन हवासिंह कृष्ण पुत्र व सुदेश संतोष, किरण

					पुत्री व चावली विधवा बनवारी पुत्र मातु हर सात समभाग 215/2584 भाग वासी भगौत (1/2)
7	1/22	निजी	कृषि	0.1821	जयपाल सिंह मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह पुत्र व अतरिबै बालाबाई पुत्री जगपाल सिंह लष्मणसिंघ हर पांच समभाग 5/21 भाग होशयार सिंह पुत्र जोखि पुत्र उमडा 1/3 भाग तेजपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लष्मणसिंघ 2/6951 भाग रधुपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लक्समन सिंह 17/2317 भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कैलाश पुत्र सांवल 29/331 भाग वासिदेह मनोज राजकुमार पुत्र व मंजू पुत्री व चंद्रो विधवा जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन हर चार समभाग 1/3 भाग वासी सेहलंग (1/22)
8	1/23	निजी	कृषि	0.2529	जयपाल सिंह मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह पुत्र व अतरिबै बालाबाई पुत्री जगपाल सिंह लष्मणसिंघ हर पांच समभाग 5/21 भाग होशयार सिंह पुत्र जोखि पुत्र उमडा 1/3 भाग तेजपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लष्मणसिंघ 2/6951 भाग रधुपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लक्समन सिंह 17/2317 भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कैलाश पुत्र सांवल 29/331 भाग वासिदेह मनोज राजकुमार पुत्र व मंजू पुत्री व चंद्रो विधवा जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन हर चार समभाग 1/3 भाग वासी सेहलंग (1/23)
9	1/3	निजी	कृषि	0.2959	विजय पाल सिंह पुत्री व चित्र देवी विधवा अमरसिंघ पुत्र सावत सिंह हर दो समभाग 53/1292 भाग हंसी भूरी नवल संतोष पुत्री अमरसिंघ सावत सिंह हर चार समभाग मन सिंह पुत्र मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 41/1938 भाग संतोषबाई पुत्री मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 43/1292 भाग जोहरी सिंह पुत्र सावत सिंह रामनाथ सिंह 80/323 भाग गिंदौड़ी विधवा बढ सिंह पुत्र सावत सिंह 40/323 भाग राजेंद्र प्रसाद पुत्र बदलू राम पुत्र

					<p>नत्थूराम 155/1292 भाग रोहताश पुत्र मातु पुत्र उमड़ी 215/2584 भाग सुनील कुमार्पुत्र व ललिता पुत्री व विमला विधवा श्रीराम पुत्र मातु हर तीन समभाग 18/323 भाग कृष्णा बाई, मगनभाई पुत्री मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह हर दो समभाग 53/1292 भाग महेंद्र सिंह पुत्र मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 181/3876 भाग श्रीमती रामरती विधवा व श्रीमती रेखा सिमा रेनू पुत्री व राजेश पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र मामराज हर पांच समभाग 41/1938 भाग वासिदेह रामकिशन हवासिंह कृष्ण पुत्र व सुदेश संतोष, किरण पुत्री व चावली विधवा बनवारी पुत्र मातु हर सात समभाग 215/2584 भाग वासी भगौत (1/3)</p>
10	1/9/1	निजी	कृषि	0.1012	<p>विजय पाल सिंह पुत्री व चित्र देवी विधवा अमरसिंह पुत्र सावत सिंह हर दो समभाग 53/1292 भाग हंसी भूरी नवल संतोष पुत्री अमरसिंह सावत सिंह हर चार समभाग मन सिंह पुत्र मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 41/1938 भाग संतोषबाई पुत्री मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 43/1292 भाग जोहरी सिंह पुत्र सावत सिंह रामनाथ सिंह 80/323 भाग गिंदौड़ी विधवा बद्ध सिंह पुत्र सावत सिंह 40/323 भाग राजेंद्र प्रसाद पुत्र बदलू राम पुत्र नत्थूराम 155/1292 भाग रोहताश पुत्र मातु पुत्र उमड़ी 215/2584 भाग सुनील कुमार्पुत्र व ललिता पुत्री व विमला विधवा श्रीराम पुत्र मातु हर तीन समभाग 18/323 भाग कृष्णा बाई, मगनभाई पुत्री मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह हर दो समभाग 53/1292 भाग महेंद्र सिंह पुत्र मामराज सिंह पुत्र सावत सिंह 181/3876 भाग श्रीमती रामरती विधवा व श्रीमती रेखा सिमा रेनू पुत्री व राजेश पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र मामराज हर पांच समभाग 41/1938 भाग वासिदेह रामकिशन हवासिंह कृष्ण पुत्र व सुदेश संतोष, किरण पुत्री व चावली विधवा बनवारी पुत्र मातु हर सात समभाग 215/2584 भाग वासी</p>

					भगौत (1/9/1)
11	1/9/2	निजी	कृषि	0.0076	जयपाल सिंह मोहनपाल सिंह रामपाल सिंह पुत्र व अतरिबै बालाबाई पुत्री जगपाल सिंह लष्मणसिंह हर पांच समभाग 5/21 भाग होशयार सिंह पुत्र जोखि पुत्र उमडा 1/3 भाग तेजपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लष्मणसिंह 2/6951 भाग रधुपाल सिंह पुत्र जगपाल सिंह पुत्र लक्समन सिंह 17/2317 भाग श्रीमती सुनीता देवी पत्नी कैलाश पुत्र सांवल 29/331 भाग वासिदेह मनोज राजकुमार पुत्र व मंजू पुत्री व चंद्रो विधवा जगदीश प्रसाद पुत्र राधाकिशन हर चार समभाग 1/3 भाग वासी सेहलंग (1/9/2)
12	101/12	निजी	कृषि	0.301	गंगपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 267/1355 भाग देशराज सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 331/2710 भाग छत्रपाल सिंह पुत्र लाल सिंह 399/2710 भाग श्रीमती विनीता देवी पत्नी हंसराज सिंह पुत्र रोहताश सिंह 53/2710 भाग कृषणपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 63/1355 भाग मनोज कुमार पुत्र जगदीश सिंह पुत्र रुडसिंघ 82/1355 भाग कुलदीप पुत्र सरजीत पुत्र रउडसिंघ 13/2710 भाग संदीप प्रदीप पुत्र सरजीत पुत्र रउडसिंघ हर दो समभाग 13/1355 भाग रविंद्र सिंह मनोज पुत्र व श्रीमती कुसुम पुत्री व श्रीमती बर्फी विधवा राजपाल पुत्र नत्थू हर चार समभाग 226/1355 भाग धर्मपाल सिंह महावीर सिंह पुत्र उडाय सिंह पुत्र नत्थू हर दो समभाग 33/271 भाग विनोद भूषण वेदप्रकाश अजय सिंह पुत्र व श्रीमती आशा उषा पुत्री व श्रीमती बन देवी विधवा श्रीपाल सिंह रामनारायण हर सात समभाग 16/271 भाग रणसिंघ राजेंद्र सिंह सत्यवीर सिंह पुत्र व शकुंतला देवी विधवा बचन सिंह पुत्र दीपसिंघ हर चार समभाग 61/1355 भाग वासिदेह (101/12)
13	101/13/1	निजी	कृषि	0.1062	रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल पुत्र

					रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग कारन सिंह रामोतार सिंह राजवीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र जोरावर सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग केहर सिंह चेतभान मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर चार समभाग 1/3 भाग रिकू पुत्र व रेखा विधवा प्रदीप पुत्र जयनारायण हर दो समभाग 1/12 भाग वासिदेह (101//13/1)
14	101//18	निजी	कृषि	0.0228	केहर सिंह चेतभान सिंह मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र व कृष्णा उषा संतोष पुत्री व रेशम देवी विधवा ओकर सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर 8 समभाग 1/3 भाग कारण सिंह रामोतार राजवीर प्रदीप पुत्र व अंतर कमलेश निर्मला पुत्री जयनारायण पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/3 भाग रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग वासिदेह (101//18)
15	101//19	निजी	कृषि	0.3971	केहर सिंह चेतभान सिंह मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र व कृष्णा उषा संतोष पुत्री व रेशम देवी विधवा ओकर सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर 8 समभाग 1/3 भाग कारण सिंह रामोतार राजवीर प्रदीप पुत्र व अंतर कमलेश निर्मला पुत्री जयनारायण पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/3 भाग रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग वासिदेह (101//19)
16	101//20	निजी	कृषि	0.0329	केहर सिंह चेतभान सिंह मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र व कृष्णा उषा संतोष पुत्री व रेशम देवी विधवा ओकर सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर 8 समभाग 1/3 भाग कारण सिंह रामोतार राजवीर प्रदीप पुत्र व अंतर कमलेश निर्मला पुत्री जयनारायण पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/3 भाग रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग वासिदेह

					(101//20)
17	101//21	निजी	कृषि	0.1315	केहर सिंह चेतभान सिंह मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र व कृष्णा उषा संतोष पुत्री व रेशम देवी विधवा ओकर सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर 8 समभाग 1/3 भाग कारण सिंह रामौतार राजवीर प्रदीप पुत्र व अंतर कमलेश निर्मला पुत्री जयनारायण पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/3 भाग रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग वासिदेह (101//21)
18	101//22	निजी	कृषि	0.3238	रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल पुत्र रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग कारन सिंह रामोतार सिंह राजवीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र जोरावर सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग केहर सिंह चेतभान मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर चार समभाग 1/3 भाग रिकू पुत्र व रेखा विधवा प्रदीप पुत्र जयनारायण हर दो समभाग 1/12 भाग वासिदेह (101//22)
19	101//3	निजी	कृषि	0.2656	गजराज सिंह बलवीर सिंह पुत्र व अनूप बाई पुत्री रामनारायण सिंह पुत्र चंदू सिंह हर तीन समभाग 3/4 भाग अनिल कुमार सुनील कुमार रविंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती सविता पुत्री महावीर सिंह पुत्र रामनारायण हर चार समभाग 1/4 भाग वासिदेह (101//3)
20	101//8/1	निजी	कृषि	0.1315	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी रतिपाल पुत्र मल्लू सिंह 20/73 भाग श्रीमती पूजा देवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र ओमकार सिंह 20/73 भाग किरणबाई विधवा रामकवर सिंह पुत्र संदल 3/73 भाग अनिल कुमार सुनील कुमार रविंद्र सिंह पुत्र महावीर सिंह पुत्र रामनारायण हर तीन समभाग 30/73 भाग वासिदेह (101//8/1)
21	101//8/2	निजी	कृषि	0.0809	गंगपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 267/1355 भाग देशराज सिंह पुत्र नत्थू

				<p>सिंह पुत्र लाल सिंह 331/2710 भाग छत्रपाल सिंह पुत्र लाल सिंह 399/2710 भाग श्रीमती विनीता देवी पत्नी हंसराज सिंह पुत्र रोहताश सिंह 53/2710 भाग कृष्णपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 63/1355 भाग मनोज कुमार पुत्र जगदीश सिंह पुत्र रुडसिंघ 82/1355 भाग कुलदीप पुत्र सरजीत पुत्र रउडसिंघ 13/2710 भाग संदीप प्रदीप पुत्र सरजीत पुत्र रउडसिंघ हर दो समभाग 13/1355 भाग रविंद्र सिंह मनोज पुत्र व श्रीमती कुसुम पुत्री व श्रीमती बर्फी विधवा राजपाल पुत्र नत्थू हर चार समभाग 226/1355 भाग धर्मपाल सिंह महावीर सिंह पुत्र उडाय सिंह पुत्र नत्थू हर दो समभाग 33/271 भाग विनोद भूषण वेदप्रकाश अजय सिंह पुत्र व श्रीमती आशा उषा पुत्री व श्रीमती बन देवी विधवा श्रीपाल सिंह रामनारायण हर सात समभाग 16/271 भाग रणसिंघ राजेंद्र सिंह सत्यवीर सिंह पुत्र व शकुंतला देवी विधवा बचन सिंह पुत्र दीपसिंघ हर चार समभाग 61/1355 भाग वासिदेह (101//8/2)</p>	
22	101//9/1	निजी	कृषि	0.0303516	<p>गंगपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 267/1355 भाग देशराज सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 331/2710 भाग छत्रपाल सिंह पुत्र लाल सिंह 399/2710 भाग श्रीमती विनीता देवी पत्नी हंसराज सिंह पुत्र रोहताश सिंह 53/2710 भाग कृष्णपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 63/1355 भाग मनोज कुमार पुत्र जगदीश सिंह पुत्र रुडसिंघ 82/1355 भाग कुलदीप पुत्र सरजीत पुत्र रउडसिंघ 13/2710 भाग संदीप प्रदीप पुत्र सरजीत पुत्र रउडसिंघ हर दो समभाग 13/1355 भाग रविंद्र सिंह मनोज पुत्र व श्रीमती कुसुम पुत्री व श्रीमती बर्फी विधवा राजपाल पुत्र नत्थू हर चार समभाग 226/1355 भाग धर्मपाल सिंह महावीर सिंह पुत्र उडाय सिंह पुत्र नत्थू हर दो समभाग 33/271 भाग विनोद भूषण वेदप्रकाश अजय सिंह पुत्र व श्रीमती आशा</p>

					उषा पुत्री व श्रीमती बन देवी विधवा श्रीपाल सिंह रामनारायण हर सात समभाग 16/271 भाग रणसिंघ राजेंद्र सिंह सत्यवीर सिंह पुत्र व शकुंतला देवी विधवा बचन सिंह पुत्र दीपसिंघ हर चार समभाग 61/1355 भाग वासिदेह (101//9/1)
23	101//9/2	निजी	कृषि	0.2074	राजपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह 1/6 भाग छत्रपाल सिंह गंगपाल सिंह , कृषणपाल सिंह देशराज सिंह पुत्र नत्थू सिंह पुत्र लाल सिंह हर चार समभाग 535/1167 भाग धर्मपाल सिंह महावीर सिंह पुत्र उडाय सिंह पुत्र नत्थू हर दो समभाग 1/6 भाग वासिदेह वीरपाल ब्रह्मपाल पुत्र वेदराम पुत्र रामचंद्र हर दो समभाग 81/389 भाग वासी मोहम्मदपुर झाड़सा जी. गुड़गांव (101//9/2)
24	13//12	निजी	कृषि	0.3541	रामौतार पुत्र श्रीमती मौन पुत्री बीरबल 1/12 भाग हनुमान कृषणपाल पुत्र छगन पुत्र रामनाथ हर दो समभाग 1/2 भाग रामसिंघ पुत्र श्रीमती मैना पुत्र वीरबल 1/6 भाग बाघसिंघ पुत्र छगन पुत्र रामनाथ 139/716 भाग वासिदेह श्रीमती सुमन पत्नी सुरेश चाँद पुत्र चंद्र सिंह 10/179 भाग वासी सेहलंग (13//12)
25	13//13	निजी	कृषि	0.0809	मजीदख पुत्र अब्दुल पुत्र चोटें 1/4 भाग वासिदेह प्रेमलता पत्नी वेदप्रकाश पुत्र शुभराम 1/2 भाग वासी पय्याताह महेन्द्रग सत्यवीर खान सरोपखान रमेश कुमार जमालुदीन हुसैनखाँ रिजक खान ालिमोहमदखाँ पुत्र निजामुदीन पुत्र छोटन हर सात समभाग 1/4 भाग वासिदेह (13//13)
26	13//18/1	निजी	कृषि	0.0582	रजला भोपाल इसब सरोजखाँ पुत्र सलामुदीन पुत्र चोटें हर चार समभाग 1/4 भाग कमरुदीन पुत्र छोटन पुत्र कालू 1/4 भाग मंजीद पुत्र अब्दुल पुत्र छोटन 1/4 भाग सत्यवीर खान लीलाखाँ रमेश कुमार जमालुदीन हुसैनखाँ रिजक खान

					अनिमोहमदखां पुत्र निजामुद्दीन पुत्र छोटन हर सात समभाग 1/4 भाग वासिदेह (13//18/1)
27	13//19	निजी	कृषि	0.3743	रामौतार पुत्र श्रीमती मौन पुत्री बीरबल 1/12 भाग हनुमान कृष्णपाल पुत्र छगन पुत्र रामनाथ हर दो समभाग 1/2 भाग रामसिंघ पुत्र श्रीमती मैना पुत्र बीरबल 1/6 भाग बाघसिंघ पुत्र छगन पुत्र रामनाथ 139/716 भाग वासिदेह श्रीमती सुमन पत्नी सुरेश चाँद पुत्र चंद्र सिंह 10/179 भाग वासी सेहलंग (13//19)
28	13//2	निजी	कृषि	0.3136	ओमवीर पुत्र सोहनलाल 1/2 भाग वासी सेहलंग ऋषिराज पुत्र जगदीश पुत्र सुल्तान 1/2 भाग वासी सेहलंग (13//2)
29	13//3	निजी	कृषि	0.1214	पारवती विधवा व मनभावती गिंदौड़ी फूलबाई मोसंबै वासंती बाई लालबाई पुत्री व तुलसीराम फूलचंद मोतीलाल लक्समीनारायण जगदीशप्रसाद पुत्र मातादीन पुत्र किसनलाल हर बारह समभाग 413/1654 भाग नेत्रं दत्तक पुत्र जेठमल पुत्र चुन्नीलाल 205/1654 भाग सुरेंद्र सिंह , महेश कुमार पुत्र रामकवर पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 159/1654 भाग प्रकाश सिंह रमेश सिंह अजय सिंह , विजय सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र ररामलल सिंह हर चार समभाग 567/1654 भाग नरगी पुत्री जेठमल पुत्र चुन्नीलाल 155/1654 भाग बनारसी पुत्र व कमला संतोष पुत्री नारंगी हर तीन समभाग 15/2481 भाग विनोद सत्यनारायण पुत्र श्योबाई पुत्री जेठमल हर दो समभाग 155/1654 भाग वासिदेह (13//3)
30	13//8	निजी	कृषि	0.1012	रजला भोपाल इसब सरोजखां पुत्र सलामुद्दीन पुत्र चोटें हर चार समभाग 1/4 भाग कमरुद्दीन पुत्र छोटन पुत्र कालू 1/4 भाग मंजीद पुत्र अब्दुल पुत्र छोटन 1/4 भाग सत्यवीर खान लीलाखां रमेश कुमार जमालुद्दीन हुसैनखाँ रिजक खान अनिमोहमदखां पुत्र निजामुद्दीन पुत्र छोटन

					हर सात समभाग 1/4 भाग वासिदेह (13//8)
31	13//9	निजी	कृषि	0.3339	ओमवीर पुत्र सोहनलाल 1/2 भाग वासी सेहलंग ऋषिराज पुत्र जगदीश पुत्र सुल्तान 1/2 भाग वासी सेहलंग (13//9)
32	169	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.1012	नगर पंचायत (169)
33	18//1	निजी	कृषि	0.0076	माम्राजसिंघ महेंद्र सिंह रविंद्र सिंह पुत्र व शकुंतला पुत्री व विद्यावती विधवा रामकवर सिंह पुत्र साधु सिंह हर पांच समभाग 1/8 भाग संवत सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र जोधा सिंह 1/8 भाग श्रीमती ममता सिमा पुत्री शैतान सिंह हर दो समभाग 1/50 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अशोक सिंह पुत्र जगदीश 3/100 भाग फ़कीर सिंह पुत्र साधु 1/20 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 1/20 भाग लक्समीनारयण ईश्वर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र गोपाल हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती सूरजबाई पुत्री साधु सिंह पुत्र जोधा 1/8 भाग सुंदरलाल पुत्र श्रीमती कमलबाई पुत्री साधु सिंह 1/8 भाग श्रीमती सरोज पुत्री व श्रीमती शांत विधवा रामोतार पुत्र साधु सिंह हर दो समभाग 1/20 भाग सुरेंद्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 31/6640 भाग वासिदेह श्रीमती सविता देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र रामोतार 27/1328 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग वासिदेह श्रीमती मंजू देवी पत्नी बिजेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत बिजेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग श्रीमती अनीता पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग जगरूप सिंह जगदीश सिंह पुत्र व कश्मीरी ोम्बई किशना पुत्री मूल सिंह हर पांच समभाग 35/288 भाग पंकज पुत्र व पूनम पुत्री व श्रीमती संतोष विधवा शिव कुमार पुत्र मूल सिंह हर 3 समभाग 1/288 भगा पदम् सिंह पुत्र शीशपाल 567/24940 भाग श्रीमती

					शकुंतला पत्नी शिव कुमार पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग श्रीमती रेखा पत्नी गोविन्द पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग वासिदेह (18//1)
34	18//10	निजी	कृषि	0.0278	<p>माम्राजसिंघ महेंद्र सिंह रविंद्र सिंह पुत्र व शकुंतला पुत्री व विद्यावती विधवा रामकवर सिंह पुत्र साधु सिंह हर पांच समभाग 1/8 भाग संवत सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र जोधा सिंह 1/8 भाग श्रीमती ममता सिमा पुत्री शैतान सिंह हर दो समभाग 1/50 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अशोक सिंह पुत्र जगदीश 3/100 भाग फ़कीर सिंह पुत्र साधु 1/20 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 1/20 भाग लक्समीनारयण ईश्वर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र गोपाल हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती सूरजबाई पुत्री साधु सिंह पुत्र जोधा 1/8 भाग सुंदरलाल पुत्र श्रीमती कमलबाई पुत्री साधु सिंह 1/8 भाग श्रीमती सरोज पुत्री व श्रीमती शांत विधवा रामोतार पुत्र साधु सिंह हर दो समभाग 1/20 भाग सुरेंद्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 31/6640 भाग वासिदेह श्रीमती सविता देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र रामोतार 27/1328 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग वासिदेह श्रीमती मंजू देवी पत्नी बिजेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत बिजेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग श्रीमती अनीता पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग जगरूप सिंह जगदीश सिंह पुत्र व कश्मीरी ोम्बई किशना पुत्री मूल सिंह हर पांच समभाग 35/288 भाग पंकज पुत्र व पूनम पुत्री व श्रीमती संतोष विधवा शिव कुमार पुत्र मूल सिंह हर 3 समभाग 1/288 भगा पदम् सिंह पुत्र शीशपाल 567/24940 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिव कुमार पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग श्रीमती रेखा पत्नी गोविन्द पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग</p>

					वासिदेह (18//10)
35	18//11	निजी	कृषि	0.0506	रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल पुत्र रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग कारन सिंह रामोतार सिंह राजवीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र जोरावर सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग केहर सिंह चेतभान मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर चार समभाग 1/3 भाग रिकू पुत्र व रेखा विधवा प्रदीप पुत्र जयनारायण हर दो समभाग 1/12 भाग वासिदेह (18//11)
36	18//12	निजी	कृषि	0.3845	रिपुदमन शिवकुमार पुत्र तेजपाल पुत्र रामस्वरूप हर दो समभाग 1/3 भाग कारन सिंह रामोतार सिंह राजवीर सिंह पुत्र जयनारायण पुत्र जोरावर सिंह हर तीन समभाग 1/4 भाग केहर सिंह चेतभान मोतीसागर सुरेंद्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह पुत्र जोरावर सिंह हर चार समभाग 1/3 भाग रिकू पुत्र व रेखा विधवा प्रदीप पुत्र जयनारायण हर दो समभाग 1/12 भाग वासिदेह (18//12)
37	18//19	निजी	कृषि	0.3642	ओमबाई पुत्री मुसाडी सिंह पुत्र कान्हा 1/4 भाग ओमबाई पुत्री मुसाडी सिंह पुत्र कान्हा 1/4 भाग सुरेंद्र सिंह बिजेन्द्र सिंह पुत्र व मुन्नीबाई गुड्डी बाला मंजू पुत्री व सरोज देवी विधवा रणजीत सिंह दत्तक पुत्र शैतान सिंह हर सात समभाग 1/4 भाग पैन सिंह पुत्र रिछपाल सिंह पुत्र दानवंत सिंह 1/4 भाग वासिदेह (18//19)
38	18//2	निजी	कृषि	0.3945	माम्राजसिंघ महेंद्र सिंह रविंद्र सिंह पुत्र व शकुंतला पुत्री व विद्यावती विधवा रामकवर सिंह पुत्र साधु सिंह हर पांच समभाग 1/8 भाग संवत सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र जोधा सिंह 1/8 भाग श्रीमती ममता सिमा पुत्री शैतान सिंह हर दो समभाग 1/50 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अशोक सिंह पुत्र जगदीश 3/100 भाग फ़कीर सिंह पुत्र साधु 1/20 भाग

				<p>अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 1/20 भाग लक्समीनारयण ईश्वर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र गोपाल हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती सूरजबाई पुत्री साधु सिंह पुत्र जोधा 1/8 भाग सुंदरलाल पुत्र श्रीमती कमलबाई पुत्री साधु सिंह 1/8 भाग श्रीमती सरोज पुत्री व श्रीमती शांत विधवा रामोतार पुत्र साधु सिंह हर दो समभाग 1/20 भाग सुरेंद्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 31/6640 भाग वासिदेह श्रीमती सविता देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र रामोतार 27/1328 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग वासिदेह श्रीमती मंजू देवी पत्नी बिजेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत बिजेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग श्रीमती अनीता पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग जगरूप सिंह जगदीश सिंह पुत्र व कश्मीरी ोम्बई किशना पुत्री मूल सिंह हर पांच समभाग 35/288 भाग पंकज पुत्र व पूनम पुत्री व श्रीमती संतोष विधवा शिव कुमार पुत्र मूल सिंह हर 3 समभाग 1/288 भगा पदम् सिंह पुत्र शीशपाल 567/24940 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिव कुमार पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग श्रीमती (18//2)</p>	
39	18//20	निजी	कृषि	0.0708	<p>ओमप्रकाश अशोक पवन कुमार पुत्र दलीप सिंह पुत्र बीजा हर तीन संभाग २८०/१५७९ भाग मुन्नी लाली पुत्री दलीप सिंह पुत्र बीजा सिंह हर दो संभाग १३२/१५७९ भाग उर्मिला देवी पत्नी धर्मवीर सिंह पुत्र हरनारायण ४०/१५७९ भाग महावीर सिंह रणजीत सिंह कृष्ण सिंह पुत्र व कृष्णा रतना देवी पुत्री व नीतानंदी विधवा गोपाल सिंह पुत्र बिंजा सिंह हर ६ संभाग सतपाल सिंह पुत्र रअनलालसिंघ पुत्र बिंजा सिंह ६१५६७/२६५२७२ भाग शमत.अंगूरी बाई संतरा बाई उमेद बाई पुत्री व शिवपाल सिंह मदन सिंह पुत्र हरनाथ सिंह</p>

					पुत्र बिंजा सिंह हर पांच संभाग २५/१४४ भाग शमत.संतोष देवी पत्नी आनंद प्रकाश पुत्र चंदगीराम ८०/१५७९ भाग शमत.अनीता देवी पत्नी महेश पुत्र बालस्वरूप सिंह १/३१५८ भाग शमत. आशा देवी पत्नी बलवान सिंह पुत्र जगरूप सिंह १/३१५८ भाग शमत. निशा पत्नी प्रदीप उर्फ प्रादु पुत्र जगमाल सिंह १०८/१५७९ भाग संदीप शंकर पुत्र व पूनम पुत्री कारण सिंह पुत्र अमरसिंह हर तीन संभाग ५१/७८९५ भाग उर्मिला विधवा कारण सिंह पुत्र अमर सिंह ३४/७८९५ भाग वीरसिंह जयसिंह पुत्र व अनीता रजनी पुत्री व कुंती देवी विधवा सत्यपाल सिंह पुत्र हरनाथ सिंह हर पांच संभा (18//20)
40	18//21	निजी	कृषि	0.0911	अकबर खा मोहम्मद मिश्रा पुत्र कमरुद्दीन पुत्र छोटन हर दो समभाग (18//21)
41	18//22	निजी	कृषि	0.344	अकबर खा मोहम्मद मिश्रा पुत्र कमरुद्दीन पुत्र छोटन हर दो समभाग (18//22)
42	18//3	निजी	कृषि	0.0202	माम्राजसिंह महेंद्र सिंह रविंद्र सिंह पुत्र व शकुंतला पुत्री व विद्यावती विधवा रामकवर सिंह पुत्र साधु सिंह हर पांच समभाग 1/8 भाग संवत सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र जोधा सिंह 1/8 भाग श्रीमती ममता सिमा पुत्री शैतान सिंह हर दो समभाग 1/50 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अशोक सिंह पुत्र जगदीश 3/100 भाग फ़कीर सिंह पुत्र साधु 1/20 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 1/20 भाग लक्समीनारयण ईश्वर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र गोपाल हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती सूरजबाई पुत्री साधु सिंह पुत्र जोधा 1/8 भाग सुंदरलाल पुत्र श्रीमती कमलबाई पुत्री साधु सिंह 1/8 भाग श्रीमती सरोज पुत्री व श्रीमती शांत विधवा रामोतार पुत्र साधु सिंह हर दो समभाग 1/20 भाग सुरेंद्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 31/6640 भाग वासिदेह श्रीमती सविता देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र

				<p>रामोतार 27/1328 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत धर्मेदर पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग वासिदेह श्रीमती मंजू देवी पत्नी बिजेन्दर पुत्र रामोतार 53/2656 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत बिजेन्दर पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग श्रीमती अनीता पत्नी धर्मेदर पुत्र रामोतार 53/2656 भाग जगरूप सिंह जगदीश सिंह पुत्र व कश्मीरी ोम्बई किशना पुत्री मूल सिंह हर पांच समभाग 35/288 भाग पंकज पुत्र व पूनम पुत्री व श्रीमती संतोष विधवा शिव कुमार पुत्र मूल सिंह हर 3 समभाग 1/288 भगा पदम् सिंह पुत्र शीशपाल 567/24940 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिव कुमार पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग श्रीमती रेखा पत्नी गोविन्द पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग वासिदेह (18//3)</p>	
43	18//8/2	निजी	कृषि	0.0025	<p>माम्राजसिंघ महेन्द्र सिंह रविंद्र सिंह पुत्र व शकुंतला पुत्री व विद्यावती विधवा रामकवर सिंह पुत्र साधु सिंह हर पांच समभाग 1/8 भाग संवत सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र जोधा सिंह 1/8 भाग श्रीमती ममता सिमा पुत्री शैतान सिंह हर दो समभाग 1/50 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अशोक सिंह पुत्र जगदीश 3/100 भाग फ़कीर सिंह पुत्र साधु 1/20 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 1/20 भाग लक्समीनारयण ईश्वर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र गोपाल हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती सूरजबाई पुत्री साधु सिंह पुत्र जोधा 1/8 भाग सुंदरलाल पुत्र श्रीमती कमलबाई पुत्री साधु सिंह 1/8 भाग श्रीमती सरोज पुत्री व श्रीमती शांत विधवा रामोतार पुत्र साधु सिंह हर दो समभाग 1/20 भाग सुरेंदर पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 31/6640 भाग वासिदेह श्रीमती सविता देवी पत्नी सुरेंदर पुत्र रामोतार 27/1328 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत धर्मेदर पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग वासिदेह</p>

					<p>श्रीमती मंजू देवी पत्नी बिजेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत बिजेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग श्रीमती अनीता पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग जगरूप सिंह जगदीश सिंह पुत्र व कश्मीरी ोम्बई किशना पुत्री मूल सिंह हर पांच समभाग 35/288 भाग पंकज पुत्र व पूनम पुत्री व श्रीमती संतोष विधवा शिव कुमार पुत्र मूल सिंह हर 3 समभाग 1/288 भगा पदम् सिंह पुत्र शीशपाल 567/24940 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिव कुमार पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग श्रीमती रेखा पत्नी गोविन्द पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग वासिदेह (18//8/2)</p>
44	18//9	निजी	कृषि	0.3693	<p>माम्राजसिंघ महेन्द्र सिंह रविंद्र सिंह पुत्र व शकुंतला पुत्री व विद्यावती विधवा रामकवर सिंह पुत्र साधु सिंह हर पांच समभाग 1/8 भाग संवत सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र जोधा सिंह 1/8 भाग श्रीमती ममता सिमा पुत्री शैतान सिंह हर दो समभाग 1/50 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अशोक सिंह पुत्र जगदीश 3/100 भाग फ़कीर सिंह पुत्र साधु 1/20 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 1/20 भाग लक्समीनारयण ईश्वर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र गोपाल हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती सूरजबाई पुत्री साधु सिंह पुत्र जोधा 1/8 भाग सुंदरलाल पुत्र श्रीमती कमलबाई पुत्री साधु सिंह 1/8 भाग श्रीमती सरोज पुत्री व श्रीमती शांत विधवा रामोतार पुत्र साधु सिंह हर दो समभाग 1/20 भाग सुरेंद्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 31/6640 भाग वासिदेह श्रीमती सविता देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र रामोतार 27/1328 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत धर्मेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र साधु सिंह 67/13280 भाग वासिदेह श्रीमती मंजू देवी पत्नी बिजेन्द्र पुत्र रामोतार 53/2656 भाग वासी कुंडली तह. सोनीपत बिजेन्द्र पुत्र रामोतार पुत्र</p>

					साधु सिंह 67/13280 भाग श्रीमती अनीता पत्नी धर्मेदर पुत्र रामोतार 53/2656 भाग जगरूप सिंह जगदीश सिंह पुत्र व कश्मीरी ोम्बई किशना पुत्री मूल सिंह हर पांच समभाग 35/288 भाग पंकज पुत्र व पूनम पुत्री व श्रीमती संतोष विधवा शिव कुमार पुत्र मूल सिंह हर 3 समभाग 1/288 भगा पदम् सिंह पुत्र शीशपाल 567/24940 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिव कुमार पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग श्रीमती रेखा पत्नी गोविन्द पुत्र जगरूप सिंह 17/1247 भाग वासिदेह (18//9)
45	29//1	निजी	कृषि	0.1543	रतिलाल सिंह पुत्र मालदू सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 160/417 भाग मुल्तान सिंह पुत्र रामपाल सिंह पुत्र चंदू सिंह 16/139 भाग ब्रह्मा पुत्री व रोशन पुत्र जासु सिंह उर्फ झाबर पुत्र श्योनाथ सिंह हर दो संभाग 209/417 भाग वासिदेह (29//1)
46	29//10/1	निजी	कृषि	0.0708	श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 1/150 भाग ओमप्रकाश पुत्र चंदगीराम पुत्र गंगाराम 1/30 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 1/25 भाग श्रीपाल जैनरयन श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पुत्री विशम्बर पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग 1/6 भाग वासिदेह देवेन्द्र नरेश कुमार पुत्र भारत सिंह 23/620 भाग वासी मानेसर अजीत सिंह पुत्र धुमिराम पुत्र मातादीन 227/9300 भाग ईश्वर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र रामचंद्र 1/75 भाग पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 1/30 भाग वासिदेह (29//10/1)
47	29//10/2	निजी	कृषि	0.0228	घीसाराम रामकवर शेर सिंह रणधीर मेरे सिंह हर 5 समभाग 7/64 श्रीमती सुनील पत्नी अजित सिंह पुत्र रामकुमार 7/320 भाग वासी स्याना श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 1/150 भाग ओमप्रकाश पुत्र चन्दगी पुत्र गंगाराम 1/30 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र

					गंगाराम 1/25 भाग वासिदेह देवेंद्र पुत्र नरेश कुमार पुत्र भारत सिंह 1/20 भाग मानेसर श्रीपाल जयनारायण श्योप्रसाद व फूलबाई मेवा पुत्री विशम्बर पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग वासिदेह 1/6 भाग वासिदेह अजीत सिंह पुत्र धुमिराम पुत्र मातादीन 41/300 भाग वासी मानेसर डिस. गुडगांव ईश्वर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र रामचंद्र 73/525 भाग वासी खटखडी डिस. गुडगांव श्रीमती संतोष पत्नी आनंद प्रकाश पुत्र चंदगीराम 34/175 भाग विनोद भूषण वेदप्रकाश अजयसिंघ पुत्र व श्रीमती आशा उषा पुत्री व शमत बन देवी विधवा श्रीपाल सिंह रामनारायण हर सात समभाग 1/40 भाग प्रदीप अनिल पुत्र व बबिता पुत्री व विमला देवी विधवा बलवीर पुत्र भतराम हर चार समभाग 7/320 भाग श्रीमती रतनी देवी पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 1/30 भाग वासिदेह महेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 7/320 भाग वासी स्याना (29//10/2)
48	29//11	निजी	कृषि	0.1518	श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 1/150 भाग ओमप्रकाश पुत्र चंदगीराम पुत्र गंगाराम 1/30 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 1/25 भाग श्रीपाल जैनरयन श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पुत्री विशम्बर पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग 1/6 भाग वासिदेह देवेंद्र नरेश कुमार पुत्र भारत सिंह 23/620 भाग वासी मानेसर अजीत सिंह पुत्र धुमिराम पुत्र मातादीन 227/9300 भाग ईश्वर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र रामचंद्र 1/75 भाग पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 1/30 भाग वासिदेह (29//11)
49	29//12	निजी	कृषि	0.2833	श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 1/150 भाग ओमप्रकाश पुत्र चंदगीराम पुत्र गंगाराम 1/30 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 1/25 भाग श्रीपाल जैनरयन श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पुत्री विशम्बर पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग 1/6 भाग वासिदेह देवेंद्र

					नरेश कुमार पुत्र भारत सिंह 23/620 भाग वासी मानेसर अजीत सिंह पुत्र धुमिराम पुत्र मातादीन 227/9300 भाग ईश्वर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र रामचंद्र 1/75 भाग पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 1/30 भाग वासिदेह (29//12)
50	29//19	निजी	कृषि	0.263	भगवानी विधवा मनफूल रामजीलाल 42/2099 भाग रामोतार वेदप्रकाश पुत्र मनफूल पुत्र रामजीलाल हर तीन समभाग 42/2099 भाग लाली प्रेमबाई पुत्री मनफूल रामजीएलएल हर दो समभाग 42/2099 भाग मेवा विधवा व अशोक पुत्र गुजारी लाल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 15/2099 भाग हंसराज राधेश्याम पुत्र व विमला पापु , उर्मिला निर्मला पुत्री गुलजारी पुत्र रामजीलाल हर 6 समभाग 112/2099 भाग मनीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गनेशी 127/2099 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 28/2099 भाग रमेश सिंह अजय सिंह विजय सिंह प्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र रामलाल हर चार समभाग 110/2099 भाग कमला गुणवंती बाला राजेश शारदा पुत्री जगदीश पुत्र रामजीलाल हर पांच समभाग 215/4198 भाग विजय पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीएलएल 12/2099 भाग श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी हंसराज पुत्र गुलजारीलाल पुत्र 298/2099 भाग देवदत्त पुत्र बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल 4/2099 भाग मनोज ईश्वर पुत्र रविदत्त पुत्र बनवारी हर दो समभाग 13/18891 भाग दीपांशु पुत्र रविकुमार पुत्र रतन सिंह 120/2099 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 68/2099 भाग बलराम नरेश पुत्र जगदीश हर 2 समभाग 2/4198 मनीष पुत्र व सरोज पुत्री व कौशल्या विधवा व मूरति देवी माता बाबुलाहर चार सैम भाग 172/25188 भाग श्रीमती बबिता देवी पत्नी दिनेश पुत्र रामकिशन 20/18891 कृष्ण देवेंद्र पुत्र व सुप्री रमेश ओमबाई सुमन पुत्री व संतरा

					विधवा मुंशीराम पुत्र रामजीलाल हर सात समभाग 127/2099 भाग श्रीमती भगवानी देवी पत्नी मनफूल 226/10495 भाग देवदत्त पुत्र बनवासीलाल 31/18891 भाग श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी जगदीश शर्मा 226/10495 भाग मुंशीराम मनीराम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा हर दो समभाग 452/10495 भाग कृष्णशर्मा पुत्र व श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी मनीराम पुत्र रामजी लाल हर चार 420/2099 भाग संतरा विधवा मुंसी राम पुत्र रामजीलाल 1505/2099 भाग श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी रविदत्त पुत्र बनवारीलाल 105/2099 भागचंपा देवी विधवा सूरजभान पुत्र अमीचंद हर पांच समभाग 525/2099 भाग वासिदेह (29//19)
51	29//2	निजी	कृषि	0.3238	अकबर खा मोहम्मद मिश्रा पुत्र कमरुद्दीन पुत्र छोटन हर दो समभाग (29//2)
52	29//20	निजी	कृषि	0.172	भगवानी विधवा मनफूल रामजीलाल 42/2099 भाग रामोतार वेदप्रकाश पुत्र मनफूल पुत्र रामजीलाल हर तीन समभाग 42/2099 भाग लाली प्रेमबाई पुत्री मनफूल रामजीएलएल हर दो समभाग 42/2099 भाग मेवा विधवा व अशोक पुत्र गुजारी लाल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 15/2099 भाग हंसराज राधेश्याम पुत्र व विमला पापु , उर्मिला निर्मला पुत्री गुलजारी पुत्र रामजीलाल हर 6 समभाग 112/2099 भाग मनीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गनेशी 127/2099 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 28/2099 भाग रमेश सिंह अजय सिंह विजय सिंह प्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र रामलाल हर चार समभाग 110/2099 भाग कमला गुणवंती बाला राजेश शारदा पुत्री जगदीश पुत्र रामजीलाल हर पांच समभाग 215/4198 भाग विजय पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीएलएल 12/2099 भाग श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी हंसराज पुत्र गुलजारीलाल पुत्र 298/2099 भाग

				<p>देवदत्त पुत्र बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल 4/2099 भाग मनोज ईश्वर पुत्र रविदत्त पुत्र बनवारी हर दो समभाग 13/18891 भाग दीपांशु पुत्र रविकुमार पुत्र रतन सिंह 120/2099 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 68/2099 भाग बलराम नरेश पुत्र जगदीश हर 2 समभाग 2/4198 मनीष पुत्र व सरोज पुत्री व कौशल्या विधवा व मूरति देवी माता बाबुलाहर चार सैम भाग 172/25188 भाग श्रीमती बबिता देवी पत्नी दिनेश पुत्र रामकिशन 20/18891 कृष्ण देवेन्द्र पुत्र व मुन्नी रमेश ओमबाई सुमन पुत्री व संतरा विधवा मुंशीराम पुत्र रामजीलाल हर सात समभाग 127/2099 भाग श्रीमती भगवानी देवी पत्नी मनफूल 226/10495 भाग देवदत्त पुत्र बनवासीलाल 31/18891 भाग श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी जगदीश शर्मा 226/10495 भाग मुंशीराम मनीराम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा हर दो समभाग 452/10495 भाग कृष्णशर्मा पुत्र व श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी मनीराम पुत्र रामजी लाल हर चार 420/2099 भाग संतरा विधवा मुंसी राम पुत्र रामजीलाल 1505/2099 भाग श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी रविदत्त पुत्र बनवारीलाल 105/2099 भागचंपा देवी विधवा सूरजभान पुत्र अमीचंद हर पांच समभाग 525/2099 भाग वासिदेह (29//20)</p>	
53	29//21/1	निजी	कृषि	0.1644	<p>भगवानी विधवा मनफूल रामजीलाल 42/2099 भाग रामोतार वेदप्रकाश पुत्र मनफूल पुत्र रामजीलाल हर तीन समभाग 42/2099 भाग लाली प्रेमबाई पुत्री मनफूल रामजीएलएल हर दो समभाग 42/2099 भाग मेवा विधवा व अशोक पुत्र गुजारी लाल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 15/2099 भाग हंसराज राधेश्याम पुत्र व विमला पापु, उर्मिला निर्मला पुत्री गुलजारी पुत्र रामजीलाल हर 6 समभाग 112/2099 भाग मनीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गनेशी 127/2099 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम</p>

					<p>28/2099 भाग रमेश सिंह अजय सिंह विजय सिंह प्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र रामलाल हर चार समभाग 110/2099 भाग कमला गुणवंती बाला राजेश शारदा पुत्री जगदीश पुत्र रामजीलाल हर पांच समभाग 215/4198 भाग विजय पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीएलएल 12/2099 भाग श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी हंसराज पुत्र गुलजारीलाल पुत्र 298/2099 भाग देवदत्त पुत्र बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल 4/2099 भाग मनोज ईश्वर पुत्र रविदत्त पुत्र बनवारी हर दो समभाग 13/18891 भाग दीपांशु पुत्र रविकुमार पुत्र रतन सिंह 120/2099 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 68/2099 भाग बलराम नरेश पुत्र जगदीश हर 2 समभाग 2/4198 मनीष पुत्र व सरोज पुत्री व कौशल्या विधवा व मूरति देवी माता बाबुलाहर चार सैम भाग 172/25188 भाग श्रीमती बबिता देवी पत्नी दिनेश पुत्र रामकिशन 20/18891 कृष्ण देवेन्द्र पुत्र व मुन्नी रमेश ओमबाई सुमन पुत्री व संतरा विधवा मुंशीराम पुत्र रामजीलाल हर सात समभाग 127/2099 भाग श्रीमती भगवानी देवी पत्नी मनफूल 226/10495 भाग देवदत्त पुत्र बनवासीलाल 31/18891 भाग श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी जगदीश शर्मा 226/10495 भाग मुंशीराम मनीराम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा हर दो समभाग 452/10495 भाग कृष्णशर्मा पुत्र व श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी मनीराम पुत्र रामजी लाल हर चार 420/2099 भाग संतरा विधवा मुंसी राम पुत्र रामजीलाल 1505/2099 भाग श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी रविदत्त पुत्र बनवारीलाल 105/2099 भागचंपा देवी विधवा सूरजभान पुत्र अमीचंद हर पांच समभाग 525/2099 भाग वासिदेह (29//21/1)</p>
54	29//21/2	सरकारी	नहर	0.0278	हरियाणा सरकार (29//21/2)
55	29//22/1	निजी	कृषि	0.2099	भगवानी विधवा मनफूल रामजीलाल

				<p>42/2099 भाग रामोतार वेदप्रकाश पुत्र मनफूल पुत्र रामजीलाल हर तीन समभाग</p> <p>42/2099 भाग लाली प्रेमबाई पुत्री मनफूल रामजीएलएल हर दो समभाग</p> <p>42/2099 भाग मेवा विधवा व अशोक पुत्र गुजारी लाल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग</p> <p>15/2099 भाग हंसराज राधेश्याम पुत्र व विमला पापु , उर्मिला निर्मला पुत्री गुलजारी पुत्र रामजीलाल हर 6 समभाग</p> <p>112/2099 भाग मनीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गनेशी 127/2099 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 28/2099 भाग रमेश सिंह अजय सिंह विजय सिंह प्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र रामलाल हर चार समभाग</p> <p>110/2099 भाग कमला गुणवंती बाला राजेश शारदा पुत्री जगदीश पुत्र रामजीलाल हर पांच समभाग</p> <p>215/4198 भाग विजय पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीएलएल 12/2099 भाग श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी हंसराज पुत्र गुलजारीलाल पुत्र 298/2099 भाग देवदत्त पुत्र बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल 4/2099 भाग मनोज ईश्वर पुत्र रविदत्त पुत्र बनवारी हर दो समभाग</p> <p>13/18891 भाग दीपांशु पुत्र रविकुमार पुत्र रतन सिंह 120/2099 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 68/2099 भाग बलराम नरेश पुत्र जगदीश हर 2 समभाग</p> <p>2/4198 मनीष पुत्र व सरोज पुत्री व कौशल्या विधवा व मूर्ति देवी माता बाबुलाहर चार सैम भाग 172/25188 भाग श्रीमती बबिता देवी पत्नी दिनेश पुत्र रामकिशन 20/18891 कृष्ण देवेन्द्र पुत्र व मुन्नी रमेश ओमबाई सुमन पुत्री व संतरा विधवा मुंशीराम पुत्र रामजीलाल हर सात समभाग</p> <p>127/2099 भाग श्रीमती भगवानी देवी पत्नी मनफूल 226/10495 भाग देवदत्त पुत्र बनवासीलाल 31/18891 भाग श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी जगदीश शर्मा 226/10495 भाग मुंशीराम मनीराम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा हर दो समभाग</p> <p>452/10495 भाग कृष्णशर्मा पुत्र व श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी मनीराम</p>
--	--	--	--	---

					पुत्र रामजी लाल हर चार 420/2099 भाग संतरा विधवा मुंसी राम पुत्र रामजीलाल 1505/2099 भाग श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी रविदत्त पुत्र बनवारीलाल 105/2099 भागचंपा देवी विधवा सूरजभान पुत्र अमीचंद हर पांच समभाग 525/2099 भाग वासिदेह (29//22/1)
56	29//22/2	सरकारी	नहर	0.0329	हरियाणा सरकार (29//22/2)
57	29//9/1	निजी	कृषि	0.1012	अकबर खा मोहम्मद मिश्रा पुत्र कमरूदीन पुत्र छोटन हर दो समभाग (29//9/1)
58	29//9/2	निजी	कृषि	0.1568	श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 1/150 भाग ओमप्रकाश पुत्र चंदगीराम पुत्र गंगाराम 1/30 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 1/25 भाग श्रीपाल जैनरयन श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पुत्री विशम्बर पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग 1/6 भाग वासिदेह देवेंद्र नरेश कुमार पुत्र भारत सिंह 23/620 भाग वासी मानेसर अजीत सिंह पुत्र धुमिराम पुत्र मातादीन 227/9300 भाग ईश्वर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र रामचंद्र 1/75 भाग पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 1/30 भाग वासिदेह (29//9/2)
59	34//1/1	सरकारी	नहर	0.0455	हरियाणा सरकार (34//1/1)
60	34//1/2	निजी	कृषि	0.1695	श्योरतां पुत्र व मीनाबाई लक्ष्मीबाई पुत्री उदय सिंह पुत्र भवर सिंह हर तीन समभाग 36/4465 भाग मंबई मेवाबाई कुंतीबाई पुत्र भवर सिंह पुत्र अंजी सिंह हर तीन समभाग 53/893 भाग छाजू सिंह पुत्र मातु सिंह 15/893 भाग सुरेश पुत्र मातुसिंघ 8/893 भाग मेघा सिंह पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 43/893 भाग श्रीमती वीरमति पत्नी जबर सिंह पुत्र मेघ सिंह 20/387 भाग मामराज सिंह मानसिंघ पुत्र विजयपाल सिंह पुत्र अंजी सिंह हर दो समभाग 56/893 भाग धूम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह

				<p>17/893 भाग रामपाल सिंह रामौतार सिंह तारा सिंह , मुकेश सिंह जगमोहन नरेश पुत्र शिम्भू सिंह पुत्र उमराव सिंह हर 6 समभाग 53/893 भाग राजेश कुमार राकेश कुमार पुत्र रंजीत सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह हर दो समभाग 10893 भाग जयवीर पुत्र गजराज सिंह पुत्र छाजू सिंह 36/893 भाग श्रीमती निर्मला देवी पत्नी सुरेश सिंह पुत्र मातु सिंह 7/893 भाग श्रीमती मंजू देवी पत्नी सरजीत सिंह पुत्र मातु सिंह 14/893 भाग अडानी पावर लिमिटेड रजिस्टरड ऑफिस सिखर नजदीक मिठवली 6 रोड नवरंगपुरा अहमदाबाद (गुजरात) 380009 भाग 31/893 भाग श्रीमती अंगूरी देवी विधवा व श्रीमती तारामणि दिनेश पुत्री व सुखपाल सिंह पुत्र रतिपाल पुत्र अंजी सिंह हर चार समभाग 552/4465 भाग धर्मपाल सुखवीर धर्मवीर पुत्र व मिथलेश सुरेश गुड्डी पुत्री व मैना विधवा फतेह सिंह पुत्र अंजी सिंह हर सात समभाग 56/893 भाग विजयपाल पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 274710/904609 भाग श्रीमती शालू देवी पत्नी सुनील कुमार पुत्र महेंद्र सिंह 10/1013 भाग प्रवीण नविन पुत्र व ममता पुत्री व श्रीमती कमलेश देवी विधवा चित्र सिंह पुत्र रतिपाल हर सात समभाग 138/4465 भाग अजित सिंह हरिओम पुत्र उदय सिंह पुत्र भवर सिंह हर दो समभाग 54/4465 भाग विमला विधवा ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग कुलदीप पुत्र ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग श्रीमती मंजू पत्नी श्याम सिंह पुत्र गजराज सिंह 6/893 भाग वासिदेह (34//1/2)</p>	
61	34//10	निजी	कृषि	0.2327	<p>53/893 भाग छाजू सिंह पुत्र मातु सिंह 15/893 भाग सुरेश पुत्र मातुसिंघ 8/893 भाग मेघा सिंह पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 43/893 भाग श्रीमती वीरमति पत्नी जबर सिंह पुत्र मेघ सिंह 20/387 भाग मामराज सिंह मानसिंघ पुत्र विजयपाल सिंह पुत्र अंजी सिंह हर दो समभाग 56/893 भाग धूम सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह</p>

					<p>पुत्र इन्दर सिंह 17/893 भाग रामपाल सिंह रामौतार सिंह तारा सिंह , मुकेश सिंह जगमोहन नरेश पुत्र शिम्भू सिंह पुत्र उमराव सिंह हर 6 समभाग 53/893 भाग राजेश कुमार राकेश कुमार पुत्र रंजीत सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह हर दो समभाग 10893 भाग जयवीर पुत्र गजराज सिंह पुत्र छाजू सिंह 36/893 भाग श्रीमती निर्मला देवी पत्नी सुरेश सिंह पुत्र मातु सिंह 7/893 भाग श्रीमती मंजू देवी पत्नी सरजीत सिंह पुत्र मातु सिंह 14/893 भाग अडानी पावर लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस सिखर नजदीक मिठवली 6 रोड नवरंगपुरा अहमदाबाद (गुजरात) 380009 भाग 31/893 भाग श्रीमती अंगूरी देवी विधवा व श्रीमती तारामणि दिनेश पुत्री व सुखपाल सिंह पुत्र रतिपाल पुत्र अंजी सिंह हर चार समभाग 552/4465 भाग धर्मपाल सुखवीर धर्मवीर पुत्र व मिथलेश सुरेश गुड्डी पुत्री व मैना विधवा फतेह सिंह पुत्र अंजी सिंह हर सात समभाग 56/893 भाग विजयपाल पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 274710/904609 भाग श्रीमती शालू देवी पत्नी सुनील कुमार पुत्र महेंद्र सिंह 10/1013 भाग प्रवीण नविन पुत्र व ममता पुत्री व श्रीमती कमलेश देवी विधवा चित्र सिंह पुत्र रतिपाल हर सात समभाग 138/4465 भाग अजित सिंह हरिओम पुत्र उदय सिंह पुत्र भवर सिंह हर दो समभाग 54/4465 भाग विमला विधवा ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग कुलदीप पुत्र ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग श्रीमती मंजू पत्नी श्याम सिंह पुत्र गजराज सिंह 6/893 भाग वासिदेह (34//10)</p>
62	34//11	निजी	कृषि	0.2529	<p>श्योरतां पुत्र व मीनाबाई लक्ष्मीबाई पुत्री उदय सिंह पुत्र भवर सिंह हर तीन समभाग 36/4465 भाग मंवरई मेवाबाई कुंतीबाई पुत्र भवर सिंह पुत्र अंजी सिंह हर तीन समभाग 53/893 भाग छाजू सिंह पुत्र मातु सिंह 15/893 भाग सुरेश पुत्र मातुसिंह 8/893 भाग मेघा सिंह पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 43/893 भाग</p>

				<p>श्रीमती वीरमति पत्नी जवर सिंह पुत्र मेघ सिंह 20/387 भाग मामराज सिंह मानसिंघ पुत्र विजयपाल सिंह पुत्र अंजी सिंह हर दो समभाग 56/893 भाग धूम सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह 17/893 भाग रामपाल सिंह रामौतार सिंह तारा सिंह , मुकेश सिंह जगमोहन नरेश पुत्र शिम्भू सिंह पुत्र उमराव सिंह हर 6 समभाग 53/893 भाग राजेश कुमार राकेश कुमार पुत्र रंजीत सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह हर दो समभाग 10893 भाग जयवीर पुत्र गजराज सिंह पुत्र छाजू सिंह 36/893 भाग श्रीमती निर्मला देवी पत्नी सुरेश सिंह पुत्र मातु सिंह 7/893 भाग श्रीमती मंजू देवी पत्नी सरजीत सिंह पुत्र मातु सिंह 14/893 भाग अडानी पावर लिमिटेड रजिस्टरड ऑफिस सिखर नजदीक मिठवली 6 रोड नवरंगपुरा अहमदाबाद (गुजरात) 380009 भाग 31/893 भाग श्रीमती अंगूरी देवी विधवा व श्रीमती तारामणि दिनेश पुत्री व सुखपाल सिंह पुत्र रतिपाल पुत्र अंजी सिंह हर चार समभाग 552/4465 भाग धर्मपाल सुखवीर धर्मवीर पुत्र व मिथलेश सुरेश गुड्डी पुत्री व मैना विधवा फतेह सिंह पुत्र अंजी सिंह हर सात समभाग 56/893 भाग विजयपाल पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 274710/904609 भाग श्रीमती शालू देवी पत्नी सुनील कुमार पुत्र महेंद्र सिंह 10/1013 भाग प्रवीण नविन पुत्र व ममता पुत्री व श्रीमती कमलेश देवी विधवा चित्र सिंह पुत्र रतिपाल हर सात समभाग 138/4465 भाग अजित सिंह हरिओम पुत्र उदय सिंह पुत्र भवर सिंह हर दो समभाग 54/4465 भाग विमला विधवा ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग कुलदीप पुत्र ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग श्रीमती मंजू पत्नी श्याम सिंह पुत्र गजराज सिंह 6/893 भाग वासिदेह (34//11)</p>	
63	34//12/1	निजी	कृषि	0.1821	<p>श्योरतां पुत्र व मीनाबाई लक्ष्मीबाई पुत्री उदय सिंह पुत्र भवर सिंह हर तीन समभाग 36/4465 भाग मंबई मेवाबाई कुंतीबाई</p>

				<p>पुत्र भवर सिंह पुत्र अंजी सिंह हर तीन समभाग 53/893 भाग छाजू सिंह पुत्र मातु सिंह 15/893 भाग सुरेश पुत्र मातुसिंघ 8/893 भाग मेघा सिंह पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 43/893 भाग श्रीमती वीरमति पत्नी जबर सिंह पुत्र मेघ सिंह 20/387 भाग मामराज सिंह मानसिंघ पुत्र विजयपाल सिंह पुत्र अंजी सिंह हर दो समभाग 56/893 भाग धूम सिंह पुत्र रिछपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह 17/893 भाग रामपाल सिंह रामौतार सिंह तारा सिंह , मुकेश सिंह जगमोहन नरेश पुत्र शिम्भू सिंह पुत्र उमराव सिंह हर 6 समभाग 53/893 भाग राजेश कुमार राकेश कुमार पुत्र रंजीत सिंह पुत्र रिछपाल सिंह हर दो समभाग 10893 भाग जयवीर पुत्र गजराज सिंह पुत्र छाजू सिंह 36/893 भाग श्रीमती निर्मला देवी पत्नी सुरेश सिंह पुत्र मातु सिंह 7/893 भाग श्रीमती मंजू देवी पत्नी सरजीत सिंह पुत्र मातु सिंह 14/893 भाग अडानी पावर लिमिटेड रजिस्टरड ऑफिस सिखर नजदीक मिठवली 6 रोड नवरंगपुरा अहमदाबाद (गुजरात) 380009 भाग 31/893 भाग श्रीमती अंगूरी देवी विधवा व श्रीमती तारामणि दिनेश पुत्री व सुखपाल सिंह पुत्र रतिपाल पुत्र अंजी सिंह हर चार समभाग 552/4465 भाग धर्मपाल सुखवीर धर्मवीर पुत्र व मिथलेश सुरेश गुड्डी पुत्री व मैना विधवा फतेह सिंह पुत्र अंजी सिंह हर सात समभाग 56/893 भाग विजयपाल पुत्र अंजी सिंह पुत्र सुल्तान सिंह 274710/904609 भाग श्रीमती शालू देवी पत्नी सुनील कुमार पुत्र महेंद्र सिंह 10/1013 भाग प्रवीण नविन पुत्र व ममता पुत्री व श्रीमती कमलेश देवी विधवा चित्र सिंह पुत्र रतिपाल हर सात समभाग 138/4465 भाग अजित सिंह हरिओम पुत्र उदय सिंह पुत्र भवर सिंह हर दो समभाग 54/4465 भाग विमला विधवा ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग कुलदीप पुत्र ओमपाल पुत्र भवर सिंह 3/893 भाग श्रीमती मंजू पत्नी श्याम सिंह पुत्र गजराज सिंह 6/893 भाग वासिदेह</p>
--	--	--	--	---

					(34//12/1)
64	34//19/2	निजी	कृषि	0.1492	<p>शिवलाल छोटेलाल पुत्र ठकुराम हर दो समभाग 1/5 भाग ताराचंद हरिश्चंद्र पुत्र लालचंद पुत्र चिरंजी हर दो समभाग 2/135 भाग महावीर पुत्र सालगराम पुत्र चिरंजी 1/45 भाग साधु कैन्हया गजानंद पुत्र हर तीन समभाग 1/135 भाग पारस मोती दीपक कुमार पुत्र व कुसुम सुशीला पुत्री मूलचंद पुत्र हरद्वारी हर पांच समभाग 1/45 भाग मैदान पुत्र मातूराम पुत्र गणेशीलाल 1/45 भाग नरेशचंद रमेशचंद वेदप्रकाश ब्रजमोहन पुत्र व तारामणि कुसमलता पुत्री व मिश्री विधवा अमर सिंह हर सात समभाग 1/45 भाग नौरंग खुशीराम पुत्र मथुराप्रसाद पुत्र गनेशी हर दो समभाग 1/45 भाग आनंद कुमार पुत्र भूरामल पुत्र मुरारीलाल 1/75 भाग उमराव पुत्र गणपतराम पुत्र लखीराम 1/75 भाग रूपराम पुत्र टोखराम 1/75 भाग शकुंतला शीला पुत्री ज्योतिप्रसाद पुत्र लखीराम हर दो समभाग 2/225 भाग मिथलेश कमलेश सुरेश पुत्री व पवन कुमार पुत्र व शारदा विधवा राजेंद्रप्रसाद हर पांच समभाग 1/270 भाग भागमल रोशनलाल मदनलाल सत्यनारायण पुत्र प्यारेलाल पुत्र लिखराम हर चार समभाग 1/75 भाग मुनाराम पुत्र लालाराम गोविंदराम 1/10 भाग हरी शिम्भू लक्समीराम पुत्र सुंदरलाल पुत्र रामस्वरूप हर तीन समभाग 1/30 भाग रतिलाल छोटेलाल पुत्र रामस्वरूप हर दो समभाग 1/15 भाग ददका विधवा रामचंद्र पुत्र रामलाल 1/30 भाग लक्समीनारायण सीताराम मनफूल पुत्र जौहरीलाल पुत्र रामदयाल हर तीन समभाग 1/30 भाग सावत्री विधवा व रामौतार पुत्र व शकुंतला विधा पुत्री बदरीप्रसाद पुत्र रामनारायण हर चार समभाग 1/30 भाग हरद्वारीलाल पुत्र बंशीधर पुत्र रामनाथ 1/30 भाग कैलाशचंद पुत्र व विमला पुत्री घीसाराम पुत्र महादेवप्रसाद हर दो समभाग 1/30 भाग मामराज सिंह मानसिंघ पुत्र विजयपाल सिंह पुत्र अंजी सिंह हर दो</p>

					समभाग 3/50 भाग रेवती बाई पुत्री सरूपचन्द 3/50 भाग महेशचंद पुत्र व पुष्प प्रेमलता लाली पुत्री व गंगा विधवा ओमप्रकाश पुत्र स्वरूपचन्द हर पांच समभाग 1/25 भाग रामौतार रामगोपाल रामतीर्थ , त्रिलोकचंद गणेशीलाल योगेशचन्द पुत्र व तरबाई विमला , मंजू देवी पुत्री किस्तुरीलाल पुत्र स्वरूपचंद हर 9 समभाग 1/25 भाग सचिन वत्सव पुत्र व श्रीमती रेनू विधवा अशवनी कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद हर तीन समभाग 1/1350 भाग मनोहर पुत्र व कांटा देवी पुत्री बसंतीबाई पुत्री श्रीराम हर दो समभाग 1/60 भाग शिल्पिचना तारामणि इंद्रा कृष्ण पुत्री सत्यनारायण पुत्र हर चार समभाग 1/90 भाग कांटा विधवा गोपीराम पुत्र सत्यनारायण 1/360 भाग सुमन विन्नी अन्नू पुत्री व मधुबाला विधवा हरिशंकर पुत्र सत्यनारायण हर चार समभाग 1/360 भाग वासिदेह (34//19/2)
65	34//2/1	सरकारी	नहर	0.0506	हरियाणा सरकार (34//2/1)
66	34//2/2	निजी	कृषि	0.1695	हवा सिंह राम सिंह ओमप्रकाश महेंद्र सिंह पुत्र सुरजराम पुत्र चेताराम हर चार समभाग 4/125 भाग राजबाला पुत्री हरफूल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 1/30 भाग श्योरतां सिंह पुत्र साधु सिंह 361/5000 भाग नाराज सिंह पुत्र साधु सिंह 107/5000 भाग सुनील पुत्र ओमकार 19/3000 भाग तेजपाल पुत्र साधु सिंह 29/1250 भाग धर्मवीर पुत्र रामस्वरूप पुत्र छज्जूराम 27/5000 भाग श्रीमती जगन देवी विधवा प्रताप सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 1/20 भाग उदयपाल सिंह कृष्ण सिंह महेंद्र सिंह पुत्र ओमपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह हर तीन समभाग 3/20 भाग विजय लक्ष्मी सावत्री पुत्री हरफूल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हर दो समभाग 22/375 भाग मंजू पुत्री व विमला विधवा रविंदर सिंह हर दो समभाग 23/1000 भाग अशोक पुत्र रविंदर सिंह 23/2000 भाग सोमवीर पुत्र तेजपाल पुत्र साधु सिंह

				<p>83/5000 भाग समंदर पल सिंह पुत्र चन्दन सिंह 167/3000 भाग श्यामबाई विमला पुत्री चन्दन सिंह हर दो समभाग 667/7500 भाग गुड्डी अनीता पुत्री रतिपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह हर दो समभाग 117/12500 भाग सत्यवीर पुत्र व सुमन पुत्री 7 रामवती विधवा रतिपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह हर तीन समभाग 191/25000 भाग सुमन देवी पत्नी राजकुमार पुत्र धर्मवीर 4/625 भाग जयपाल सिंघस्य/ो रुघनाथ सिंह पुत्र फूल सिंह 76/5013 भाग भाग पूनम पुत्री रविंदर सिंह श्रीमती कांटा देवी पत्नी रामनिवास पुत्र भवर सिंह 1/125 भाग ब्रह्म जीत राजकुमार पुत्र ओमकार हर दो समभाग 4/375 भाग श्रीमती भागल पत्नी श्योरतां पुत्र साधु सिंह 1/500 भाग नत्थू सिंह पुत्र साधु सिंह 101261/12532500 भाग वासिदेह पूजा पुत्री भानु पुत्र जवाहर सिंह 154/5013 भाग वासी वस् खुसाला तेह. व डिस्ट. गुडगांव रामनिवास श्योपाल सिंह पुत्र भवर सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर दो समभाग 1/10 भाग घीसा सिंह गुरदयाल सिंह हंसराज सिंह पुत्र व प्रीता देवी , बबिता देवी पुत्री बदरी सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर पांच समभाग 1/10 भाग पवन कुमार राजेश कुमार पुत्र व अनितवै पुत्री व आशादेवी विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र हरफूल हर चार समभाग 251/5000 भाग वासिदेह (34//2/2)</p>	
67	34//20	निजी	कृषि	0.2504	<p>शिवलाल छोटेलाल पुत्र ठकुराम हर दो समभाग 1/5 भाग ताराचंद हरिश्रंद पुत्र लालचंद पुत्र चिरंजी हर दो समभाग 2/135 भाग महावीर पुत्र सालगराम पुत्र चिरंजी 1/45 भाग साधु कैन्हया गजानंद पुत्र हर तीन समभाग 1/135 भाग पारस मोती दीपक कुमार पुत्र व कुसुम सुशीला पुत्री मूलचंद पुत्र हरद्वारी हर पांच समभाग 1/45 भाग मैदान पुत्र मातूराम पुत्र गणेशीलाल 1/45 भाग नरेशचंद रमेशचंद वेदप्रकाश ब्रजमोहन पुत्र व तारामणि कुसमलता पुत्री व मिश्री विधवा</p>

				<p>अमर सिंह हर सात समभाग 1/45 भाग नोरंग खुशीराम पुत्र मथुराप्रसाद पुत्र गनेशी हर दो समभाग 1/45 भाग आनंद कुमार पुत्र भूरामल पुत्र मुरारीलाल 1/75 भाग उमराव पुत्र गणपतराम पुत्र लखीराम 1/75 भाग रूपराम पुत्र टोखराम 1/75 भाग शकुंतला शीला पुत्री ज्योतिप्रसाद पुत्र लखीराम हर दो समभाग 2/225 भाग मिथलेश कमलेश सुरेश पुत्री व पवन कुमार पुत्र व शारदा विधवा राजेंद्रप्रसाद हर पांच समभाग 1/270 भाग भागमल रोशनलाल मदनलाल सत्यनारायण पुत्र प्यारेलाल पुत्र लिखराम हर चार समभाग 1/75 भाग मुनाराम पुत्र लालाराम गोविंदराम 1/10 भाग हरी शिम्भू लक्समीराम पुत्र सुंदरलाल पुत्र रामस्वरूप हर तीन समभाग 1/30 भाग रतिलाल छोटेला पुत्र रामस्वरूप हर दो समभाग 1/15 भाग ददका विधवा रामचंद्र पुत्र रामलाल 1/30 भाग लक्समीनारायण सीताराम मनफूल पुत्र जौहरीलाल पुत्र रामदयाल हर तीन समभाग 1/30 भाग सावत्री विधवा व रामौतार पुत्र व शकुंतला विधा पुत्री बदरीप्रसाद पुत्र रामनारायण हर चार समभाग 1/30 भाग हरद्वारीलाल पुत्र वंशीधर पुत्र रामनाथ 1/30 भाग कैलाशचंद्र पुत्र व विमला पुत्री घीसाराम पुत्र महादेवप्रसाद हर दो समभाग 1/30 भाग मामराज सिंह मानसिंघ पुत्र विजयपाल सिंह पुत्र अंजी सिंह हर दो समभाग 3/50 भाग रेवती बाई पुत्री सरूपचन्द्र 3/50 भाग महेशचंद्र पुत्र व पुष्प प्रेमलता लाली पुत्री व गंगा विधवा ओमप्रकाश पुत्र सरूपचन्द्र हर पांच समभाग 1/25 भाग रामौतार रामगोपाल रामतीर्थ , त्रिलोकचंद्र गणेशीलाल योगेशचन्द्र पुत्र व तरबाई विमला , मंजू देवी पुत्री किस्तुरीलाल पुत्र स्वरूपचंद्र हर 9 समभाग 1/25 भाग सचिन वत्सव पुत्र व श्रीमती रेनु विधवा अशवनी कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद हर तीन समभाग 1/1350 भाग मनोहर पुत्र व कांटा देवी पुत्री बसंतीबाई पुत्री श्रीराम हर दो समभाग 1/60 भाग शिलिचना तारामणि इंद्रा कृष्ण</p>
--	--	--	--	---

					पुत्री सत्यनारायण पुत्र हर चार समभाग 1/90 भाग कांटा विधवा गोपीराम पुत्र सत्यनारायण 1/360 भाग सुमन विन्नी अन्नू पुत्री व मधुबाला विधवा हरिशंकर पुत्र सत्यनारायण हर चार समभाग 1/360 भाग वासिदेह (34//20)
68	34//21	निजी	कृषि	0.3035	श्रीमती अनारा विधवा गोकलसिंघ पुत्र बहादर सिंह 69/1244 भाग जहर सिंह समुंदरपाल सिंह , रमेश पुत्र व श्रीमती कहवै विधवा व श्रीमती केला सहोदरा विमला मांगना पुत्री सवाल सिंह पुत्र बहादर सिंह हर 8 समभाग 207/622 भाग रामकवर सिंह पुत्र व श्रीमती मुर्तिबाई घोघडी बाई वर्मिला निर्मिला पुत्री व श्रीमती सरवती विधवा रिद्धपाल सिंह पुत्र बहादर सिंह हर 6 समभाग 69/311 भाग जगत सिंह प्रकाश पुत्र व श्रीमती शकुंतला पुत्री रिद्धपाल सिंह पुत्र बहादर सिंह हर तीन समभाग 11/622 भाग वासिदेह रामवीर सिंह इंद्रजीत सिंह पुत्र निहालसिंह पुत्र हजारीलाल सिंह हर दो समभाग 117/1244 भाग वासी सेहलंग श्रीमती कमला देवी सुनीता देवी रेशम देवी मंजू देवी रामरती देवी सुन्नूबाई सुमनबाई पुत्री व श्रीमती अंगूरी देवी विधवा रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह हर 8 समभाग 61/1244 भाग सवाई सिंह पुत्र गोकुल सिंह पुत्र बहादर सिंह 41/311 भाग राजेंद्र सिंह पुत्र रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह 86157/2932108 भाग श्रीमती चन्द्रो देवी पत्नी मनफूल सिंह पुत्र बख्तावर 160/2357 भाग वासिदेह (34//21)
69	34//22/1	निजी	कृषि	0.0809	अतर सिंह मातु सिंह सतपाल सिंह पुत्र व फूलबाई पुत्री रोहताश सिंह पुत्र गहद सिंह हर पांच समभाग 5/8 भाग सुरेश पुत्र व शकुंतला विधवा मनफूल सिंह पुत्र रोहताश हर दो समभाग 1/8 भाग ओमपाल सिंह आनंद सिंह मुकेश सिंह पुत्र व सुशिल पुत्री व फूलबाई विधवा गजराज पुत्र रोहताश हर पांच समभाग 1/8 भाग नरेश सिंह शिवकुमार पुत्र व सुनीता पुत्री व चंदो देवी

					विधवा राजवीर सिंह पुत्र रोहताश हर चार समभाग 1/8 भाग वासिदेह (34//22/1)
70	34//22/2	निजी	कृषि	0.0404	सुषमा देवी पत्नी अश्वनी कुमार पुत्र चंदगीराम 1/2 भाग वाई चकरपुर तह. गुडगाँव कांटा देवी पत्नी राजपाल पुत्र चंदगीराम 1/2 भाग वासी चकरपुर तह. गुडगाँव (34//22/2)
71	34//22/3	निजी	कृषि	0.0152	मकतूल सिंह साधु सिंह अमर सिंह चित्तरायुज सिंह श्योरतां सिंह पुत्र व अमरबाई पूत्री व मंबई विधवा बनीसिंह पुत्र गहद सिंह हर सात संभाग वासिदेह (34//22/3)
72	34//9	निजी	कृषि	0.2023	समन्द्रपाल पुत्र चन्दन सिंह श्योनाथ सिंह 1/72 भाग अशोक पुत्र व अंजू पूनम पुत्री व विमला विधवा रविंद्र सिंह पुत्र हरफूल सिंह हर चार समभाग 1/20 भाग विजयलक्ष्मी सावत्री राजबाला पुत्री हरफूल हर तीन समभाग 1/10 भाग श्योरतां पुत्र साधु सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 19/480 भाग नत्थू सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 1/60 भाग नाराज सिंह पुत्र साधु सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 107/960 भाग ब्रह्मजीत सिंह राजकुमार सुनील पुत्र ओमकार सिंह पुत्र साधु सिंह हर तीन समभाग 1/64 भाग श्रीमती जगाना देवी विधवा प्रताप सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 11/120 भाग उदयपाल सिंह सिंह महेंद्र सिंह पुत्र ओमपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह हर तीन समभाग 11/40 भाग सत्यवीर पुत्र व गुड्डी सुमन अनीता पुत्री व रामवती विधवा रतिपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह हर पांच समभाग 1/72 भाग श्यामबाई विमला पुत्री चन्दन सिंह हर दो समभाग 1/180 भाग रामनिवास श्योपाल सिंह पुत्र भवर सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर दो समभाग 1/10 भाह घिसा सिंह गुरदयाल सिंह हंसराज सिंह पुत्र व प्रीता देवी बबिता देवी पुत्री बदरी सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर पांच समभाग 1/10 भाग पवन कुमार राजेश कुमार पुत्र व अनितवै पुत्री व आशादेवी विधवा सुरेंद्र सिंह

					हरफूल हर चार समभाग 1/20 भाग वासिदेह (34/9)
73	46//25	निजी	कृषि	0.0025	शरावती मूर्ति पुत्री झूठा सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 2/3 भाग बलजीत दत्तक पुत्र व श्रीपाल दत्तक राजेंद्र दत्तक पुत्र मनफूल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर तीन समभाग 1/3 भाग वासिदेह (46//25)
74	47//1	निजी	कृषि	0.3238	सेठाराम रामानंद पुत्र व रामबाई विधा अंगूरी सविता पुत्री फुलिया पुत्र जयराम हर 6 समभाग 3/14 भाग केला पुत्री फुलिया जयराम 1/224 भाग वासिदेह सीताराम पुत्र व श्रीमती कांटा ममता राजबाला आशा , पूतम पुत्री श्रीमती केला देवी पुत्र फूल सिंह हर 6 समभाग 1/32 भाग वासी वासी भूरस झज्जर नरेंद्र सुन्दर नरेश पुत्र व रमेश पुत्री व चंद्रो विधवा महावीर पुत्र जयराम हर पांच समभाग 5/24 भाग रामकुमार पुत्र जयराम 67/24648 भाग वासिदेह श्रीमती लडो देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र 40/1027 भाग वासी करोल डिस.रेवाड़ी सुषमा देवी पत्नी अश्वनी पुत्र चन्दगीराम 1/8 भाग वासी चकरपुर कांटा देवी पत्नी राजपाल पुत्र चन्दगीराम 1/8 भाग वासी चकरपुर (47//1)
75	47//10	निजी	कृषि	0.344	जेबै पुत्री चन्दर पुत्र रामु सिंह 261/1565 भाग सत्यपाल पुत्र अमर सिंह पुत्र चन्दर सिंह 52/1565 भाग विजेंद्र कुमार सुरेश कुमार पुत्र छैलूराम पुत्र श्योप्रसाद हर दो समभाग 156/1565 भाग गजराज सिंह पुत्र रोहताश सिंह 52/1565 भाग रोशनलाल पुत्र खूबीराम पुत्र परिश्रम 81/3130 भाग रामकवर सिंह ओमप्रकाश सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह हर दो समभाग 87/1565 भाग श्रीमती सुखदा कुमारी पत्नी मामराज सिंह पुत्र रोहताश सिंघ87/1565 भाग बलजीत पुत्र अमरसिंघ पुत्र 17/1565 भाग जगत सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र 77/1565 भाग शकुंतला देवी पत्नी बहादुर सिंह पुत्र

					<p>गोपीराम 74/1567 भाग सुशिल देवी पत्नी शिवकुमार पुत्र विषमबार्डियल 37/1567 भाग श्रीमती सजाना देवी पत्नी शीशपाल सिंह पुत्र चंद्र सिंह 261/3130 भाग पदम् सिंह पुत्र शीशपाल सिंह पुत्र चन्दर सिंह 491063/4904710 भाग प्रदीप कुमार पुत्र व श्रीमती शकुंतला विधवा रतन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह हर दो समभाग 87/3130 भाग भवर सिंह , सरजीत सिंह पुत्र शीशपाल चंद्र सिंह हर तीन समभाग 261/3130 भाग श्रीमती राजेश देवी पत्नी सत्यपाल सिंह पुत्र अमर सिंह 86/1565 भाग वासिदेह शादी पुत्र अमीचंद्र पुत्र गंगाराम 81/3130 भाग वासी बसकुसला तेह. गुडगांव (47//10)</p>
76	47//11	निजी	कृषि	0.3642	<p>जेबै पुत्री चन्दर पुत्र रामु सिंह 261/1565 भाग सत्यपाल पुत्र अमर सिंह पुत्र चन्दर सिंह 52/1565 भाग बिजेंद्र कुमार सुरेश कुमार पुत्र छैलूराम पुत्र श्योप्रसाद हर दो समभाग 156/1565 भाग गजराज सिंह पुत्र रोहताश सिंह 52/1565 भाग रोशनलाल पुत्र खूवीराम पुत्र परिश्रम 81/3130 भाग रामकवर सिंह ओमप्रकाश सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह हर दो समभाग 87/1565 भाग श्रीमती सुखदा कुमारी पत्नी मामराज सिंह पुत्र रोहताश सिंघ 87/1565 भाग बलजीत पुत्र अमरसिंघ पुत्र 17/1565 भाग जगत सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र 77/1565 भाग शकुंतला देवी पत्नी बहादुर सिंह पुत्र गोपीराम 74/1567 भाग सुशिल देवी पत्नी शिवकुमार पुत्र विषमबार्डियल 37/1567 भाग श्रीमती सजाना देवी पत्नी शीशपाल सिंह पुत्र चंद्र सिंह 261/3130 भाग पदम् सिंह पुत्र शीशपाल सिंह पुत्र चन्दर सिंह 491063/4904710 भाग प्रदीप कुमार पुत्र व श्रीमती शकुंतला विधवा रतन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह हर दो समभाग 87/3130 भाग भवर सिंह , सरजीत सिंह पुत्र शीशपाल चंद्र सिंह हर तीन समभाग 261/3130 भाग श्रीमती राजेश देवी पत्नी सत्यपाल सिंह पुत्र अमर</p>

					सिंह 86/1565 भाग वासिदेह शादी पुत्र अमीचंद पुत्र गंगाराम 81/3130 भाग वासी बसकुसला तेह. गुडगांव (47//11)
77	47//12	निजी	कृषि	0.0708	रामनारायण सिंह जयनारायण सिंह अमर सिंह छत्रपाल सिंह पुत्र व श्रीमती संतरा बाई ागिबै पुत्री व श्रीमती सरबई विधवा मातुसिंघ पुत्र रामरतन हर सात समभाग 428/611 भाग श्योपाल सिंह पुत्र मातुसिंघ पुत्र रामरतन 20/611 भाग गंगपाल सिंह पुत्र मातुसिंघ पुत्र रामरतन 41/611 भाग लक्समन सिंह प्रदीप कुमार पुत्र व पिस्ता देवी विधवा श्योनारायण पुत्र मातु हर तीन समभाग 81/611 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अश्वनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 1/1222 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल पुत्र चन्दगीराम 1/1222 भाग वासिदेह जगदीश पुत्र समय सिंह पुत्र गौरधन 40/611 भाग वासी कसान तेह.मानेसर (47//12)
78	47//19	निजी	कृषि	0.0506	जगदीश सिंह सरजीत सिंह पुत्र व श्रीमती किराना वर्मिला पूत्री रुदा पुत्र रामरतन हर चार संभाग 4/5 भाग देवेन्द्र ललित धर्मेन्द्र पुत्र श्रीमती चितारा पूत्री रुदा हर तीन संभाग 1/5 भाग वासिदेह (47//19)
79	47//2	निजी	कृषि	0.1113	सेठाराम रामानंद पुत्र व रामबाई विधा अंगूरी सविता पुत्री फुलिया पुत्र जयराम हर 6 समभाग 3/14 भाग केला पुत्री फुलिया जयराम 1/224 भाग वासिदेह सीताराम पुत्र व श्रीमती कांटा ममता राजबाला आशा , पूनम पुत्री श्रीमती केला देवी पुत्र फूल सिंह हर 6 समभाग 1/32 भाग वासी वासी भूरस झज्जर नरेंद्र सुन्दर नरेश पुत्र व रमेश पुत्री व चंद्रो विधवा महावीर पुत्र जयराम हर पांच समभाग 5/24 भाग रामकुमार पुत्र जयराम 67/24648 भाग वासिदेह श्रीमती लडो देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र 40/1027 भाग वासी करोल डिस.रेवाड़ी सुषमा देवी पत्नी अश्वनी पुत्र चन्दगीराम 1/8 भाग वासी

					चकरपुर कांटा देवी पत्नी राजपाल पुत्र चन्दगीराम 1/8 भाग वासी चकरपुर (47//2)
80	47//20	निजी	कृषि	0.3845	सतपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर सिंह 1/6 भाग महेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र चन्दर सिंह 1/6 भाग ओमप्रकाश पुत्र घीसा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/6 भाग मातादीन पुत्र ईश्वर 1/3 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अश्वनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 1/30 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल पुत्र चन्दगीराम 1/30 भाग नरेंद्र सिंह पुत्र मेघराज पुत्र सरदूमल सिंघू27/4670 भाग वासिदेह सुनील कुमार पुत्र सूरजभान सिंह पुत्र बिड़दा सिंह 44/467 भाग वासी नाहड तेह.कोहली (47//20)
81	47//21	निजी	कृषि	0.3693	हनुमान प्रसाद पुत्र तिलोकराम पुत्र मोहन 1/2 भाग कशी देवी मुन्नीदेवी पुत्री तिलोकराम हर दो समभाग 1/2 भाग वासिदेह (47//21)
82	47//22	निजी	कृषि	0.0278	जगदीश सिंह सरजीत सिंह पुत्र व श्रीमती किराना वर्मिला पुत्री रुदा पुत्र रामरतन हर चार समभाग 4/5 भाग देवेंद्र ललित धर्मेन्द्र पुत्र श्रीमती चितारा पुत्री रुदा हर तीन समभाग 1/5 भाग वासिदेह (47//22)
83	47//9	निजी	कृषि	0.0911	सेठाराम रामानंद पुत्र व रामबाई विधा अंगूरी सविता पुत्री फुलिया पुत्र जयराम हर 6 समभाग 3/14 भाग केला पुत्री फुलिया जयराम 1/224 भाग वासिदेह सीताराम पुत्र व श्रीमती कांटा ममता राजबाला आशा , पूनम पुत्री श्रीमती केला देवी पुत्र फूल सिंह हर 6 समभाग 1/32 भाग वासी वासी भूरस झज्जर नरेंद्र सुन्दर नरेश पुत्र व रमेश पुत्री व चंद्रो विधवा महावीर पुत्र जयराम हर पांच समभाग 5/24 भाग रामकुमार पुत्र जयराम 67/24648 भाग वासिदेह श्रीमती लडो देवी पत्नी सुरेंद्र पुत्र 40/1027 भाग वासी करोल डिस.रेवाड़ी सुषमा देवी पत्नी अश्वनी पुत्र चन्दगीराम 1/8 भाग वासी

					चकरपुर कांटा देवी पत्नी राजपाल पुत्र चन्दगीराम 1/8 भाग वासी चकरपुर (47/9)
84	52/1	निजी	कृषि	0.404688	राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मद्दु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग

					वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (52//1)
85	52//10	निजी	कृषि	0.3946	राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मधु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी

					ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (52//10)
86	52//11	निजी	कृषि	0.3743	राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मद्दु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंह 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंह 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंह 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह

					रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (52//11)
87	52//20	निजी	कृषि	0.3541	राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मद्दु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनवाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र

					<p>रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (52//20)</p>
88	52//21	निजी	कृषि	0.3339	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मनु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंह 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंह 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंह 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह</p>

					5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (52//21)
89	53//15/1	निजी	कृषि	0.0202	शरावती मूर्ति पुत्री झूठा सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 2/3 भाग बलजीत दत्तक पुत्र व श्रीपाल दत्तक राजेंद्र दत्तक पुत्र मनफूल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर तीन समभाग 1/3 भाग वासिदेह (53//15/1)
90	53//15/2	निजी	कृषि	0.043	छतरपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह पुत्र शेर सिंह 1/4 भाग रामेहर राजेंद्र सिंह सुनील पुत्र कालूराम पुत्र भैरु हर तीन समभाग 1/4 भाग रामीतार सिंह राजेंद्र सिंह पुत्र वचन सिंह पुत्र गणपत हर दो समभाग 1/4 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 1/8 भाग सुमन देवी पत्नी सुभाष कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 1/8 भाग वासिदेह (53//15/2)
91	53//16	निजी	कृषि	0.0809	हनुमान प्रसाद पुत्र तिलोकराम पुत्र मोहन 1/2 भाग कशी देवी मुन्नीदेवी पूत्री तिलोकराम हर दो संभाग 1/2 भाग वासिदेह (53//16)
92	53//25	निजी	कृषि	0.1012	राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मधु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन

				<p>सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (53//25)</p>
--	--	--	--	--

93	53//5	निजी	कृषि	0.0202	भारत भूषण दिनेश कुमार पुत्र व श्रीमती माया विधवा रामनिवास पुत्र महादेव हर तीन समभाग 1015/6316 भाग श्रीमती देवी पत्नी मदनलाल पुत्र धर्मचंद 139/3158 भाग श्रीमती रेखा पत्नी कमल सिंह पुत्र धर्मचंद 139/3158 भाग जगवीर सिंह पुत्र मेघसिंह पुत्र राजसिंह 18/1579 भाग सुरेश मदन लाल मनोज कुमार कमल पुत्र धर्मचंद पुत्र महादेव प्रसाद हर चार समभाग 4673/6316 भाग वासिदेह (53//5)
94	53//6	निजी	कृषि	0.0405	शरावती मूर्ति पुत्री झूठा सिंह पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 2/3 भाग बलजीत दत्तक पुत्र व श्रीपाल दत्तक राजेंद्र दत्तक पुत्र मनफूल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह हर तीन समभाग 1/3 भाग वासिदेह (53//6)
95	64//14	निजी	कृषि	0.2175	राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मधु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार संभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंह 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंह 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो संभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंह 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन संभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो संभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह

				<p>33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (64//14)</p>	
96	64//15	निजी	कृषि	0.2959	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मद्दु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार संभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पूत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो संभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पूत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन संभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो संभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह</p>

					<p>पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (64//15)</p>
97	64//16	निजी	कृषि	0.404688	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मधु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंह 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंह 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंह 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन</p>

					समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (64//16)
98	64//17	निजी	कृषि	0.3743	रामचंद्र. सुमेर सिंह सुरेश कुमार मदन सिंह पुत्र हरनारायण पुत्र मूलाराम हर चार सैम भाग वासी सायना (64//17)
99	64//24	निजी	कृषि	0.3946	रामचंद्र. सुमेर सिंह सुरेश कुमार मदन सिंह पुत्र हरनारायण पुत्र मूलाराम हर चार सैम भाग वासी सायना (64//24)
100	64//5	निजी	कृषि	0.1214	राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मधु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंह 130/4891 भाग सोनवाई पुत्री जगमाल

					<p>सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (64//5)</p>
101	64//6	निजी	कृषि	0.1416	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मदु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर</p>

					<p>चार संभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पूत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो संभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पूत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन संभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो संभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (64//6)</p>
102	65//1	निजी	कृषि	0.3136	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मधु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु</p>

				<p>सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्न वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (65//1)</p>
--	--	--	--	---

103	65//10	निजी	कृषि	0.2934	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मद्दु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी जयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ओमबाई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल</p>
-----	--------	------	------	--------	---

					71117/5986584 भाग वासिदेह (65//10)
104	65//12	निजी	कृषि	0.1695	चंद्रावती विधवा व सजाय सिंह अजीत सिंह सुनील सिंह पुत्र व संतोष सुधा पुत्री ओमप्रकाश पुत्र फकीर सिंह हर 6 समभाग 1552/4319 भाग पारस रेशम पुत्री फकीर सिंह बहादुर सिंह हर दो समभाग 237/4319 भाग कृष्ण पुत्री फकीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह 178/4319 भाग सरोज पुत्री फकीर सिंह पुत्र बदन सिंह 320/4319 भाग सोदानबाई पुत्री बहादुर सिंह पुत्र श्योलाल सिंह 480/4319 भाग सोमदत्त सिंह उर्फ सोमवीर पुत्र फकीर सिंह पुत्र बहदुर सिंह 1392/4319 भाग श्रीमती पूजा पत्नी राकेश पुत्र ओमकार सिंह 160/4319 भाग वासिदेह (65//12)
105	65//20	निजी	कृषि	0.404688	चंद्रावती विधवा व सजाय सिंह अजीत सिंह सुनील सिंह पुत्र व संतोष सुधा पुत्री ओमप्रकाश पुत्र फकीर सिंह हर 6 समभाग 1552/4319 भाग पारस रेशम पुत्री फकीर सिंह बहादुर सिंह हर दो समभाग 237/4319 भाग कृष्ण पुत्री फकीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह 178/4319 भाग सरोज पुत्री फकीर सिंह पुत्र बदन सिंह 320/4319 भाग सोदानबाई पुत्री बहादुर सिंह पुत्र श्योलाल सिंह 480/4319 भाग सोमदत्त सिंह उर्फ सोमवीर पुत्र फकीर सिंह पुत्र बहदुर सिंह 1392/4319 भाग श्रीमती पूजा पत्नी राकेश पुत्र ओमकार सिंह 160/4319 भाग वासिदेह (65//20)
106	65//21	निजी	कृषि	0.404688	छतरपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह पुत्र शेर सिंह 1/4 भाग रामेहर राजेंद्र सिंह सुनील पुत्र कालूराम पुत्र भैरु हर तीन समभाग 1/4 भाग रामौतार सिंह राजेंद्र सिंह पुत्र वचन सिंह पुत्र गणपत हर दो समभाग 1/4 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 1/8 भाग सुमन देवी पत्नी सुभाष कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 1/8 भाग वासिदेह (65//21)

107	68//1	निजी	कृषि	0.3794	श्रीमती मुकेश पत्नी ब्रह्मपाल पुत्र वेदराम (68//1)
108	68//10/1	निजी	कृषि	0.0986	श्रीमती मुकेश पत्नी ब्रह्मपाल पुत्र वेदराम (68//10/1)
109	68//10/2	निजी	कृषि	0.0936	श्रीमती ओमबाई पुत्री बच्चन सिंह 61/607 भाग कंवर बाई पुत्री बच्चन सिंघस्य/ो 1/607 भाग ओमपाल सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र झूठा सिंह 3/1214 भाग मीनाबाई कृष्णाबाई पुत्री व शकुंतला विधवा आशा सिंह पुत्र बचन सिंह हर तीन समभाग 6/607 भाग वासिदेह श्रीमती चंद्रो देवी पत्नी कंवरलाल पुत्र पत्रं 536/607 भाग वासी मोलाहेडा डिस्ट.गुडगांव रणसिंघ पुत्र बिरजू पुत्र बचन सिंह 3/1214 भाग वासिदेह (68//10/2)
110	68//11	निजी	कृषि	0.172	श्रीमती ओमबाई पुत्री बच्चन सिंह 61/607 भाग कंवर बाई पुत्री बच्चन सिंघस्य/ो 1/607 भाग ओमपाल सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र झूठा सिंह 3/1214 भाग मीनाबाई कृष्णाबाई पुत्री व शकुंतला विधवा आशा सिंह पुत्र बचन सिंह हर तीन समभाग 6/607 भाग वासिदेह श्रीमती चंद्रो देवी पत्नी कंवरलाल पुत्र पत्रं 536/607 भाग वासी मोलाहेडा डिस्ट.गुडगांव रणसिंघ पुत्र बिरजू पुत्र बचन सिंह 3/1214 भाग वासिदेह (68//11)
111	68//20	निजी	कृषि	0.1518	छत्रपाल गंगपाल कृष्णपाल देशराज पुत्र नत्थू पुत्र लालसिंह हर चार संभाग 5008/11595 भाग ओमबाई विधा कमला पूत्री नत्थू पुत्र लालसिंह हर तीन संभाग 1855/6957 भाग अशरफी विधवा नत्थू 595/6957 भाग रविंद्र सिंह मनोज पुत्र व श्रीमती कुसुम पूत्री व श्रीमती बर्फी विधवा राजपाल पुत्र नत्थू हर चार संभाग 404/3865 भाग धर्मपाल सिंह महावीर सिंह पुत्र उदय सींग पुत्र नत्थू हर दो संभाग 727/6957 भाग वासिदेह वीरपाल ब्रह्मपाल पुत्र वेदराम पुत्र रामचंद्र हर दो संभाग 16/2319 भाग वासी मोहम्मदपुर झाड़सा जिला .गुडगांव

					(68//20)
112	68//21	निजी	कृषि	0.1214	छत्रपाल गंगपाल कृषणपाल देशराज पुत्र नत्थू पुत्र लालसिंह हर चार संभाग 5008/11595 भाग ओमबाई विधा कमला पूत्री नत्थू पुत्र लालसिंह हर तीन संभाग 1855/6957 भाग अशरफी विधवा नत्थू 595/6957 भाग रविंद्र सिंह मनोज पुत्र व श्रीमती कुसुम पूत्री व श्रीमती बर्फी विधवा राजपाल पुत्र नत्थू हर चार संभाग 404/3865 भाग धर्मपाल सिंह महावीर सिंह पुत्र उदय सींग पुत्र नत्थू हर दो संभाग 727/6957 भाग वासिदेह वीरपाल ब्रह्मपाल पुत्र वेदराम पुत्र रामचंद्र हर दो संभाग 16/2319 भाग वासी मोहम्मदपुर झाड़सा जिला .गुडगांव (68//21)
113	69//15	निजी	कृषि	0.2327	श्रीमती ओमबाई पूत्री बच्चन सिंह 61/607 भाग कंवर बाई पूत्री बच्चन सिंघस्य/ो 1/607 भाग ओमपाल सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र झूठा सिंह 3/1214 भाग मीनाबाई कृष्णाबाई पूत्री व शकुंतला विधवा आशा सिंह पुत्र बचन सिंह हर तीन संभाग 6/607 भाग वासिदेह (69//15)
114	69//16	निजी	कृषि	0.258	सतपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग महेश कुमार पुत्र कृषणपाल पुत्र 1/6 भाग घीसाराम रामकवर शेर सिंह बलवीर सिंह राजवीर सिंह पुत्र बहन सिंह पुत्र लेखराम हर पांच संभाग 5/18 भाग महावीर सिंह सत्यवीर सिंह ुआदायभान सिंह अशोक कुमार , सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र ममाज सिंह हर पांच संभाग 1/3 भागमहेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 1/18 भाग वासिदेह (69//16)
115	69//25	निजी	कृषि	0.2555	सतपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग महेश कुमार पुत्र कृषणपाल पुत्र 1/6 भाग घीसाराम रामकवर शेर सिंह बलवीर सिंह राजवीर सिंह पुत्र बहन सिंह पुत्र लेखराम हर पांच संभाग 5/18 भाग महावीर सिंह सत्यवीर सिंह ुआदायभान सिंह अशोक कुमार , सुरेश कुमार पुत्र

					हरपाल सिंह पुत्र ममाज सिंह हर पांच संभाग 1/3 भागमहेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 1/18 भाग वासिदेह (69//25)
116	69//3	निजी	कृषि	0.0076	रामचंद्र. सुमेर सिंह सुरेश कुमार मदन सिंह पुत्र हरनारायण पुत्र मूलाराम हर चार सैम भाग वासी सायना (69//3)
117	69//4	निजी	कृषि	0.2858	रामचंद्र. सुमेर सिंह सुरेश कुमार मदन सिंह पुत्र हरनारायण पुत्र मूलाराम हर चार सैम भाग वासी सायना (69//4)
118	69//5	निजी	कृषि	0.3288	छत्रपाल गंगपाल कृष्णपाल देशराज पुत्र नत्थू पुत्र लालसिंह हर चार संभाग 5008/11595 भाग ओमबाई विधा कमला पूत्री नत्थू पुत्र लालसिंह हर तीन संभाग 1855/6957 भाग अशरफी विधवा नत्थू 595/6957 भाग रविंद्र सिंह मनोज पुत्र व श्रीमती कुसुम पूत्री व श्रीमती बर्फी विधवा राजपाल पुत्र नत्थू हर चार संभाग 404/3865 भाग धर्मपाल सिंह महावीर सिंह पुत्र उदय सींग पुत्र नत्थू हर दो संभाग 727/6957 भाग वासिदेह वीरपाल ब्रह्मपाल पुत्र वेदराम पुत्र रामचंद्र हर दो संभाग 16/2319 भाग वासी मोहम्मदपुर झाड़सा जिला ,गुडगांव (69//5)
119	69//6	निजी	कृषि	0.2125	श्रीमती ओमबाई पूत्री बच्चन सिंह 61/607 भाग कंवर बाई पूत्री बच्चन सिंघस्य/ो 1/607 भाग ओमपाल सिंह पुत्र बचन सिंह पुत्र झूठा सिंह 3/1214 भाग मीनाबाई कृष्णाबाई पूत्री व शकुंतला विधवा आशा सिंह पुत्र बचन सिंह हर तीन संभाग 6/607 भाग वासिदेह (69//6)
120	7//12	निजी	कृषि	0.2479	श्रीमती कमला देवी सुनीता देवी रेशम देवी मंजूदेवी रामवती देवी संजुबै सुमनबाई पुत्र व श्रीमती अंगूरी देवी विधवा रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह हर 8 समभाग 8/1881 भाग अनारा विधवा गोकल सिंह पुत्र बहादुर सिंह 4/1045 भाग जससू सिंघ समुंदी पाल

					सिंघ रमेश पुत्र व श्रीमती केला सहोदरा विमला मांगना पुत्री सवतसिंघ पुत्र बदर सिंह हर 7 समभाग 348/1045 भाग रामकवर सिंह पुत्र व श्रीमती मुन्नीबाई घोघडी , उर्मिला निरभै पुत्री व श्रीमती सत्यवती विधवा रिछपाल सिंह हर 6 समभाग 234/1045 भाग जगत सिंह प्रकाश सिंह पुत्र व श्रीमती शकुंतला पुत्री रिछपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह हर तीन समभाग 17/1045 भाग वासिदेह रामवीर सिंह इंद्रजीत सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र हजारी सिंह हर दो समभाग 98/1045 भाग वासी सेहलंग जिलेसिंह पालसिंघ महावीर सिंह पुत्र झाबर सिंह पुत्र कुंदनसिंघ हर तीन समभाग 16/209 भाग बदलूराम पुत्र कालूराम पुत्र कुंदनराम 16/209 भाग वासिदेह धर्मपाल रामलाल बंशीलाल पुत्र प्रभुराम पुत्र कालूराम हर तीन समभाग 11/95 भाग वासी बहोत सवाई सिंह पुत्र गोकलसिंघ पुत्र बहादुर सिंह 26/1045 भाग राजेंद्र सिंह पुत्र रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह 293/9405 भाग वासिदेह (7//12)
121	7//13	निजी	कृषि	0.1619	रविंदर सिंह पुत्र मामचंद पुत्र 1/2 भाग वासी सेहलग अनिल पुत्र व उमा कमलेश उर्फ पिंकी पुत्री व संतरा देवी विधवा बलवीर पुत्र मामचंद हर चार समभाग 1/2 भाग वासिदेह (7//13)
122	7//18	निजी	कृषि	0.1366	धर्म देवी पत्नी धर्मपाल पुत्र ताराचंद 89/713 भाग सरती देवी विधवा व सुरसती नारायणी धापा सुहागवती पुत्री रामस्वरूप पुत्र रुदा हर फेवी समभाग 356/713 भाग समकुशल पुत्री फूलचंद पुत्र पणजी 34/713 भाग रविदत्त सुरेंद्र राजकुमार अमित कुमार पुत्र व रीता देवी पुत्री सूरजभान पुत्र कुरडाराम हर पांच समभाग 234/713 भाग वासिदेह (7//18)
123	7//19	निजी	कृषि	0.2732	श्रीमती कमला देवी सुनीता देवी रेशम देवी मंजूदेवी रामवती देवी संजुबै सुमनबाई पुत्र व श्रीमती अंगूरी देवी

				<p>विधवा रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह हर 8 समभाग 8/1881 भाग अनारा विधवा गोकल सिंह पुत्र बहादुर सिंह 4/1045 भाग जससू सिंघ समुंदी पाल सिंघ रमेश पुत्र व श्रीमती केला सहोदरा विमला मांगना पुत्री सवतसिंघ पुत्र बदर सिंह हर 7 समभाग 348/1045 भाग रामकवर सिंह पुत्र व श्रीमती मुन्नीबाई घोघड़ी , उर्मिला निरभै पुत्री व श्रीमती सत्यवती विधवा रिछपाल सिंह हर 6 समभाग 234/1045 भाग जगत सिंह प्रकाश सिंह पुत्र व श्रीमती शकुंतला पुत्री रिछपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह हर तीन समभाग 17/1045 भाग वासिदेह रामवीर सिंह इंद्रजीत सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र हजारी सिंह हर दो समभाग 98/1045 भाग वासी सेहलंग जिलेसिंह पालसिंघ महावीर सिंह पुत्र झाबर सिंह पुत्र कुंदनसिंघ हर तीन समभाग 16/209 भाग बदलूराम पुत्र कालूराम पुत्र कुंदनराम 16/209 भाग वासिदेह धर्मपाल रामलाल वंशीलाल पुत्र प्रभुराम पुत्र कालूराम हर तीन समभाग 11/95 भाग वासी बहोत सवाई सिंह पुत्र गोकलसिंघ पुत्र बहादुर सिंह 26/1045 भाग राजेंद्र सिंह पुत्र रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह 293/9405 भाग वासिदेह (7//19)</p>	
124	7//2	निजी	कृषि	0.2023	<p>श्रीमती कमला देवी सुनीता देवी रेशम देवी मंजूदेवी रामवती देवी संजुबै सुमनबाई पुत्र व श्रीमती अंगूरी देवी विधवा रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह हर 8 समभाग 8/1881 भाग अनारा विधवा गोकल सिंह पुत्र बहादुर सिंह 4/1045 भाग जससूसिंघ समुंदीपालसिंघ रमेश पुत्र व श्रीमती केला सहोदरा विमला मांगना पुत्री सवत सिंघ पुत्र बदर सिंह हर 7 समभाग 348/1045 भाग रामकवर सिंह पुत्र व श्रीमती मुन्नीबाई घोघड़ी , उर्मिला निरभै पुत्री व श्रीमती सत्यवती विधवा रिछपाल सिंह हर 6 समभाग 234/1045 भाग जगत सिंह प्रकाश सिंह पुत्र व श्रीमती शकुंतला पुत्री रिछपाल सिंह</p>

					पुत्र बहादुर सिंह हर तीन समभाग 17/1045 भाग वासिदेह रामवीर सिंह इंद्रजीत सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र हजारी सिंह हर दो समभाग 98/1045 भाग वासी सेहलंग जिलेसिंह पालसिंघ महावीर सिंह पुत्र झाबर सिंह पुत्र कुंदनसिंघ हर तीन समभाग 16/209 भाग बदलूराम पुत्र कालूराम पुत्र कुंदनराम 16/209 भाग वासिदेह धर्मपाल रामलाल बंशीलाल पुत्र प्रभुराम पुत्र कालूराम हर तीन समभाग 11/95 भाग वासी बहोत सवाई सिंह पुत्र गोकलसिंघ पुत्र बहादुर सिंह 26/1045 भाग राजेंद्र सिंह पुत्र रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह 293/9405 भाग वासिदेह (7/12)
125	7/122	निजी	कृषि	0.2934	ओमवीर पुत्र सोहनलाल 1/2 भाग वासी सेहलंग ऋषिराज पुत्र जगदीश पुत्र सुल्तान 1/2 भाग वासी सेहलंग (7/122)
126	7/123	निजी	कृषि	0.129	जियालाल देवदत्त पुत्र व नारायणी चमेली बाई ोकाँबै पुत्री बाशी हर पांच समभाग वासिदेह (7/123)
127	7/13	निजी	कृषि	0.2327	श्रीमती सरवती सोहनबाई पुत्री झूठासिंघ पुत्र शेर सिंह हर दो समभाग 2/3 भाग वासिदेह जगपाल सिंह सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र राजपाल सिंह पुत्र महासिंघ हर दो समभाग 1/6 भाग वासी नीरपुर तेह.अटेली जगदीश सिंह पुत्र महासिंघ 1/6 भाग वासी निरपुर तेह.अटेली (7/13)
128	7/18	निजी	कृषि	0.1821	कृष्ण सिंह रणजीत सिंह महावीर सिंह विक्रम सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र चंदू सिंह हर चार संभाग वासिदेह (7/18)
129	7/19	निजी	कृषि	0.2226	श्रीमती कमला देवी सुनीता देवी रेशम देवी मंजूदेवी रामवती देवी संजुबै सुमनबाई पुत्र व श्रीमती अंगूरी देवी विधवा रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह हर 8 समभाग 8/1881 भाग अनारा विधवा गोकल सिंह पुत्र बहादुर सिंह 4/1045 भाग जससू सिंघ समुंदी पाल

					सिंघ रमेश पुत्र व श्रीमती केला सहोदरा विमला मांगना पुत्री सवतसिंघ पुत्र बदर सिंह हर 7 समभाग 348/1045 भाग रामकवर सिंह पुत्र व श्रीमती मुन्नीबाई घोघड़ी , उर्मिला निरभै पुत्री व श्रीमती सत्यवती विधवा रिछपाल सिंह हर 6 समभाग 234/1045 भाग जगत सिंह प्रकाश सिंह पुत्र व श्रीमती शकुंतला पुत्री रिछपाल सिंह पुत्र बहादुर सिंह हर तीन समभाग 17/1045 भाग वासिदेह रामवीर सिंह इंद्रजीत सिंह पुत्र निहाल सिंह पुत्र हजारी सिंह हर दो समभाग 98/1045 भाग वासी सेहलंग जिलेसिंह पालसिंघ महावीर सिंह पुत्र झावर सिंह पुत्र कुंदनसिंघ हर तीन समभाग 16/209 भाग बदलूराम पुत्र कालूराम पुत्र कुंदनराम 16/209 भाग वासिदेह धर्मपाल रामलाल बंशीलाल पुत्र प्रभुराम पुत्र कालूराम हर तीन समभाग 11/95 भाग वासी बहोत सवाई सिंह पुत्र गोकलसिंघ पुत्र बहादुर सिंह 26/1045 भाग राजेंद्र सिंह पुत्र रामनारायण सिंह पुत्र गोकल सिंह 293/9405 भाग वासिदेह (7/9)
130	748	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.1037	नगर पंचायत (748)
131	762	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0354	नगर पंचायत (762)
132	763	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0455	नगर पंचायत (763)
133	80//15	निजी	कृषि	0.3743	सतपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग महेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र 1/6 भाग घीसाराम रामकवर शेर सिंह बलवीर सिंह राजवीर सिंह पुत्र बहन सिंह पुत्र लेखराम हर पांच समभाग 5/18 भाग महावीर सिंह सत्यवीर सिंह ुआदायभान सिंह अशोक कुमार , सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र ममाज सिंह हर पांच समभाग 1/3 भाग महेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 1/18 भाग वासिदेह (80//15)
134	80//16	निजी	कृषि	0.3996	सत्यपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6

					<p>भाग नरेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र चन्दर 1/6 भाग ओमप्रकाश धीसा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/6 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अशवनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 13/6336 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल चन्दगीराम 13/6336 भाग वासिदेह जगदीश पुत्र समयसिंघ पुत्र गोरधन 1/32 भाग वासी कसान तेह. मानेसर प्रशोतम प्रदीप पुत्र व श्रीमती राजकुमारी विधवा प्रेम सिंह पुत्र घीसासिंह हर तीन समभाग 3071/31680 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी सुखपाल पुत्र जगरूप सिंह 11/960 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिवकुमार जगरूप सिंह 11/960 भाग महावीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह 1/96 भाग , सत्यवीर सिंह ुआदायभान सिंह , अशोक कुमार सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह हर चार समभाग 4/15 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी कैलाश चाँद पुत्र सावन राम 9/320 भगा सत. सुमन पत्नी धरम सिंह पुत्र सावन राम 9/320 भाग वासिदेह (80//16)</p>
135	80//17	निजी	कृषि	0.0025	<p>सतपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग महेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र 1/6 भाग घीसाराम रामकवर शेर सिंह बलवीर सिंह राजवीर सिंह पुत्र बहन सिंह पुत्र लेखराम हर पांच समभाग 5/18 भाग महावीर सिंह सत्यवीर सिंह ुआदायभान सिंह अशोक कुमार , सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र ममाज सिंह हर पांच समभाग 1/3 भागमहेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 1/18 भाग वासिदेह (80//17)</p>
136	80//24	निजी	कृषि	0.0354	<p>सत्यपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग नरेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र चन्दर 1/6 भाग ओमप्रकाश धीसा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/6 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अशवनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 13/6336 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल चन्दगीराम 13/6336 भाग वासिदेह जगदीश पुत्र समयसिंघ पुत्र गोरधन 1/32 भाग वासी कसान तेह. मानेसर प्रशोतम प्रदीप पुत्र व</p>

					श्रीमती राजकुमारी विधवा प्रेम सिंह पुत्र घीसासिंह हर तीन समभाग 3071/31680 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी सुखपाल पुत्र जगरूप सिंह 11/960 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिवकुमार जगरूप सिंह 11/960 भाग महावीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह 1/96 भाग , सत्यवीर सिंह उआदायभान सिंह , अशोक कुमार सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह हर चार समभाग 4/15 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी कैलाश चाँद पुत्र सावन राम 9/320 भगा सत. सुमन पत्नी धरम सिंह पुत्र सावन राम 9/320 भाग वासिदेह (80//24)
137	80//25	निजी	कृषि	0.3996	सत्यपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग नरेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र चन्दर 1/6 भाग ओमप्रकाश धीसा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/6 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अशवनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 13/6336 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल चन्दगीराम 13/6336 भाग वासिदेह जगदीश पुत्र समयसिंघ पुत्र गोरधन 1/32 भाग वासी कसान तेह. मानेसर प्रशोतम प्रदीप पुत्र व श्रीमती राजकुमारी विधवा प्रेम सिंह पुत्र घीसासिंह हर तीन समभाग 3071/31680 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी सुखपाल पुत्र जगरूप सिंह 11/960 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिवकुमार जगरूप सिंह 11/960 भाग महावीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह 1/96 भाग , सत्यवीर सिंह उआदायभान सिंह , अशोक कुमार सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह हर चार समभाग 4/15 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी कैलाश चाँद पुत्र सावन राम 9/320 भगा सत. सुमन पत्नी धरम सिंह पुत्र सावन राम 9/320 भाग वासिदेह (80//25)
138	80//5	निजी	कृषि	0.3339	घीसाराम रामकवर शेर सिंह रणधीर मेरे सिंह पुत्र भातरम पुत्र तिरखाराम हर 5 समभाग 645/588 भाग श्रीमती सुनील पत्नी अजित सिंह पुत्र रामकुमार

					<p>129/5888 भाग राजबाला पुत्री रामेश्वर पुत्र प्रभु 1/368 भाग श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 59/8832 भाग ओमप्रकाश पुत्र चन्दगीराम पुत्र गंगाराम पुत्र 49/1472 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 59/1472 भाग श्रीपाल जयनारायण श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पुत्री विषमार पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग 245/1472 भाग श्रीमती संतोष देवी पत्नी ानादप्रकाश पुत्र चन्दगीराम 59/736 भाग वर्मिला पत्नी बहादर सिंह पुत्र जगरूप सिंह 3889/26496 भाग सुनीता पत्नी सुखपाल 3889/26496 भाग विनोद भूषण वेदप्रकाश अजयसिंह पुत्र व श्रीमती आशा ुयशा पुत्री व श्रीमती वन देवी विधवा श्रीपाल सिंह पुत्र रामनारायण हर सात समभाग 1/46 भाग प्रदीप अनिल पुत्र व बबिता पुत्री व विमला देवी विधवा बलवीर पुत्र भतराम हर चार समभाग 129/5888 भाग श्रीमती रतन देवी पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 49/1472 भाग महेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 129/5888 भाग वासिदेह (80//5)</p>
139	80//6	निजी	कृषि	0.3541	<p>घीसाराम रामकवर शेर सिंह रणधीर मेरे सिंह पुत्र भातरम पुत्र तिरखाराम हर 5 समभाग 645/588 भाग श्रीमती सुनील पत्नी अजित सिंह पुत्र रामकुमार 129/5888 भाग राजबाला पुत्री रामेश्वर पुत्र प्रभु 1/368 भाग श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 59/8832 भाग ओमप्रकाश पुत्र चन्दगीराम पुत्र गंगाराम पुत्र 49/1472 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 59/1472 भाग श्रीपाल जयनारायण श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पुत्री विषमार पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग 245/1472 भाग श्रीमती संतोष देवी पत्नी ानादप्रकाश पुत्र चन्दगीराम 59/736 भाग वर्मिला पत्नी बहादर सिंह पुत्र जगरूप सिंह 3889/26496 भाग सुनीता पत्नी सुखपाल 3889/26496 भाग विनोद भूषण</p>

					वेदप्रकाश अजयसिंघ पुत्र व श्रीमती आशा ुयशा पुत्री व श्रीमती बन देवी विधवा श्रीपाल सिंह पुत्र रामनारायण हर सात समभाग 1/46 भाग प्रदीप अनिल पुत्र व बबिता पुत्री व त्रिमला देवी विधवा बलवीर पुत्र भतराम हर चार समभाग 129/5888 भाग श्रीमती रतन देवी पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 49/1472 भाग महेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 129/5888 भाग वासिदेह (80//6)
140	81//1	निजी	कृषि	0.1012	घीसाराम रामकवर शेर सिंह रणधीर मेरे सिंह पुत्र भातरम पुत्र तिरखाराम हर 5 संभाग 645/588 भाग श्रीमती सुनील पत्नी अजित सिंह पुत्र रामकुमार 129/5888 भाग राजबाला पूत्री रामेश्वर पुत्र प्रभु 1/368 भाग श्रीमती आशा पूत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 59/8832 भाग ओमप्रकाश पुत्र चन्दगीराम पुत्र गंगाराम पुत्र 49/1472 भाग संतोष देवी पूत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 59/1472 भाग श्रीपाल जयनारायण श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पूत्री विषमार पुत्र गंगाराम हर पांच संभाग 245/1472 भाग श्रीमती संतोष देवी पत्नी ानादप्रकाश पुत्र चन्दगीराम 59/736 भाग बर्मिला पत्नी बहादर सिंह पुत्र जगरूप सिंह 3889/26496 भाग सुनीता पत्नी सुखपाल 3889/26496 भाग विनोद भूषण वेदप्रकाश अजयसिंघ पुत्र व श्रीमती आशा ुयशा पूत्री व श्रीमती बन देवी विधवा श्रीपाल सिंह पुत्र रामनारायण हर सात संभाग 1/46 भाग प्रदीप अनिल पुत्र व बबिता पूत्री व विमला देवी विधवा बलवीर पुत्र भतराम हर चार संभाग 129/5888 भाग श्रीमती रतन देवी पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 49/1472 भाग महेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 129/5888 भाग वासिदेह (81//1)
141	81//10/2	निजी	कृषि	0.0809	घीसाराम रामकवर शेर सिंह रणधीर मेरे सिंह पुत्र भातरम पुत्र तिरखाराम हर 5 संभाग 645/588 भाग श्रीमती सुनील

				<p>पत्नी अजित सिंह पुत्र रामकुमार 129/5888 भाग राजबाला पूत्री रामेश्वर पुत्र प्रभु 1/368 भाग श्रीमती आशा पूत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 59/8832 भाग ओमप्रकाश पुत्र चन्दगीराम पुत्र गंगाराम पुत्र 49/1472 भाग संतोष देवी पूत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 59/1472 भाग श्रीपाल जयनारायण श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पूत्री विषमार पुत्र गंगाराम हर पांच संभाग 245/1472 भाग श्रीमती संतोष देवी पत्नी आनंदप्रकाश पुत्र चन्दगीराम 59/736 भाग बर्मिला पत्नी बहादर सिंह पुत्र जगरूप सिंह 3889/26496 भाग सुनीता पत्नी सुखपाल 3889/26496 भाग विनोद भूषण वेदप्रकाश अजयसिंघ पुत्र व श्रीमती आशा ुयथा पूत्री व श्रीमती बन देवी विधवा श्रीपाल सिंह पुत्र रामनारायण हर सात संभाग 1/46 भाग प्रदीप अनिल पुत्र व बबिता पूत्री व विमला देवी विधवा बलवीर पुत्र भतराम हर चार संभाग 129/5888 भाग श्रीमती रतन देवी पत्नी महेंद्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 49/1472 भाग महेश कुमार पुत्र रामकुमार पुत्र गणपत 129/5888 भाग वासिदेह लालसिंह पुत्र सोहनलाल पुत्र परताप सिंह 50/423 भाग प्रदीप कुमार कृष्ण कुमार पुत्र यादराम पुत्र रिद्धपाल हर दो संभाग 305/3384 भाग यशपाल सिंह वजय सिंह दिनेश कुमार पुत्र बलवीर सिंह पुत्र गणपत सिंह हर 3 संभाग 3/32 भाग अमित कुमार पुत्र अतर सिंह पुत्र बलवीर सिंह 1/32 भाग सुरेंदर सिंह महेश कुमार पुत्र रामकवर पुत्र गणपत सिंह हर दो संभाग 1/24 भाग राजकुमार पुत्र नहीं सिंह पुत्र मंगल सिंह 1/4 भाग अजेंडेर प्रसाद अशोक कुमार सुरेशचंद अनिल कुमार सुनील कुमार पुत्र व श्रीमती सरोज देवी सुषमा देवी सुधा पूत्री महावीर प्रसाद पुत्र मंगल हर 8 संभाग 1/8 भाग हरिशंकर पुत्र व हेमलता रचना पूत्री ओंकारमल पुत्र बिहारी हर 3 संभाग 1/8 भाग उषा शर्मा पत्नी रामजस शर्मा पुत्र गोविंदराम दत्तक पुत्र भोलूराम 1/16 भाग वासिदेह</p>
--	--	--	--	--

					(81//10/2)
142	81//11	निजी	कृषि	0.0607	<p>सत्यपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग नरेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र चन्दर 1/6 भाग ओमप्रकाश धीसा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/6 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अशवनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 13/6336 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल चन्दगीराम 13/6336 भाग वासिदेह जगदीश पुत्र समयसिंघ पुत्र गोरधन 1/32 भाग वासी कसान तेह. मानेसर प्रशोतम प्रदीप पुत्र व श्रीमती राजकुमारी विधवा प्रेम सिंह पुत्र धीसासिंह हर तीन समभाग 3071/31680 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी सुखपाल पुत्र जगरूप सिंह 11/960 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिवकुमार जगरूप सिंह 11/960 भाग महावीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह 1/96 भाग , सत्यवीर सिंह उआदायभान सिंह , अशोक कुमार सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह हर चार समभाग 4/15 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी कैलाश चाँद पुत्र सावन राम 9/320 भगा सत. सुमन पत्नी धरम सिंह पुत्र सावन राम 9/320 भाग वासिदेह (81//11)</p>
143	81//21	निजी	कृषि	0.0051	<p>सत्यपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग नरेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र चन्दर 1/6 भाग ओमप्रकाश धीसा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/6 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अशवनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 13/6336 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल चन्दगीराम 13/6336 भाग वासिदेह जगदीश पुत्र समयसिंघ पुत्र गोरधन 1/32 भाग वासी कसान तेह. मानेसर प्रशोतम प्रदीप पुत्र व श्रीमती राजकुमारी विधवा प्रेम सिंह पुत्र धीसासिंह हर तीन समभाग 3071/31680 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी सुखपाल पुत्र जगरूप सिंह 11/960 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिवकुमार जगरूप सिंह 11/960 भाग महावीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह 1/96 भाग , सत्यवीर सिंह उआदायभान सिंह , अशोक कुमार सुरेश कुमार पुत्र हरपाल</p>

					सिंह पुत्र मामराज सिंह हर चार समभाग 4/15 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी कैलाश चाँद पुत्र सावन राम 9/320 भाग सत. सुमन पत्नी धरम सिंह पुत्र सावन राम 9/320 भाग वासिदेह (81//21)
144	83//14/1	निजी	कृषि	0.0708	अमर सिंह निहाल सिंह पुत्र सहीराम पुत्र हर दो समभाग 69/572 भाग सुरेंद्र सिंह महेश कुमार पुत्र रामकुमार सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 89/572 भाग सज्जन सिंह, बाबू सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह हर दो समभाग 31/1716 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 40/143 भाग सुमन देवी पत्नी सुभाष कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 40/143 भाग हनुमति पुत्री रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 69/1144 भाग रणजीत सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 3/143 भाग बल सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 4/143 भाग सायर सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 127/3432 भाग वासिदेह (83//14/1)
145	83//14/2	निजी	कृषि	0.1062	चंद्रावती विधवा व सजाय सिंह अजीत सिंह सुनील सिंह पुत्र व संतोष सुधा पुत्री ओमप्रकाश पुत्र फकीर सिंह हर 6 समभाग 1552/4319 भाग पारस रेशम पुत्री फकीर सिंह बहादुर सिंह हर दो समभाग 237/4319 भाग कृष्ण पुत्री फकीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह 178/4319 भाग सरोज पुत्री फकीर सिंह पुत्र बदर सिंह 320/4319 भाग सोदानबाई पुत्री बहादुर सिंह पुत्र श्योलाल सिंह 480/4319 भाग सोमदत्त सिंह उर्फ सोमवीर पुत्र फकीर सिंह पुत्र बहदुर सिंह 1392/4319 भाग श्रीमती पूजा पत्नी राकेश पुत्र ओमकार सिंह 160/4319 भाग वासिदेह (83//14/2)
146	83//15	निजी	कृषि	0.2378	हवा सिंह राम सिंह ओमप्रकाश महेंद्र सिंह पुत्र सुरजराम पुत्र चेताराम हर चार समभाग 4/125 भाग राजबाला पुत्री हरफूल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 1/30 भाग श्योरतां सिंह पुत्र साधु सिंह 361/5000

				<p>भाग नाराज सिंह पुत्र साधु सिंह 107/5000 भाग सुनील पुत्र ओमकार 19/3000 भाग तेजपाल पुत्र साधु सिंह 29/1250 भाग धर्मवीर पुत्र रामस्वरूप पुत्र छज्जूराम 27/5000 भाग श्रीमती जगन देवी विधवा प्रताप सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 1/20 भाग उदयपाल सिंह कृष्ण सिंह महेंद्र सिंह पुत्र ओमपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह हर तीन समभाग 3/20 भाग विजय लक्ष्मी सावत्री पुत्री हरफूल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हर दो समभाग 22/375 भाग मंजू पुत्री व विमला विधवा रविंदर सिंह हर दो समभाग 23/1000 भाग अशोक पुत्र रविंदर सिंह 23/2000 भाग सोमवीर पुत्र तेजपाल पुत्र साधु सिंह 83/5000 भाग समंदर पल सिंह पुत्र चन्दन सिंह 167/3000 भाग श्यामबाई विमला पुत्री चन्दन सिंह हर दो समभाग 667/7500 भाग गुड्डी अनीता पुत्री रतिपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह हर दो समभाग 117/12500 भाग सत्यवीर पुत्र व सुमन पुत्री 7 रामवती विधवा रतिपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह हर तीन समभाग 191/25000 भाग सुमन देवी पत्नी राजकुमार पुत्र धर्मवीर 4/625 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अश्वनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 19/2500 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल पुत्र चन्दगीराम 19/2500 भाग पूनम पुत्री रविंदर सिंह श्रीमती कांटा देवी पत्नी रामनिवास पुत्र भवर सिंह 1/125 भाग ब्रह्म जीत राजकुमार पुत्र ओमकार हर दो समभाग 4/375 भाग श्रीमती भागल पत्नी श्योरतां पुत्र साधु सिंह 1/500 भाग नत्थू सिंह पुत्र साधु सिंह 101261/12532500 भाग वासिदेह पूजा पुत्री भानु पुत्र जवाहर सिंह 154/5013 भाग वासी वस् खुसाला तेह. व डिस्ट. गुडगांव रामनिवास श्योपाल सिंह पुत्र भवर सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर दो समभाग 1/10 भाग घीसा सिंह गुरदयाल सिंह हंसराज सिंह पुत्र व प्रीता देवी , बबिता देवी पुत्री बदरी सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर पांच समभाग 1/10 भाग पवन कुमार राजेश कुमार पुत्र व अनितवै पुत्री व</p>
--	--	--	--	---

					आशादेवी विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र हरफूल हर चार समभाग 251/5000 भाग वासिदेह (83//15)
147	83//16	निजी	कृषि	0.1669	नत्तू सिंह अमर सिंह पुत्र व जीवनी, विधा पुत्री व गुमाना विधवा गगन सिंह पुत्र ओमराव सिंह हर पांच समभाग 5/36 भाग मोहर सिंह पुत्र उमराव सिंह पुत्र श्योजी 1/6 भाग छतरपाल सिंह बहादर सिंह रूप सिंह, वसंत सिंह सरजीत सिंह पुत्र व कमला पुत्री व किरण देवी विधवा मुंशी सिंह पुत्र उमराव सिंह हर सात समभाग 1/6 भाग रोहताश सिंह रामपाल सिंह रामौतार सिंह ताराचंद मुकेश जगमोहन नरेश पुत्र व मुनिया पुत्री व अंगूरी विधवा हर 9 समभाग 1/6 भाग रमेश उर्फ, बजरंग सिंह रणधीर सिंह राकेश महेश पुत्र व राजवंती ललिता पुत्री मलखान सिंह पुत्र उअमराव सिंह हर सात समभाग 1/6 भाग श्रीमती कृष्णा बिना मोनिका पुत्री व रविंद्र विष्णु सतेंद्र पुत्र जीत सिंह पुत्र गगन सिंह हर 6 समभाग 1/48 भाग श्रीमती कांटा देवी विधवा व विनोद पुत्र जीत सिंह पुत्र गगन सिंह हर दो समभाग 1/20880 भाग श्रीमती पुष्प देवी पत्नी सज्जन सिंह पुत्र धनसिंघ 1/145 भाग पदम् सिंह सुखपाल सिंह बाबूदान सिंह पुत्र व विमला देवी पिंगला देवी पुत्री व ब्रह्मा देवी विधवा रामकुमार पुत्र उअमराव सिंह हर 6 समभाग 1/16 भाग वासिदेह (83//16)
148	83//17/1	निजी	कृषि	0.1593	चंद्रावती विधवा व सजाय सिंह अजीत सिंह सुनील सिंह पुत्र व संतोष सुधा पुत्री ओमप्रकाश पुत्र फकीर सिंह हर 6 समभाग 1552/4319 भाग पारस रेशम पुत्री फकीर सिंह बहादुर सिंह हर दो समभाग 237/4319 भाग कृष्ण पुत्री फकीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह 178/4319 भाग सरोज पुत्री फकीर सिंह पुत्र बदर सिंह 320/4319 भाग सोदानबाई पुत्री बहादुर सिंह पुत्र श्योलाल सिंह 480/4319 भाग सोमदत्त सिंह उर्फ सोमवीर पुत्र फकीर

					सिंह पुत्र बहदुर सिंह 1392/4319 भाग श्रीमती पूजा पत्नी राकेश पुत्र ओमकार सिंह 160/4319 भाग वासिदेह (83//17/1)
149	83//17/2/1	निजी	कृषि	0.0531	श्रीमती निर्मला पत्नी सुरेश कुमार पुत्र मातु सिंह वासिदेह (83//17/2/1)
150	83//17/2/2	निजी	कृषि	0.0379	रामचंद्र पुत्र हरफूल पुत्र ढोकल वासिदेह (83//17/2/2)
151	83//24/1/3	निजी	कृषि	0.0101172	श्रीमती निर्मला पत्नी सुरेश कुमार पुत्र मातु सिंह वासिदेह (83//24/1/3)
152	83//24/1/4	निजी	रास्ता	0.0177	रामचंद्र राजेंद्र पुत्र हरफूल पुत्र ढोकल हर दो समभाग 1/3 भाग रतिपाल पुत्री व भगवानी चंद्राबाई आंबे अमरबाई विधा भावरबाई पुत्री भूराबाई हर सात समभाग 1/6 भाग पूर्ण पुत्र चन्दन सिंघुपुत्र प्रताप सिंह 1/6 भाग काबुल सिंह भारत सिंह राजकुमार पुत्र व संतोष पुत्री व हरदेवा हर पांच समभाग 1/6 भाग धर्मपाल धर्मवीर पुत्र व मंजू संतोष शकुंतला कमला पुत्री ताराचंद पुत्र हरदेवा हर 6 समभाग 1/6 भाग वासिदेह (83//24/1/4)
153	83//24/2	निजी	कृषि	0.2479	सरोज विधवा भावरबाई , भतेरी पुत्री मातु सिंह पुत्र गोकल हर तीन समभाग 1/40 भाग सोहनबाई अन्तबै सरवती पुत्री गोकल पुत्र ुआमेड सिंह हर तीन समभाग 3/40 भाग रामपाल सिंह रामवीर सिंह , राजवीर सिंह पुत्र राज सिंह पुत्र छजू सिंह हर तीन समभाग 3/32 भाग रामचंद्र सिंह पुत्र महीअपल सिंह पुत्र छजू सिंह 188/4405 भाग गिरधारी सिंह कृष्णपाल सिंह वीरेंद्र सिंह पुत्र व संतोष बाई पुत्री व सुमन्ता देवी विधवा महिपाल सिंह पुत्र हर पांच समभाग 276/4405 भाग रेखा सुशीला मनोज पुत्री व मुन्नी विधवा कृष्ण सिंह पुत्र उमराव सिंह 1/100 भाग श्रीमती सुगन बाई विधवा व श्रीमती कुसुम बाई , पुष्प बाई आशा बाई उषा बाई रघुपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर पांच समभाग 1/28 भाग श्रीमती

					<p>उर्मिलादेवी पत्नी वीरेंदर सिंह पुत्र महिपाल 69/4405 भाग कृष्णा पारवती लक्ष्मी विजय पुत्री व श्रीमती रेवती देवी विधवा हरपाल सिंह पुत्र छाजू सिंह हर पांच समभाग 293/4405 भाग सत्यवीर सिंह सत्यपाल पुत्र मनफूल सिंह पुत्र प्रताप सिंह हर दो समभाग 1/8 भाग महेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह पुत्र प्रेम सिंह 1/8 भाग सुरेंद्र सिंह रामकुमार सिंह पुत्र रघुपाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 5/56 भाग श्योनारायण पुत्र उअमराव सिंह पुत्र बहादर सिंह 25547/140960 भाग ईश्वर सिंह पुत्र कृष्णन सिंह पुत्र उमराव सिंह 3/200 भाग रतिपाल पुत्र उमरावसिंह पुत्र बहादुर सिंह 1/80 भाग वासिदेह श्रीमती आशा देवी पत्नी मॉल सिंह उर्फ मालाराम पुत्र रामसिंघ 1/40 भाग वासी धनोंदा (83//24/2)</p>
154	83//25	निजी	कृषि	0.0733	<p>दाताराम पुत्र मामचंद पुत्र चुन्नीलाल पुत्र 1/60/1803 भाग कारन सिंह कृष्ण सिंह पुत्र रूपराम पुत्र ढाणाराम हर दो समभाग 148/1803 भाग शीला विधवा व कमलेश लक्ष्मी राजबाला पुत्री जगरूप सिंह पुत्र शहजाद सिंह हर चार समभाग 69/601 भाग हेमलतवै तरुणबाई बच्चनटवै पुत्री व जसवंती विधवा जगमाल सिंह पुत्र जगरुओ सिंह हर चार समभाग 14/601 भाग ॐ सिंह पुत्र मुंसी सिंह पुत्र शहजाद 24/601 भाग आनंद सिंह सुरेश पुत्र शहजाद सिंह हर दो समभाग 317/3606 भाग रामकवर सिंह पुत्र शहजाद सिंह स/ू गोपाल सिंह 242/1803 भाग चन्दगी पुत्र कृपाराम पुत्र मंगल सिंह 148/1803 भाग आकाश पुत्र जगमाल सिंह पुत्र जगरूप 20/1803 भाग कुलदीप सिंह अनिल पुत्र जगरूप सिंह पुत्र शहजाद सिंह हर दो समभाग 122/1803 भाग नरेश पुत्र मुंशी सिंह पुत्र शहजाद सिंह 29/7212 भाग महेश उर्फ राजेंद्र कुमार पुत्र मुंशी सिंह पुत्र शहजाद सिंह 605/721 भाग राजेश कुमार जसमेर सिंह पुत्र व श्रीमती सुमन पुत्री रामसिंघ पुत्र शहजाद सिंह हर तीन</p>

					समभाग 112/1803 भाग किशोर सिंह जगदीश सिंह मनोज सिंह पुत्र ोामेदबद्द पुत्री जगत सिंह हर तीन समभाग 71/601 भाग वासिदेह (83//25)
155	83//4	निजी	कृषि	0.1189	कृष्ण सिंह रणजीत सिंह महावीर सिंह विक्रम सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र चंदू सिंह हर चार संभाग वासिदेह (83//4)
156	83//5/1	निजी	कृषि	0.0531	सत्यपाल पुत्र सूरजभान पुत्र चन्दर 1/6 भाग नरेश कुमार पुत्र कृष्णपाल पुत्र चन्दर 1/6 भाग ओमप्रकाश धीसा सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/6 भाग श्रीमती सुषमा देवी पत्नी अशवनी कुमार पुत्र चन्दगीराम 13/6336 भाग कांटा देवी पत्नी राजपाल चन्दगीराम 13/6336 भाग वासिदेह जगदीश पुत्र समयसिंघ पुत्र गोरधन 1/32 भाग वासी कसान तेह. मानेसर प्रशोतम प्रदीप पुत्र व श्रीमती राजकुमारी विधवा प्रेम सिंह पुत्र घीसासिंह हर तीन समभाग 3071/31680 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी सुखपाल पुत्र जगरूप सिंह 11/960 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी शिवकुमार जगरूप सिंह 11/960 भाग महावीर सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह 1/96 भाग , सत्यवीर सिंह ुआदायभान सिंह , अशोक कुमार सुरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह पुत्र मामराज सिंह हर चार समभाग 4/15 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी कैलाश चाँद पुत्र सावन राम 9/320 भगा सत. सुमन पत्नी धरम सिंह पुत्र सावन राम 9/320 भाग वासिदेह (83//5/1)
157	83//5/2	निजी	कृषि	0.0304	वसंत कुमार पुत्र रुड़ाराम पुत्र लेखराम वासिदेह (83//5/2)
158	83//5/3	निजी	कृषि	0.101172	वसंत कुमार पुत्र रुड़ाराम पुत्र लेखराम वासिदेह (83//5/3)
159	83//5/4	निजी	कृषि	0.172	वसंत कुमार पुत्र रुड़ाराम पुत्र लेखराम वासिदेह (83//5/4)

160	83//6/1	निजी	कृषि	0.1239	वसंत कुमार पुत्र रुड़ाराम पुत्र लेखराम वासिदेह (83//6/1)
161	83//6/2	निजी	कृषि	0.1518	हवा सिंह राम सिंह ओमप्रकाश महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजराम पुत्र चेताराम हर चार समभाग 4/125 भाग राजबाला पुत्री हरफूल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 1/30 भाग श्योरतां सिंह पुत्र साधु सिंह 361/5000 भाग नाराज सिंह पुत्र साधु सिंह 107/5000 भाग सुनील पुत्र ओमकार 19/3000 भाग तेजपाल पुत्र साधु सिंह 29/1250 भाग धर्मवीर पुत्र रामस्वरूप पुत्र छजूराम 27/5000 भाग श्रीमती जगन देवी विधवा प्रताप सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह 1/20 भाग उदयपाल सिंह कृष्ण सिंह महेन्द्र सिंह पुत्र ओमपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह हर तीन समभाग 3/20 भाग विजय लक्ष्मी सावत्री पुत्री हरफूल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हर दो समभाग 22/375 भाग मंजू पुत्री व विमला विधवा रविंदर सिंह हर दो समभाग 23/1000 भाग अशोक पुत्र रविंदर सिंह 23/2000 भाग सोमवीर पुत्र तेजपाल पुत्र साधु सिंह 83/5000 भाग समंदर पल सिंह पुत्र चन्दन सिंह 167/3000 भाग श्यामबाई विमला पुत्री चन्दन सिंह हर दो समभाग 667/7500 भाग गुड्डी अनीता पुत्री रतिपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह हर दो समभाग 117/12500 भाग सत्यवीर पुत्र व सुमन पुत्री 7 रामवती विधवा रतिपाल सिंह पुत्र चन्दन सिंह हर तीन समभाग 191/25000 भाग सुमन देवी पत्नी राजकुमार पुत्र धर्मवीर 4/625 भाग जयपाल सिंघस्य/ो रुघनाथ सिंह पुत्र फूल सिंह 76/5013 भाग भाग पूनम पुत्री रविंदर सिंह श्रीमती कांटा देवी पत्नी रामनिवास पुत्र भवर सिंह 1/125 भाग ब्रह्म जीत राजकुमार पुत्र ओमकार हर दो समभाग 4/375 भाग श्रीमती भागल पत्नी श्योरतां पुत्र साधु सिंह 1/500 भाग नत्थू सिंह पुत्र साधु सिंह 101261/12532500 भाग वासिदेह पूजा पुत्री भानु पुत्र जवाहर सिंह 154/5013 भाग वासी वस् खुसाला

					तेह. व डिस्ट. गुडगांव रामनिवास श्योपाल सिंह पुत्र भवर सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर दो समभाग 1/10 भाग घीसा सिंह गुरदयाल सिंह हंसराज सिंह पुत्र व प्रीता देवी , बबिता देवी पुत्री बदरी सिंह पुत्र मकतूल सिंह हर पांच समभाग 1/10 भाग पवन कुमार राजेश कुमार पुत्र व अनितवै पुत्री व आशादेवी विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र हरफूल हर चार समभाग 251/5000 भाग वासिदेह (83//6/2)
162	83//7	निजी	कृषि	0.0733	अमर सिंह निहाल सिंह पुत्र सहीराम पुत्र हर दो समभाग 69/572 भाग सुरेंद्र सिंह महेश कुमार पुत्र रामकुवार सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 89/572 भाग सज्जन सिंह , बाबू सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह हर दो समभाग 31/1716 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 40/143 भाग सुमन देवी पत्नी सुभाष कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 40/143 भाग हनुमति पुत्री रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 69/1144 भाग रणजीत सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 3/143 भाग बल सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 4/143 भाग सायर सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह पुत्र मन सिंह 127/3432 भाग वासिदेह (83//7)
163	98//13/1	निजी	कृषि	0.0177	कृष्णपाल सिंह पुत्र फूल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 5/24 भाग कदम पुत्री रामस्वरूप पुत्र खडग सिंह 1/24 भाग मलखान सिंह पुत्र व कमली असरफी शरबती पुत्री व बर्फी विधवा रामजीलाल पुत्र उजल सिंह हर पांच समभाग 1/4 भाग फूल सिंह अमर सिंह श्रीराम पुत्र व भोली संतरा सोहनबाई पुत्री बख्तावर सिंह पुत्र उजल सिंह हर 6 समभाग 1/4 भाग 1/4 भाग सावत्री विधवा व मुकेश सिंह उर्फ बबलू पुत्र मनफूल सिंह पुत्र प्रभु सिंह हर दो समभाग 1/8 भाग बचन सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र उजल सिंह 1/8 भाग वासिदेह (98//13/1)

164	98//13/2	निजी	कृषि	0.1442	<p>रामचंद्र सिंह रिसाल सिंह पुत्र व अतर्बाइ पुत्री बिहारी पुत्र कान्हा हर तीन समभाग 1/2 भाग जगमोहन रामकवर सुरेंद्र रमेश पुत्र व गुड्डी शिला सुनीता पुत्री व श्रीमती शांति विधवा आल्हा सिंह पुत्र बिहारी हर 8 समभाग 1/6 भाग रिपुदमन पुत्र व विमल निर्मल रविता देवकी पुत्री व सूरजबाई विधवा शिम्भूसिंघ पुत्र बिहारी हर 6 समभाग 1/6 भाग कारण सिंह पुत्र व श्रीमती कैलाश राजवती सरोज पुत्री मातु सिंह पुत्र बिहारी हर चार समभाग 1/6 भाग वासिदेह (98//13/2)</p>
165	98//14/1	निजी	कृषि	0.0202	<p>भगवानी विधवा मनफूल रामजीलाल 42/2099 भाग रामोतार वेदप्रकाश पुत्र मनफूल पुत्र रामजीलाल हर तीन समभाग 42/2099 भाग लाली प्रेमबाई पुत्री मनफूल रामजीएलएल हर दो समभाग 42/2099 भाग मेवा विधवा व अशोक पुत्र गुजारी लाल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 15/2099 भाग हंसराज राधेश्याम पुत्र व विमला पापु, उर्मिला निर्मला पुत्री गुलजारी पुत्र रामजीलाल हर 6 समभाग 112/2099 भाग मनीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गनेशी 127/2099 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 28/2099 भाग रमेश सिंह अजय सिंह विजय सिंह प्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र रामलाल हर चार समभाग 110/2099 भाग कमला गुणवंती बाला राजेश शारदा पुत्री जगदीश पुत्र रामजीलाल हर पांच समभाग 215/4198 भाग विजय पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीएलएल 12/2099 भाग श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी हंसराज पुत्र गुलजारीलाल पुत्र 298/2099 भाग देवदत्त पुत्र बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल 4/2099 भाग मनोज ईश्वर पुत्र रविदत्त पुत्र बनवारी हर दो समभाग 4/2099 भाग दीपांशु पुत्र रविकुमार पुत्र रतन सिंह 120/2099 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 68/2099 भाग बलराम नरेश मनीष पुत्र व सरोज पुत्री व</p>

					कौशल्या विधवा व मूरति देवी माता बाबूलाल पुत्र जगदीश हर 6 समभाग 43/4198 भाग कृष्ण देवेन्द्र पुत्र व मुन्नी रमेश ओम्बई सुमन पुत्री व संतरा विधवा मुंशीराम पुत्र रामजीलाल हर सात समभाग 127/2099 भाग श्रीमती भगवानी देवी पत्नी मनफूल 226/10495 भाग देवदत्त पुत्र बनवासीलाल 226/10495 भाग श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी जगदीश शर्मा 226/10495 भाग मुंशीराम मनीराम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा हर दो समभाग 452/10495 भाग रामौतार कृष्णशर्मा पुत्र व प्रेमलता कृष्ण पुत्री व चंपा देवी विधवा सूरजभान पुत्र अमीचंद हर पांच समभाग 525/2099 भाग वासिदेह (98//14/1)
166	98//14/2	निजी	कृषि	0.1366	सत्यवीर पुत्र रामेश्वर पुत्र प्रभु 1/40 भाग श्रीचंद पुत्र सांवल राम पुत्र गंगाराम 7/40 भाग श्रीमती आशा पुत्री भानाराम पुत्र सांवलराम 1/150 भाग शवभगवान , ओमप्रकाश पुत्र चन्दगीराम पुत्र गंगाराम हर दो समभाग 1/15 भाग संतोष देवी पुत्री इन्द्रलाल पुत्र गंगाराम 1/25 भाग वासिदेह देवेन्द्र पुत्र नरेश कुमारपुत्र भारत सिंह वासी मानेसर श्रीगोपाल श्योप्रसाद पुत्र व फूलबाई मेवा पुत्री विशम्बर पुत्र गंगाराम हर पांच समभाग 1/6 भाग वासिदेह अजीत सिंह पुत्र धुमिराम पुत्र मातादीन 9049/116700 भाग वासी मानेसर जी. गुडगांव ईश्वर सिंह पुत्र केहर सिंह पुत्र रणचंद्र 3329/19450 भाग श्रीमती संतोष देवी पत्नी आनंद प्रकाश पुत्र चन्दगीराम 1828/9725 भाग श्रीमती रतनी देवी पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप 1/30 भाग वासिदेह (98//14/2)
167	98//17	निजी	कृषि	0.1012	अमर सिंह छतर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम हर दो समभाग 1/3 भाग करतार सिंह श्रीमती अनुराधा पत्नी जसबीर सिंह पुत्र जीत सिंह 1/4 भाग कुलदीप सिंह महेश सिंह पुत्र रतिपाल सिंह पुत्र रामलाल सिंह हर दो समभाग 1/6 भाग वासिदेह

					(98//17)
168	98//18/1	निजी	कृषि	0.043	<p>रामचंद्र सिंह रिसाल सिंह पुत्र व अतर्बाइ पुत्री बिहारी पुत्र कान्हा हर तीन समभाग 1/2 भाग जगमोहन रामकवर सुरेंद्र रमेश पुत्र व गुड्डी शिला सुनीता पुत्री व श्रीमती शांति विधवा आल्हा सिंह पुत्र बिहारी हर 8 समभाग 1/6 भाग रिपुदमन पुत्र व विमल निर्मल रविता देवकी पुत्री व सूरजबाई विधवा शिम्भूसिंह पुत्र बिहारी हर 6 समभाग 1/6 भाग कारण सिंह पुत्र व श्रीमती कैलाश राजवती सरोज पुत्री मातु सिंह पुत्र बिहारी हर चार समभाग 1/6 भाग वासिदेह</p> <p>(98//18/1)</p>
169	98//18/2	निजी	कृषि	0.306	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मदु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंह 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंह 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंह 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नीजयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ोम्बई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी</p>

					ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग्ग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (98//18/2)
170	98//22/1	निजी	कृषि	0.0202	अमर सिंह छतर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम हर दो समभाग 1/3 भाग करतार सिंह श्रीमती अनुराधा पत्नी जसवीर सिंह पुत्र जीत सिंह 1/4 भाग कुलदीप सिंह महेश सिंह पुत्र रतिपाल सिंह पुत्र रामलाल सिंह हर दो समभाग 1/6 भाग वासिदेह (98//22/1)
171	98//22/2	निजी	कृषि	0.0177	चंपा विधवा व रामसिंह अजीत सिंह पुत्र व चितरबाई पत्नी प्रभु पुत्र रामलाल हर 5 संभाग 175/1469 भाग करतार सिंह पुत्र प्रभु पुत्र रामलाल 231/11756 भाग श्रीमती सुमन पत्नी सुरेश चाँद पुत्र श्रीचंद उर्फ चंदरभान 67/5878 भाग मेघ सिंह पुत्र प्रभु पुत्र रामलाल 29/2938 भाग ओमप्रकाश पुत्र भगत सिंह पुत्र शहजाद सिंह 265/2938 भाग रतन बाई, गिंदौड़ी पत्नी भवर सिंह पुत्र शहजाद हर दो संभाग 41/2938 भाग रामश्वरूप, अमर, शान मंगेज पुत्र व किरानी मूर्ति पत्नी सरस्वती पत्नी शहजाद हर 6 संभाग 11/226 भाग अनिल पुत्र व शिला पत्नी रतिपाल पुत्र कालू सिंह हर दो सब भाग 122/1469 भाग राजबाई विधवा रतिपाल सिंह पुत्र कालू सिंह 57/2938 भाग विजय सिंह पुत्र मेघ सिंह पुत्र राज सिंह 17/2938 भाग हनुमान सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र राज

					<p>सिंह 9/2938 भाग उडाय सिंह दत्तक पुत्र महिपाल सिंह पुत्र भूरा सिंह 9/2938 भाग मुंशी सिंह पुत्र व शेरनी पूत्री शहजाद हर दो संभाग 21/2938 भाग रामपाल पुत्र मंगलराम पुत्र फूसाराम 63/5876 भाग बोबड़ी पत्नी हरलाल पुत्र सीताराम 307/2938 भाग रामकुमार कवर सिंह कारण सिंह पुत्र श्रीचंद्र पुत्र किशनसहाय हर तीन संभाग 66/1469 श्रीमती कमलेश देवी पत्नी ओमपाल सिंह पुत्र सूरजभान सिंह 122/1469 भाग भाग रामपाल पुत्र व श्रीमती उर्मिला विमला पूत्री किरण पूत्री मंगतू हर चार संभाग 142/4345 भागसमत. पूजा पूत्री भानु उर्फ बहन सिंह 41/10283 भाग अनिल कुमार, सुनील कुमार रविंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती सविता पूत्री महावीर सिंह पुत्र रामनारायण सिंह हर चार संभाग 10/1469 भाग ओकर सिंह पुत्र मातु सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 37/1469 भाग श्रीमती लता देवी पत्नी सुन्दर सिंह पुत्र हरनाम 10/1469 भाग श्रीमती मोनिका पत्नी विजय कुमार पुत्र विनय कुमार 17/1469 भाग श्रीमती प्रेमलता पत्नी वेदप्रकाश पुत्र शुभ्रं 71/2938 भाग वासी पाएगा पिस्ता देवी पत्नी रोहताश पुत्र गणपत 659/11752 भाग नाथू पुत्र व गीता सुनीता पूत्री रोहताश पुत्र गणपत हर तीन संभाग 537/11752 भाग सुभाषसिंघ राजकुमार जगपाल सिंह, राकेश सिंह पुत्र व सविता देवी विधवा हरिसिंह पुत्र कल्लूसिंघ हर 6 संभाग 301/2938 भाग भांति देवी माता वेदपाल पुत्र मंगल 63/5876 भाग जीतेन्द्र सिंह जोगेंद्र सिंह जसमेर सिंह जगमोहन सिंह पुत्र व सुरेश देवी पूत्री व चंद्रावती विधवा जगमाल सिंह पुत्र जयराम हर 6 संभाग 35/2938 भागसमत. विमला देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र जगमाल सिंह 71/7345 भाग (98/22/2)</p>
172	98//23/1	निजी	कृषि	0.301	<p>राजपाल सिंह दत्तक पुत्र मदु पुत्र शहजाद 4107/9782 भाग जयनारायण पुत्र मातु सिंह पुत्र रामरतन 187/9782 भाग मदन</p>

				<p>सिंह जगपाल सिंह ओमप्रकाश तेजपाल सिंह पुत्र सगण सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 38/4891 भाग कृष्ण सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेरसिंघ 130/4891 भाग सोनबाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 181/9782 भाग नत्थू सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र शेरसिंघ 306/4891 भाग नर सिंह पुत्र व जीवा देवी विधवा मकतूल सिंह पुत्र हर दो समभाग 203/4891 भाग राजेश पुत्र जयनारायण पुत्र मातुसिंघ 189/9782 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नीजयपाल सिंह 20/4891 भाग सीताराम स/ओमकातुल सिंह पुत्र शर सिंह 92/4891 भाग मुंशी सिंह पुत्र मकतूल सिंह पुत्र 100/4891 भाग ताराबाई ोम्बई भगवन्ती पुत्री जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह हर तीन समभाग 124207/5321408 भाग जयपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र हर दो समभाग 466577/7982112 भाग हरिओम सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र शेर सिंह 402929/15964224 भाग ओमपाल सिंह पुत्र तोता सिंह पुत्र भोलू सिंह 33665/1995528 भाग श्रीमती बिना देवी पत्नी ओमपाल पुत्र तोता सिंह 5/1224 भाग श्रीमती सुनीता पत्नी ओमवीर सिंह पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग श्रीमती सुमित्रा पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण 40/4891 भाग बाबू सिंह पुत्र जय चाँद पुत्र शेर सिंह 43/2127/2993292 भाग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/306 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निर्माण श्रीमती आशा देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल 25/5986584 भाग श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 5/408 भग वासिदेह रणवीर पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवी सिंह 5/408 भाग वासी कोलीला सांग तेह.निरमना श्रीमती निशा देवी पत्नी लेखराज सिंह पुत्र जयपाल 71117/5986584 भाग वासिदेह (98//23/1)</p>
--	--	--	--	--

173	98//23/2	निजी	कृषि	0.0936	<p>श्योबाई रतनी बाई सुरजी बाई पुत्री मालदू सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह हर तीन समभाग 1/30 भाग ओकर सिंह पुत्र मालदू सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 23/60 भाग रतिपाल सिंह पुत्र मालदू सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 1/20 भाग अजय कुमार पवन कुमार पुत्र व शकुंतला निशा पुत्री व संतरा देवी विधवा जयकरन सिंह पुत्र मालदू सिंह हर पांच समभाग 1/20 भाग वगम बाई पुत्री माधो सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 1/15 भाग अंतर सिंह पूर्ण सिंह गिरवर सिंह पुत्र रामनारायण पुत्र मुला हर तीन समभाग 17/100 भाग किरण शारदा पुत्र व सुगम विधवा रामनारायण पुत्र मुल्ला हर तीन समभाग 13/1209 भाग छतरबाई पुत्री मुला पुत्र शेर सिंह 1/20 भाग गणपत जय सिंह पुत्र व शांति पुत्री भावरबाई पुत्री मालदू सिंह हर तीन समभाग 1/200 भाग छतरपाल सिंह हरनाम सिंह पुत्र प्रह्लादसिंह 1/45 भाग मनोज कुमार मंजीत सिंह पुत्र छत्रपाल पुत्र हरनाम हर दो समभाग 1/300 भाग रामोतार सिंह सुन्दर सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह हर दो समभाग 13/225 भाग वासिदेह (98//23/2)</p>
174	98//24/1	निजी	कृषि	0.0152	<p>श्योबाई रतनी बाई सुरजी बाई पुत्री मालदू सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह हर तीन समभाग 1/30 भाग ओकर सिंह पुत्र मालदू सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 23/60 भाग रतिपाल सिंह पुत्र मालदू सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 1/20 भाग अजय कुमार पवन कुमार पुत्र व शकुंतला निशा पुत्री व संतरा देवी विधवा जयकरन सिंह पुत्र मालदू सिंह हर पांच समभाग 1/20 भाग वगम बाई पुत्री माधो सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह 1/15 भाग अंतर सिंह पूर्ण सिंह गिरवर सिंह पुत्र रामनारायण पुत्र मुला हर तीन समभाग 17/100 भाग किरण शारदा पुत्र व सुगम विधवा रामनारायण पुत्र मुल्ला हर तीन समभाग 13/1209 भाग छतरबाई पुत्री मुला पुत्र शेर सिंह 1/20 भाग गणपत जय सिंह पुत्र व शांति पुत्री भावरबाई पुत्री</p>

					मालदू सिंह हर तीन समभाग 1/200 भाग छतरपाल सिंह हरनाम सिंह पुत्र प्रह्लादसिंह 1/45 भाग मनोज कुमार मंजीत सिंह पुत्र छत्रपाल पुत्र हरनाम हर दो समभाग 1/300 भाग रामोतार सिंह सुन्दर सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह हर दो समभाग 13/225 भाग वासिदेह (98//24/1)
175	98//3/1	निजी	कृषि	0.0025	मनफूल सिंह पुत्र मातु सिंह पुत्र सेवा सिंह वासिदेह (98//3/1)
176	98//7/1	निजी	कृषि	0.0582	धूम सिंह उडाय सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह हर दो समभाग 387/1195 भाग राजेश कुमार राकेश कुमार पुत्र रिद्धपाल सिंह हर दो समभाग 387/2390 भाग ोम्बई पुत्री व ओमप्रकाश पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह हर दो समभाग 68/1195 भाग अंतर देवी विधवा धर्म सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह 166/1195 भाग सूवे सिंह कमल सिंह मदन सिंह सुरेश पुत्र धर्मपाल सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह हर चार समभाग 11/478 भाग आजाद देवी पत्नी व विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश रिद्धपाल हर दो समभाग 319/2390 भाग हेम सिंह खेम सिंह पुत्र व श्रीमती कृष्णा विनोद पुत्री भंवर सिंह पुत्र रिद्धपाल हर चार समभाग 774/5975 भाग फटे सिंह राम सिंह सन्तु सिंह इमारत सिंह पुत्र व एकता पुत्री व श्रीमती विनेश देवी विधवा जय सिंह पुत्र भंवर सिंह हर 6 सम्भाग 387/11950 भाग वासदेह (98//7/1)
177	98//7/2	निजी	कृषि	0.2453	भगवानी विधवा मनफूल रामजीलाल 42/2099 भाग रामोतार वेदप्रकाश पुत्र मनफूल पुत्र रामजीलाल हर तीन समभाग 42/2099 भाग लाली प्रेमबाई पुत्री मनफूल रामजीएलएल हर दो समभाग 42/2099 भाग मेवा विधवा व अशोक पुत्र गुजारी लाल पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 15/2099 भाग हंसराज राधेश्याम पुत्र व विमला पापु, उर्मिला

					<p>निर्मला पुत्री गुलजारी पुत्र रामजीलाल हर 6 समभाग 112/2099 भाग मनीराम पुत्र रामजीलाल पुत्र गनेशी 127/2099 भाग अमर सिंह पुत्र रामलाल पुत्र जयराम 28/2099 भाग रमेश सिंह अजय सिंह विजय सिंह प्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र रामलाल हर चार समभाग 110/2099 भाग कमला गुणवंती बाला राजेश शारदा पुत्री जगदीश पुत्र रामजीलाल हर पांच समभाग 215/4198 भाग विजय पुत्र शिवचरण पुत्र रामजीएलएल 12/2099 भाग श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी हंसराज पुत्र गुलजारीलाल पुत्र 298/2099 भाग देवदत्त पुत्र बनवारीलाल पुत्र रामजीलाल 4/2099 भाग मनोज ईश्वर पुत्र रविदत्त पुत्र बनवारी हर दो समभाग 4/2099 भाग दीपांशु पुत्र रविकुमार पुत्र रतन सिंह 120/2099 भाग निर्मला देवी पत्नी सुशिल कुमार पुत्र हरद्वारीलाल 68/2099 भाग बलराम नरेश मनीष पुत्र व सरोज पुत्री व कौशल्या विधवा व मूरति देवी माता बाबूलाल पुत्र जगदीश हर 6 समभाग 43/4198 भाग कृष्ण देवेन्द्र पुत्र व मुन्नी रमेश ोम्बई सुमन पुत्री व संतरा विधवा मुंशीराम पुत्र रामजीलाल हर सात समभाग 127/2099 भाग श्रीमती भगवानी देवी पत्नी मनफूल 226/10495 भाग देवदत्त पुत्र बनवासीलाल 226/10495 भाग श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी जगदीश शर्मा 226/10495 भाग मुंशीराम मनीराम शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा हर दो समभाग 452/10495 भाग रामौतार कृष्णशर्मा पुत्र व प्रेमलता कृष्ण पुत्री व चंपा देवी विधवा सूरजभान पुत्र अमीचंद हर पांच समभाग 525/2099 भाग वासिदेह (98//7/2)</p>
178	98//8/1	निजी	कृषि	0.0632	<p>हनुमान प्रसाद पुत्र तिलोकराम पुत्र मोहन 1/2 भाग कशी देवी मुन्नीदेवी पुत्री तिलोकराम हर दो समभाग 1/2 भाग वासिदेह (98//8/1)</p>

179	98//8/2	निजी	कृषि	0.0885	कृष्णपाल सिंह पुत्र फूल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह 5/24 भाग कदम पुत्री रामस्वरूप पुत्र खडग सिंह 1/24 भाग मलखान सिंह पुत्र व कमली असरफी शरबती पुत्री व बर्फी विधवा रामजीलाल पुत्र उजल सिंह हर पांच समभाग 1/4 भाग फूल सिंह अमर सिंह श्रीराम पुत्र व भोली संतरा सोहनबाई पुत्री बख्तावर सिंह पुत्र उजल सिंह हर 6 समभाग 1/4 भाग 1/4 भाग सावत्री विधवा व मुकेश सिंह उर्फ बबलू पुत्र मनफूल सिंह पुत्र प्रभु सिंह हर दो समभाग 1/8 भाग बचन सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र उजल सिंह 1/8 भाग वासिदेह (98//8/2)
180	98/3/2	निजी	कृषि	0.0531	हनुमान प्रसाद पुत्र तिलोकराम पुत्र मोहन 1/2 भाग कशी देवी मुन्नीदेवी पुत्री तिलोकराम हर दो समभाग 1/2 भाग वासिदेह (98//3/2)
181	98/4	निजी	कृषि	0.3718	धूम सिंह उडाय सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह हर दो समभाग 387/1195 भाग राजेश कुमार राकेश कुमार पुत्र रिद्धपाल सिंह हर दो समभाग 387/2390 भाग ोम्बई पुत्री व ओमप्रकाश पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह हर दो समभाग 68/1195 भाग अंतर देवी विधवा धर्म सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह 166/1195 भाग सूबे सिंह कमल सिंह मदन सिंह सुरेश पुत्र धर्मपाल सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह हर चार समभाग 11/478 भाग आजाद देवी पत्नी व विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश रिद्धपाल हर दो समभाग 319/2390 भाग हेम सिंह खेम सिंह पुत्र व श्रीमती कृष्णा विनोद पुत्री भंवर सिंह पुत्र रिद्धपाल हर चार समभाग 774/5975 भाग फटे सिंह राम सिंह सन्तु सिंह इमारत सिंह पुत्र व एकता पुत्री व श्रीमती विनेश देवी विधवा जय सिंह पुत्र भंवर सिंह हर 6 सम्भाग 387/11950 भाग वासिदेह (98//4)
182	98/5	निजी	कृषि	0.0101	धूम सिंह उडाय सिंह पुत्र रिद्धपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह हर दो समभाग

					387/1195 भाग राजेश कुमार राकेश कुमार पुत्र रिछपाल सिंह हर दो समभाग 387/2390 भाग ोम्बई पुत्री व ओमप्रकाश पुत्र रिछपाल सिंह पुत्र इन्दर सिंह हर दो समभाग 68/1195 भाग अंतर देवी विधवा धर्म सिंह पुत्र रिछपाल सिंह 166/1195 भाग सूबे सिंह कमल सिंह मदन सिंह सुरेश पुत्र धर्मपाल सिंह पुत्र रिछपाल सिंह हर चार समभाग 11/478 भाग आजाद देवी पत्नी व विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश रिछपाल हर दो समभाग 319/2390 भाग हेम सिंह खेम सिंह पुत्र व श्रीमती कृष्णा विनोद पुत्री भंवर सिंह पुत्र रिछपाल हर चार समभाग 774/5975 भाग फटे सिंह राम सिंह सन्तु सिंह इमारत सिंह पुत्र व एकता पुत्री व श्रीमती विनेश देवी विधवा जय सिंह पुत्र भंवर सिंह हर 6 सम्भाग 387/11950 भाग वासदेह (98//5)
तालुक का नाम: महेन्द्रगढ़					
गांव का नाम: बुंचावास					
1	105//13/1	निजी	कृषि	0.0354	चाँद सिंह अभय सिंह जगदीश पुत्र हेतराम हर दो समभाग 2/3 वासिदेह सचिन साहिल पुत्र विजय सिंह पुत्र जगदीश हर दो समभाग 1/3 भाग वासी अकबरपुर नांगल (105//13/1)
2	105//13/3	निजी	कृषि	0.2681	रामानंद पुत्र नर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3 भाग वासी अकबर नांगल संतोष पुत्री व चमेली विधवा मनीराम पुत्र नरसिंह हर दो समभाग 1/3 भाग वासिदेह सुभे सिंह पुत्र बलवंत पुत्र नर सिंह 1/3 भाग वासी अकबरपुर नांगल (105//13/3)
3	105//17	निजी	कृषि	0.0177	रामानंद पुत्र नरसिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/9 भाग सावंत सिंह रोशनलाल पुत्र भूप सिंह पुत्र पुराण हर दो समभाग 2/9 भाग चाँद सिंह अभय सिंह पुत्र जगदीश पुत्र हेतराम हर दो समभाग 1/9 भाग सचिन साहिल पुत्र विजय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हर दो 1/18 भाग बलवंत सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र पुराण सिंह 1/9 भाग वासिदेह सुभे सिंह

					पुत्र बलवंत पुत्र नर सिंह 1/9 भाग वासी अकबरपुर नांगल मनीष कुमार दीपेश कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र दुलीचंद हर दो समभाग 1/9 भाग हज़ारीलाल पुत्र हेतराम पुत्र पुराण सिंह 1/24 भाग श्रीभगवान जिले सिंह उमेद सिंह पुत्र हज़ारीलाल पुत्र हेतराम हर तीन समभाग 1/8 भाग वासिदेह (105//17)
4	105//18/1	निजी	कृषि	0.0885	रामानंद पुत्र नर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3 भाग वासी अकबर नांगल संतोष पुत्री व चमेली विधवा मनीराम पुत्र नरसिंह हर दो समभाग 1/3 भाग वासिदेह सुभे सिंह पुत्र बलवंत पुत्र नर सिंह 1/3 भाग वासी अकबरपुर नांगल (105//18/1)
5	105//18/2	निजी	कृषि	0.043	रामानंद पुत्र नर सिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/3 भाग वासी अकबर नांगल संतोष पुत्री व चमेली विधवा मनीराम पुत्र नरसिंह हर दो समभाग 1/3 भाग वासिदेह सुभे सिंह पुत्र बलवंत पुत्र नर सिंह 1/3 भाग वासी अकबरपुर नांगल (105//18/2)
6	105//19/1	निजी	कृषि	0.0025	रेशम देवी पत्नी रविदत्ते पुत्र भूपराम वासिदेह (105//19/1)
7	105//3	निजी	कृषि	0.0076	राजेश पुत्र नित्यक्रम पुत्र गनेशी 13/295 भाग जयदयाल पुत्र नित्यानन्दे पुत्र गनेशी 1/15 भाग अतर सिंह पुत्र नित्यानन्दे पुत्र गनेशी 1283/7080 भाग सौरभ मैं पुत्र जयदयाल सिंह पुत्र नित्यानन्दे है दो समभाग 811/7080 भाग सुरेंद्र सिंह राकेश रमेश कुमार पुत्र सुलतान सिंह पुत्र गनेशी हर तीन समभाग 7/12 भाग महण्डरे सिंह पुत्र छतरपाल पुत्र नित्यक्रम 3/295 भाग वासिदेह (105//3)
8	105//4	निजी	कृषि	0.3895	बलबीर सिंह विजयपाल पुत्र चन्दर पुत्र रामनारायण हर दो समभाग 1/2 भाग मनोज कुमार सुनील कुमार पुत्र व रामदेवी विधवा रामानंद पुत्र चन्दर सिंह पुत्र रामनारायण हर तीन समभाग 1/4 भाग

					श्रीमती आशाबाई पुत्री व लाली विधवा शेर सिंह पुत्र चन्दर सिंह हर दो समभाग 1/4 भाग वासिदेह (105//4)
9	105//5	निजी	कृषि	0.0354	रोशनलाल पुत्र भूप सिंह पुत्र पूर्ण 1/9 भाग सुबेसिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र नरसिंह 11/48 भाग रामानंद पुत्र नरसिंह पुत्र 5/48 भाग चंदसिंह अभय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हेतराम हर दो समभाग 1/9 सचिन साहिल पुत्र विजय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हर दो समभाग 1/18 भाग मनीष कुमार दीपेश कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र दुलीचंद हर दो समभाग 1/9 भाग सावत सिंह पुत्र भूप सिंह पुत्र पूर्ण 29/666 भाग वासिदेह मुकेश कुमार पुत्र सावत सिंह पुत्र भूप सिंह 5/74 भाग वासी अकबरपुर नांगल हज़ारीलाल पुत्र हेतराम पुत्र पुराण 1/24 भाग श्रीभगवान जिलेसिंह उमेद सिंह पुत्र हज़ारीलाल पुत्र हेतराम हर तीन समभाग 1/8 भाग वासिदेह (105//5)
10	105//7/1	निजी	कृषि	0.2023	बलबीर सिंह विजयपाल पुत्र चन्दर पुत्र रामनारायण हर दो समभाग 1/2 भाग मनोज कुमार सुनील कुमार पुत्र व रामदेवी विधवा रामानंद पुत्र चन्दर सिंह पुत्र रामनारायण हर तीन समभाग 1/4 भाग श्रीमती आशाबाई पुत्री व लाली विधवा शेर सिंह पुत्र चन्दर सिंह हर दो समभाग 1/4 भाग वासिदेह (105//7/1)
11	105//7/2	निजी	कृषि	0.129	रामानंद पुत्र नरसिंह पुत्र पूर्ण सिंह 1/9 भाग सावंत सिंह रोशनलाल पुत्र भूप सिंह पुत्र पुराण हर दो समभाग 2/9 भाग चाँद सिंह अभय सिंह पुत्र जगदीश पुत्र हेतराम हर दो समभाग 1/9 भाग सचिन साहिल पुत्र विजय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हर दो 1/18 भाग बलवंत सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र पुराण सिंह 1/9 भाग वासिदेह सुभे सिंह पुत्र बलवंत पुत्र नर सिंह 1/9 भाग वासी अकबरपुर नांगल मनीष कुमार दीपेश कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र दुलीचंद हर दो समभाग 1/9 भाग हज़ारीलाल पुत्र हेतराम

					पुत्र पुराण सिंह 1/24 भाग श्रीभगवान जिले सिंह उमेद सिंह पुत्र हज़ारीलाल पुत्र हेतराम हर तीन समभाग 1/8 भाग वासिदेह (105//7/2)
12	15//13	निजी	कृषि	0.3288	जगदीश सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह 250/2247 भाग विधवा रगबीर पुत्र कान्हा २20/749 भाग विजय सिंह , रतन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गोम सिंह हर दो समभाग 229/749 भाग श्याम सिंह पुत्र वसुनीताबाई पुत्री रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभाग 20/247 भाग वासिदेह महाबीर सिंह पुत्र श्योलाल पुत्र बलदेव 160/749 भाग वासी गुढा हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभाग 20/2247 भाग संतोष देवी महाबीर सिंह पुत्र श्योलाल 160/749 भाग पवन रविकुमार पुत्र वकांताबाई पुत्री मन सिंह पुत्र रघबीर सिंह हर तीन समभाग 250/2247 भाग वासिदेह (15//13)
13	15//14/1	निजी	कृषि	0.0936	जगदीश सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह 250/2247 भाग विधवा रगबीर पुत्र कान्हा २20/749 भाग विजय सिंह , रतन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गोम सिंह हर दो समभाग 229/749 भाग श्याम सिंह पुत्र वसुनीताबाई पुत्री रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभाग 20/247 भाग वासिदेह महाबीर सिंह पुत्र श्योलाल पुत्र बलदेव 160/749 भाग वासी गुढा हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभाग 20/2247 भाग संतोष देवी महाबीर सिंह पुत्र श्योलाल 160/749 भाग पवन रविकुमार पुत्र वकांताबाई पुत्री मन सिंह पुत्र रघबीर सिंह हर तीन समभाग 250/2247 भाग वासिदेह (15//14/1)
14	15//14/2	निजी	कृषि	0.0051	श्याम सिंह जगदीश सिंह हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र वशकुंतलाबाई सरोजबाई सुनीताबाई पुत्री वधर्म देवी विधवा रगबीर

					सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर आठ समभाग रहन हिंसा 8/9 भाग पवन रविकुमार पुत्र वकांताबाई पुत्री मान सिंह पुत्र रगबीर सिंह हर तीन समभाग रहन हिंसा 1/9 भाग वासिदेह जयनारायण पुत्र जवाहर पुत्र महरम वासी सीगड़ा मुरथन (15//14/2)
15	15//17	निजी	कृषि	0.0126	कुलदीप सिंह रविंद्र सिंह जीतेन्द्र सिंह पुत्र वसंतोष देवी पत्नी धर्मबीर पुत्र चेताराम हर चार समभाग १६/३९ भाग , वाशिदेह , श्रीमती लता यादव पत्नी चालुरविंद्र यादव पुत्र धर्मबीर सिंह यादव 16/39 बहग वाशी नारनौल , श्रीमती जीनत यादव पत्नी जीतेन्द्र सिंह पुत्र धर्मबीर सिंह यादव 31/312 भाग वाशी दादरी रोड महेन्द्रगढ़ , धर्मबीर पुत्र चेताराम पुत्र तुण्ड 61/156 भाग वाशी महेन्द्रगढ़. (15//17)
16	15//18	निजी	कृषि	0.392	महाबीर पुत्र श्योलाल पुत्र बलदेव वाशी गुरा. (15//18)
17	15//19/1	निजी	कृषि	0.0025	महाबीर पुत्र श्योलाल पुत्र बलदेव वाशी गुरा. (15//19/1)
18	15//19/2	निजी	कृषि	0.0025	रामभगत पुत्र -महिपाल सिंह पुत्र कान्हा 26/2229 भाग सोरांबाई शिकोरवारबाई भगोतीबाई पुत्री महिपाल सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर पांच समभाग 269/4458 भाग मन सिंह श्यामसिंह जगदीश सिंह हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र व शकुंतलाबाई सरोजबाई सुनितबै पुत्री व धर्मदेवी विधवा रगबीर सिंह पुत्र कान्हा हर नौ समभाग 1115/4458 भाग बहादर सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह पुत्र रामनाथ 8/743 भाग गुमान सिंह अमर सिंह पुत्र हरधन सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभाग 1/6 भाग बाघसिंह पुत्र हरधन सिंह पुत्र कान्हा 75/743 भाग सुगन सिंह सुन्दर सिंह सतीश सिंह ओमकार पुत्र हरदेव सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 285/1486 भाग वासिदेह स्वामी श्री ज्योतिगिरि महाराज चेला श्री महंत परमेश्वरगिरि

				<p>चेला श्री महंत नरबदगिरि 37/4458 भाग वासी प्राचनी हनुमान मंदिर भड़ोकला श्रीमती सहरवां देवी पत्नी श्रीराम पुत्र सूरजभान 20/2229 भाग वासी पढेड़ा जै सिंह बिजेन्दर सिंह रविंदर सिंह पुत्र रामावतार पुत्र हरदेवा हर तीन समभाग 37/743 भाग राजेंदर सिंह पुत्र माघ सिंह पुत्र महिपाल सिंह 89/11145 भाग मुन्नी पुत्री व शकुंतला देवी विधवा मेघ सिंह पुत्र महिपाल हर दो समभाग 26/3715 भाग दिनेश पुत्र व संजू सीमा पुत्री कृष्ण कुमार पुत्र महिपाल सिंह हर तीन समभाग 169/4458 भाग रविंदर सिंह पुत्र मेघ सिंह पुत्र महिपाल सिंह 89/11145 भाग वासिदेह योगेश कुमार पुत्र महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 20/743 भाग वासी गुढा ता. कनीना शर्मीला पत्नी योगेश पुत्र महावीर सिंह 40/2229 भाग वासिदेह (15//19/2)</p>	
19	15//22	निजी	कृषि	0.0556	<p>रामभगत पुत्र -महिपाल सिंह पुत्र कान्हा 26/2229 भाग सोरांवाई शिकोरवारवाई भगोतीवाई पुत्री महिपाल सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर पांच समभाग 269/4458 भाग मन सिंह श्यामसिंह जगदीश सिंह हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र व शकुंतलावाई सरोजवाई सुनितवै पुत्री व धर्मदेवी विधवा रगवीर सिंह पुत्र कान्हा हर नौ समभाग 1115/4458 भाग बहादर सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह पुत्र रामनाथ 8/743 भाग गुमान सिंह अमर सिंह पुत्र हरधन सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभाग 1/6 भाग बाघसिंह पुत्र हरधन सिंह पुत्र कान्हा 75/743 भाग सुगन सिंह सुन्दर सिंह सतीश सिंह ओमकार पुत्र हरदेव सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 285/1486 भाग वासिदेह स्वामी श्री ज्योतिगिरि महाराज चेला श्री महंत परमेश्वरगिरि चेला श्री महंत नरबदगिरि 37/4458 भाग वासी प्राचनी हनुमान मंदिर भड़ोकला श्रीमती सहरवां देवी पत्नी श्रीराम पुत्र सूरजभान 20/2229 भाग वासी पढेड़ा जै सिंह बिजेन्दर सिंह रविंदर सिंह पुत्र रामावतार पुत्र हरदेवा हर तीन समभाग</p>

					37/743 भाग राजेंदर सिंह पुत्र माघ सिंह पुत्र महिपाल सिंह 89/11145 भाग मुन्नी पुत्री व शकुंतला देवी विधवा मेघ सिंह पुत्र महिपाल हर दो समभाग 26/3715 भाग दिनेश पुत्र व संजू सीमा पुत्री कृष्ण कुमार पुत्र महिपाल सिंह हर तीन समभाग 169/4458 भाग रविंदर सिंह पुत्र मेघ सिंह पुत्र महिपाल सिंह 89/11145 भाग वासिदेह योगेश कुमार पुत्र महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 20/743 भाग वासी गुढा ता. कनीना शर्मीला पत्नी योगेश पुत्र महावीर सिंह 40/2229 भाग वासिदेह (15/22)
20	15/7	निजी	कृषि	0.0809	जगदीश सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह 250/2247 भाग विधवा रगबीर पुत्र कान्हा २20/749 भाग विजय सिंह , रतन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गोम सिंह हर दो समभग 229/749 भाग श्याम सिंह पुत्र वसुनीताबाई पुत्री रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभग 20/247 भाग वासिदेह महावीर सिंह पुत्र श्योलाल पुत्र बलदेव 160/749 भाग वासी गुढा हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभग 20/2247 भाग संतोष देवी महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 160/749 भाग पवन रविकुमार पुत्र वकांताबाई पुत्री मन सिंह पुत्र रघबीर सिंह हर तीन समभग 250/2247 भाग वासिदेह (15/7)
21	15/8	निजी	कृषि	0.1568	जगदीश सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह 250/2247 भाग विधवा रगबीर पुत्र कान्हा २20/749 भाग विजय सिंह , रतन सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गोम सिंह हर दो समभग 229/749 भाग श्याम सिंह पुत्र वसुनीताबाई पुत्री रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभग 20/247 भाग वासिदेह महावीर सिंह पुत्र श्योलाल पुत्र बलदेव 160/749 भाग वासी गुढा हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र रगबीर सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभग 20/2247 भाग संतोष देवी महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 160/749 भाग पवन रविकुमार पुत्र

					वकांताबाई पुत्री मन सिंह पुत्र रघवीर सिंह हर तीन समभाग 250/2247 भाग वासिदेह (15//8)
22	24//12	निजी	कृषि	0.2479	बहादर सिंह पुत्र रामचंरा सिंह पुत्र रामनाथ सिंह 1/7 भाग मान सिंह पुत्र देशराज सिंह पुत्र बहाल सिंह 349/1141 भाग वासिदेह श्रीमती संतोष देवी पत्नी महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 20/163 भाग वासी गुढा ता. कनीना धर्मपाल पुत्र किसान सिंह पुत्र भीवा 3/7 भाग वासिदेह (24//12)
23	24//13	निजी	कृषि	0.1821	बहादर सिंह, शेर सिंह सुनान्द्र सिंह जेमलाल सिंह पुत्र रामचंद पुत्र रामनाथ हर चार समभाग वासिदेह (24//13)
24	24//18	निजी	कृषि	0.1163	बहादर सिंह, शेर सिंह सुनान्द्र सिंह जेमलाल सिंह पुत्र रामचंद पुत्र रामनाथ हर चार समभाग वासिदेह (24//18)
25	24//19	निजी	कृषि	0.3136	बहादर सिंह, शेर सिंह सुनान्द्र सिंह जेमलाल सिंह पुत्र रामचंद पुत्र रामनाथ हर चार समभाग वासिदेह (24//19)
26	24//2	निजी	कृषि	0.1214	रामभगत पुत्र -महिपाल सिंह पुत्र कान्हा 26/2229 भाग सोरांबाई शिकोरवारबाई भगोतीबाई पुत्री महिपाल सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर पांच समभाग 269/4458 भाग मन सिंह श्यामसिंह जगदीश सिंह हुकुम सिंह अनूप सिंह पुत्र व शकुंतलाबाई सरोजबाई सुनितबे पुत्री व धर्मदेवी विधवा रगवीर सिंह पुत्र कान्हा हर नौ समभाग 1115/4458 भाग बहादर सिंह पुत्र रामचंदर सिंह पुत्र रामनाथ 8/743 भाग गुमान सिंह अमर सिंह पुत्र हरधन सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर दो समभाग 1/6 भाग बाघसिंह पुत्र हरधन सिंह पुत्र कान्हा 75/743 भाग सुगन सिंह सुन्दर सिंह सतीश सिंह ओमकार पुत्र हरदेव सिंह पुत्र कान्हा सिंह हर चार समभाग 285/1486 भाग वासिदेह स्वामी श्री ज्योतिगिरि महाराज चेला श्री महंत परमेश्वरगिरि

					चेला श्री महंत नरबदगिरि 37/4458 भाग वासी प्राचनी हनुमान मंदिर भड़ोकला श्रीमती सहरवां देवी पत्नी श्रीराम पुत्र सूरजभान 20/2229 भाग वासी पढेडा जै सिंह बिजेन्द्र सिंह रविंदर सिंह पुत्र रामावतार पुत्र हरदेवा हर तीन समभाग 37/743 भाग राजेंदर सिंह पुत्र माघ सिंह पुत्र महिपाल सिंह 89/11145 भाग मुन्नी पुत्री व शकुंतला देवी विधवा मेघ सिंह पुत्र महिपाल हर दो समभाग 26/3715 भाग दिनेश पुत्र व संजू सीमा पुत्री कृष्ण कुमार पुत्र महिपाल सिंह हर तीन समभाग 169/4458 भाग रविंदर सिंह पुत्र मेघ सिंह पुत्र महिपाल सिंह 89/11145 भाग वासिदेह योगेश कुमार पुत्र महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 20/743 भाग वासी गुढा ता. कनीना शर्मीला पत्नी योगेश पुत्र महावीर सिंह 40/2229 भाग वासिदेह (24/2)
27	24//21/2	निजी	कृषि	0.0025	पहलाद सिंह प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह पुत्र छाजू हर दो समभाग 71/240 भाग विजय सिंह पुत्र मोहर सिंह पुत्र छाजू 49/720 भाग अजित सिंह पुत्र भारत पुत्र दलीप सिंह 229/720 भाग वासिदेह दिनेश पुत्र भरतु पुत्र दलीपसिंह 229/720 भाग वासी बस कुशल गुडगाँव (24//21/2)
28	24//22/1	निजी	कृषि	0.0885	बहादर सिंह, शेर सिंह सुनान्द्र सिंह जेमलाल सिंह पुत्र रामचंद पुत्र रामनाथ हर चार समभाग वासिदेह (24//22/1)
29	24//22/2	निजी	कृषि	0.2909	पहलाद सिंह प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह पुत्र छाजू हर दो समभाग 71/240 भाग विजय सिंह पुत्र मोहर सिंह पुत्र छाजू 49/720 भाग अजित सिंह पुत्र भारत पुत्र दलीप सिंह 229/720 भाग वासिदेह दिनेश पुत्र भरतु पुत्र दलीपसिंह 229/720 भाग वासी बस कुशल गुडगाँव (24//22/2)
30	24//23	निजी	कृषि	0.0506	बहादर सिंह, शेर सिंह सुनान्द्र सिंह जेमलाल सिंह पुत्र रामचंद पुत्र रामनाथ हर चार समभाग वासिदेह

					(24//23)
31	24//3	निजी	कृषि	0.3086	महावीर पुत्र श्योलाल पुत्र बलदेव वाशी गुरा. (24//3)
32	24//8	निजी	कृषि	0.2428	बहादर सिंह पुत्र रामचंरा सिंह पुत्र रामनाथ सिंह 1/7 भाग मान सिंह पुत्र देशराज सिंह पुत्र बहाल सिंह 349/1141 भाग वासिदेह श्रीमती संतोष देवी पत्नी महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 20/163 भाग वासी गुढा ता. कनीना धर्मपाल पुत्र किसान सिंह पुत्र भीवा 3/7 भाग वासिदेह (24//8)
33	24//9/1	निजी	कृषि	0.05058	बहादर सिंह पुत्र रामचंरा सिंह पुत्र रामनाथ सिंह 1/7 भाग मान सिंह पुत्र देशराज सिंह पुत्र बहाल सिंह 349/1141 भाग वासिदेह श्रीमती संतोष देवी पत्नी महावीर सिंह पुत्र श्योलाल 20/163 भाग वासी गुढा ता. कनीना धर्मपाल पुत्र किसान सिंह पुत्र भीवा 3/7 भाग वासिदेह (24//9/1)
34	24//9/2	निजी	कृषि	0.1315	मानसिंह जगदीश सिंह हुकम सिंह अनूप सिंह पुत्र व सकुंतलाबाई सरोजबाई सुनीता बाई पुत्री व धर्मदेवी विधवा रगबीर सिंह पुत्र कान्हा हर नौ समभाग वासिदेह हिसेदारन बयान रामचंद्र पुत्र रामनाथसिंह पुत्र कान्हा सिंह वासिदेह (24//9/2)
35	33//1	निजी	कृषि	0.0405	करतार सिंह पुत्र राजपाल सिंह पुत्र सहजाद सिंह वासिदेह. (33//1)
36	33//10	निजी	कृषि	0.1062	मदन सिंह पुत्र मुंशी सिंह मांगू सिंह 1/2 भाग वासिदेह गीतानंद सुरेंद्र सिंह देवेंद्र कुमार पुत्र अमीलाल पुत्र बलबीर सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग वासी सिकोहार पुर जिला (33//10)
37	33//11	निजी	कृषि	0.172	कृष्णा सिंह पुत्र मुंशी सिंह पुत्र मांगू सिंह 1/2 भाग अजित सिंह पुत्र भरतु पुत्र दलीप सिंह 1/4 भाग वासिदेह दिनेश पुत्र भरतु पुत्र दलीप सिंह 1/4 भाग वासी बस कुशल गुडगाँव

					(33//11)
38	33//12	निजी	कृषि	0.258	कृष्णा सिंह पुत्र मुंशी सिंह पुत्र मांगू सिंह 1/2 भाग अजित सिंह पुत्र भरतु पुत्र दलीप सिंह 1/4 भाग वासिदेह दिनेश पुत्र भरतु पुत्र दलीप सिंह 1/4 भाग वासी बस कुशल गुडगाँव (33//12)
39	33//19	निजी	कृषि	0.1922	मदन सिंह इस्वर सिंह पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह हर दो समभाग 12/35 भाग राजसिंह पुत्र जगदीश पुत्र गंगू सिंह 1/7 भाग पूजवे पुत्री सात श्रीमती सकुंतला देवी विधवा भगवत सिंह पुत्र पापु सिंह हर तीन समभाग 6/35 सिंह पुत्र मुन्शी सिंह पुत्र गंगू सिंह 17/140 भाग धर्मपाल पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह 31/140 भाग वासिदे (33//19)
40	33//2	निजी	कृषि	0.3895	पहलाद सिंह प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह पुत्र छाजू हर दो समभाग 71/240 भाग विजय सिंह पुत्र मोहर सिंह पुत्र छाजू 49/720 भाग अजित सिंह पुत्र भारत पुत्र दलीप सिंह 229/720 भाग वासिदेह दिनेश पुत्र भरतु पुत्र दलीपसिंह 229/720 भाग वासी बस कुशल गुडगाँव (33//2)
41	33//20	निजी	कृषि	0.2327	मदन सिंह इस्वर सिंह पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह हर दो समभाग 12/35 भाग राजसिंह पुत्र जगदीश पुत्र गंगू सिंह 1/7 भाग पूजवे पुत्री सात श्रीमती सकुंतला देवी विधवा भगवत सिंह पुत्र पापु सिंह हर तीन समभाग 6/35 सिंह पुत्र मुन्शी सिंह पुत्र गंगू सिंह 17/140 भाग धर्मपाल पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह 31/140 भाग वासिदे (33//20)
42	33//21	निजी	कृषि	0.2985	मदन सिंह इस्वर सिंह पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह हर दो समभाग 12/35 भाग राजसिंह पुत्र जगदीश पुत्र गंगू सिंह 1/7 भाग पूजवे पुत्री सात श्रीमती सकुंतला देवी विधवा भगवत सिंह पुत्र पापु सिंह हर तीन समभाग 6/35 सिंह पुत्र मुन्शी सिंह पुत्र गंगू सिंह 17/140 भाग धर्मपाल पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह 31/140 भाग वासिदे (33//21)

43	33//22	निजी	कृषि	0.1315	मदन सिंह इस्वर सिंह पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह हर दो समभाग 12/35 भाग राजसिंह पुत्र जगदीश पुत्र गंगू सिंह 1/7 भाग पूजवे पुत्री सात श्रीमती सकुंतला देवी विधवा भगवत सिंह पुत्र पापु सिंह हर तीन समभाग 6/35 सिंह पुत्र मुन्शी सिंह पुत्र गंगू सिंह 17/140 भाग धर्मपाल पुत्र मुंशी सिंह पुत्र गंगू सिंह 31/140 भाग वासिदे (33//22)
44	33//3	निजी	कृषि	0.0025	चंद्रपाल छत्रपाल पुत्र महरम सिंह पुत्र शंकर हर दो समभाग 159/944 भाग गुगन सिंह विजय सिंह दिनेश सिंह पुत्र सुरेशभाई मंजूबाई बबलिबाई पुत्री व किरिनि विधवा सिंह पुत्र शंकर सिंह हर सात समभाग 119/472 भाग अजित पुत्र व सुमति पुत्री बानी सिंह पुत्र कान्हा हर दो समभाग 69/944 भाग मोहर सिंह तेजपाल सिंह चंद्रा सिंह कॅप्टन सिंह पुत्र व भवरदेवी पुत्र श्रवणदेवी पुत्र शंकर हर पांच समभाग 239/944 भाग धिजा सिंह लीला सिंह पवन सिंह पुत्र व सुमेरबाई मगन बाई बालाबाई लडकर सुनीताबाई पुत्री रतनबाई पुत्र शंकर हर नौ समभाग 239/944 भाग वासिदेह (33//3)
45	33//9	निजी	कृषि	0.3288	मदन सिंह पुत्र मुंशी सिंह मांगू सिंह 1/2 भाग वासिदेह गीतानंद सुरेंद्र सिंह देवेंद्र कुमार पुत्र अमीलाल पुत्र बलबीर सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग वासी सिकोहार पुर जिला (33//9)
46	41//16	निजी	कृषि	0.2099	धर्मबीर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र बिडद सिंह 1599/1679 भाग वासिदेह राकेश पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र मनबीर सिंह 80/1679 भाग वासी बस कुशल जी. गुडगाँव (41//16)
47	41//25	निजी	कृषि	0.2226	धर्मबीर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र बिडद सिंह 1599/1679 भाग वासिदेह राकेश पुत्र राजेंद्र सिंह पुत्र मनबीर सिंह 80/1679 भाग वासी बस कुशल जी. गुडगाँव (41//25)
48	41//6/1	निजी	कृषि	0.0304	मुरारीलाल पुत्र सयोलाल पुत्र बलदेव

					वासिदेह (41//6/1)
49	42//10/1	निजी	कृषि	0.2504	श्रीराम पुत्र सयोलाल पुत्र बलदेव वासिदेह. (42//10/1)
50	42//10/2	निजी	कृषि	0.03035	मुरारीलाल पुत्र सयोलाल पुत्र बलदेव वासिदेह (42//10/2)
51	42//11	निजी	कृषि	0.2808	राजन सिंह पुत्र हजारी पुत्र रामसहाय 1/2 भाग वासिदेह बिना देवी पत्नी संजीव कुमार पुत्र श्रीकिशन 1/2 भाग वासी महेन्दरगढ़ (42//11)
52	42//2/1	निजी	कृषि	0.0708	श्रीराम पुत्र सयोलाल पुत्र बलदेव वासिदेह. (42//2/1)
53	42//20/2	निजी	कृषि	0.2732	धर्मवीर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र बिड़द सिंह 1599/1679 भाग वासिदेह राकेश पुत्र राजेंदर सिंह पुत्र मनवीर सिंह 80/1679 भाग वासी बस कुशल जी. गुडगाँव (42//20/2)
54	42//21/1	निजी	कृषि	0.2074	धर्मवीर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र बिड़द सिंह 1599/1679 भाग वासिदेह राकेश पुत्र राजेंदर सिंह पुत्र मनवीर सिंह 80/1679 भाग वासी बस कुशल जी. गुडगाँव (42//21/1)
55	52//1	निजी	कृषि	0.129	श्रीकृष्ण राजेंदर ओमप्रकाश रविंदर कुमार पुत्र श्रीमती पिस्ता बाई , गेता बाई मेवा बाई शशीबाई पुत्री व श्रीमती बनारसी देवी विधवा भनीसहाई पुत्र जौहरमल हर नौ समभाग 79/499 भाग राजेंदरपारसद पुत्र जयनारायण पुत्र जोहरीमल 35/499 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बिजेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण 70/499 भाग नाथूराम नरेश कुमार पुत्र व पूनम पुत्री व सावित्री देवी विधवा जयरामदास पुत्र माधोपार्सद हर चार समभाग 35/998 भाग अनिल कुमार पुत्र व नीलम सरोज मनोज पुत्री जयरामदास पुत्र माधोपार्सद हर चार समभाग 1/998 भाग संदीप बंसल पुत्र घीसाराम पुत्र जयनारायण 277/499 भाग वासिदेह (52//1)

56	52//10	निजी	कृषि	0.0809	रामकुमार घीसाराम ओमप्रकाश राजेंद्र प्रशाद मदनलाल बिसम्बरदयाल पुत्र अंगरीबाई रामकालीबाई निर्मलाबाई पुत्री व विनिदेवी विधवा जयनारायण जोहरीमल हर ग्यहरा समभाग 11/12 भाग विक्री पुत्र व सुशीला देवी विधवा विजेंद्र कुमार पुत्र जयनारायण हर दो समभाग 1/12 भाग वासिदेह (52//10)
57	52//11	निजी	कृषि	0.0177	बलबीर सिंह विजयपाल पुत्र चन्दर पुत्र रामनारायण हर दो समभाग 1/2 भाग मनोज कुमार सुनील कुमार पुत्र व रामदेवी विधवा रामानंद पुत्र चन्दर सिंह पुत्र रामनारायण हर तीन समभाग 1/4 भाग श्रीमती आशाबाई पुत्री व लाली विधवा शेर सिंह पुत्र चन्दर सिंह हर दो समभाग 1/4 भाग वासिदेह (52//11)
58	53//14	निजी	कृषि	0.0126	लखिरमा पुत्र पत्रं पुत्र रुधाराम ३324/1295 भाग दौलतराम पुत्र प्रभातीलाल पुत्र पत्रं 9/2590 भाग रतिराम रामोतार राधेश्याम महेन्दर कुमार पुत्र हर चार समभाग 4/259 भाग सतीश कुमार नरेश कुमार पुत्र धर्मचंद पुत्र पत्रं हर दो समभाग 11/1295 भाग कमला देवी बिमला देवी सुमित्रा देवी पुत्री धरमचंद पुत्र पत्रं हर तीन समभाग 29/2590 भाग महावीर पुत्र तिरखराम पुत्र गंगा बिशन 219/2590 भाग सतबीर पुत्र सुभासचंद पुत्र मंडूराम 6/259 भाग सांद्र पुत्र दयाराम पुत्र सुभास चंद्र 6/259 भाग बिजेंद्र विक्रम सिंह पुत्र रंगराओ पुत्र सुभास चाँद हर दो समभाग 4/259 भाग रोहताश कुमार पुत्र नाराज पुत्र मामन 2/259 भाग जगदीश प्रशाद कैलाश चाँद रामकिशन विजय कुमार रविन्द्र कुमार सुमन कुमार अनिल कुमार सुभासचंद हरिकिशन पुत्र रामजीलाल पुत्र पत्रं हर नौ समभाग 713/2590 भाग बिसम्बर दयाल सतीश कुमार बालकिशन बाबूलाल प्रदीप कुमार पुत्र सोमवती पुत्र प्रभातीलाल पुत्र हर छ समभाग 39/1295 भाग प्रेमलता पुत्री प्रभातीलाल पुत्र पत्रं 13/2590 भाग

					वासिदेह विजयपाल पुत्र मलखान सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह 47/259 भाग वासिबस कुशल जी- गुडगाँव श्रीमती सलोचना पत्नी धर्मवीर पुत्र मोहर सिंह 11/259 भाग वासिदेह (53//14)
59	53//15	निजी	कृषि	0.3996	लखिरमा पुत्र पत्रं पुत्र रुधाराम ३३२४/१२९५ भाग दौलतराम पुत्र प्रभातीलाल पुत्र पत्रं ९/२५९० भाग रतिराम रामोतार राधेश्याम महेन्दर कुमार पुत्र हर चार समभाग ४/२५९ भाग सतीश कुमार नरेश कुमार पुत्र धर्मचंद पुत्र पत्रं हर दो समभाग ११/१२९५ भाग कमला देवी विमला देवी सुमित्रा देवी पुत्री धर्मचंद पुत्र पत्रं हर तीन समभाग २९/२५९० भाग महावीर पुत्र तिरखराम पुत्र गंगा बिशन २१९/२५९० भाग सतबीर पुत्र सुभासचंद पुत्र मंडूराम ६/२५९ भाग सांद्र पुत्र दयाराम पुत्र सुभास चंद्र ६/२५९ भाग विजेंद्र विक्रम सिंह पुत्र रंगराओ पुत्र सुभास चाँद हर दो समभाग ४/२५९ भाग रोहताश कुमार पुत्र नाराज पुत्र मामन २/२५९ भाग जगदीश प्रशाद कैलाश चाँद रामकिशन विजय कुमार रविन्द्र कुमार सुमन कुमार अनिल कुमार सुभासचंद हरिकिशन पुत्र रामजीलाल पुत्र पत्रं हर नौ समभाग ७१३/२५९० भाग बिसम्बर दयाल सतीश कुमार बालकिशन बाबूलाल प्रदीप कुमार पुत्र सोमबती पुत्र प्रभातीलाल पुत्र हर छ समभाग ३९/१२९५ भाग प्रेमलता पुत्री प्रभातीलाल पुत्र पत्रं १३/२५९० भाग वासिदेह विजयपाल पुत्र मलखान सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह ४७/२५९ भाग वासिबस कुशल जी- गुडगाँव श्रीमती सलोचना पत्नी धर्मवीर पुत्र मोहर सिंह ११/२५९ भाग वासिदेह (५३//१५)
60	53//16	निजी	कृषि	0.3541	विक्रम सिंह सुभाष पुत्र राजपाल पुत्र जोखिराम हर दो समभाग ९७/२७० भाग वासी नांगल हरनाथ विनोदिलाल मनोज सुनील पुत्र व मंजुबासी पुत्री रामदेवी विधवा रामानंद पुत्र चंद्र सिंह हर चार समभाग ३०१६ भाग बलबीर पुत्र चन्दर

					सिंह पुत्र रामनारायण हर दो समभाग 3/8 भाग राजेंद्र पुत्र जयनारायण पुत्र जोहरीमल 1/48 भाग सुशीला देवी पत्नी विजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण 1/48 भाग सुरेंद्र राजेंद्र पुत्र मनोहरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हर दो समभाग 1/36 भाग शमत उर्मिला देवी पत्नी राजेंद्र प्रशाद पुत्र सत्यनारायण 1/12 भाग विक्रम पुत्र विजेन्द्र पुत्र मनोहरलाल 1/72 भाग श्रीमती आशा बाई पुत्री व श्रीमती लाली विधवा शेर सिंह पुत्र चंद्र सिंह हर दो समभाग 3/16 भाग संदीप बंसल पुत्र घिसा राम पुत्र जयनारायण 1/12 भाग वासिदेह (53//16)
61	53//17	निजी	कृषि	0.0759	मनोज सुनील पुत्र व मंजूबाई पुत्री रामदेवी विधवा रामानंद पुत्र चंद्र सिंह हर चार समभाग 3/16 भाग बलवीर पुत्र चन्दर सिंह पुत्र रामनारायण हर दो समभाग 3/8 भाग राजेंद्र पुत्र जयनारायण पुत्र जोहरीमल 1/48 भाग सुशीला देवी पत्नी विजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण 1/48 भाग सुरेंद्र राजेंद्र पुत्र मनोहरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हर दो समभाग 1/36 भाग श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी राजेंद्र प्रशाद पुत्र सत्यनारायण 1/12 भाग विक्रम पुत्र विजेन्द्र पुत्र मनोहरलाल 1/72 भाग श्रीमती आशा बाई पुत्री व श्रीमती लाली विधवा शेर सिंह पुत्र चंद्र सिंह हर दो समभाग 3/16 भाग संदीप बंसल पुत्र घिसा राम पुत्र जयनारायण 1/12 भाग वासिदेह (53//17)
62	53//24	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा . का .	0.1416	नगर पंचायत (53//24)
63	53//25	निजी	कृषि	0.2883	मनोहरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र शंकर 1/6 भाग सुरेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार पुत्र मनोहरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हर दो समभाग 1/9 भाग महेन्द्र सिंह पुत्र मनोहरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण 1/240 भाग उर्मिला देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद पुत्र जयनारायण 17/40 भाग विक्रम सिंह पुत्र विजेन्द्र पुत्र मनोहरलाल 1/18 भाग संदीप बंसल पुत्र घिसाराम पुत्र जैनरायण

					19/80 भाग वासि (53//25)
64	53//5/1	निजी	कृषि	0.0126	धर्मबीर पुत्र प्रभातीलाल पुत्र बिडद सिंह 1599/1679 भाग वासिदेह राकेश पुत्र राजेंदर सिंह पुत्र मनबीर सिंह 80/1679 भाग वासी बस कुशल जी. गुडगाँव (53//5/1)
65	53//5/2	निजी	कृषि	0.2479	श्रीकृष्ण राजेंदर ओमप्रकाश रविंदर कुमार पुत्र श्रीमती पिस्ता बाई, गेता बाई मेवा बाई शशीबाई पुत्री व श्रीमती बनारसी देवी विधवा भनीसहाई पुत्र जौहरमल हर नौ समभाग 79/499 भाग राजेंदरपारसद पुत्र जयनारायण पुत्र जोहरीमल 35/499 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी बिजेन्दर कुमार पुत्र जयनारायण 70/499 भाग नाथूराम नरेश कुमार पुत्र व पूनम पुत्री व सावित्री देवी विधवा जयरामदास पुत्र माधोपार्सद हर चार समभाग 35/998 भाग अनिल कुमार पुत्र व नीलम सरोज मनोज पुत्री जयरामदास पुत्र माधोपार्सद हर चार समभाग 1/998 भाग संदीप वंसल पुत्र घीसाराम पुत्र जयनारायण 227/499 भाग वासिदेह (53//5/2)
66	53//6/1	निजी	कृषि	0.1366	रामकुवार घीसाराम ओमप्रकाश राजेंद्र प्रशाद मदनलाल विसम्बरदयाल पुत्र अंगरीबाई रामकालीबाई निर्मलाबाई पुत्री व त्रिनिदेवी विधवा जयनारायण जोहरीमल हर ग्यहरा समभाग 11/12 भाग विक्री पुत्र व सुशीला देवी विधवा बिजेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण हर दो समभाग 1/12 भाग वासिदेह (53//6/1)
67	53//6/2	निजी	कृषि	0.0228	लखिरमा पुत्र पत्रं पुत्र रुधाराम ३324/1295 भाग दौलतराम पुत्र प्रभातीलाल पुत्र पत्रं 9/2590 भाग रतिराम रामोतार राधेश्याम महेन्दर कुमार पुत्र हर चार समभाग 4/259 भाग सतीश कुमार नरेश कुमार पुत्र धर्मचंद पुत्र पत्रं हर दो समभाग 11/1295 भाग कमला देवी बिमला देवी सुमित्रा देवी पुत्री धरमचंद पुत्र पत्रं हर तीन समभाग

					29/2590 भाग महावीर पुत्र तिरखराम पुत्र गंगा बिशन 219/2590 भाग सतबीर पुत्र सुभासचंद्र पुत्र मंडूराम 6/259 भाग सांद्र पुत्र दयाराम पुत्र सुभास चंद्र 6/259 भाग विजेंद्र विक्रम सिंह पुत्र रंगराओ पुत्र सुभास चाँद हर दो समभाग 4/259 भाग रोहताश कुमार पुत्र नाराज पुत्र मामन 2/259 भाग जगदीश प्रशाद कैलाश चाँद रामकिशन विजय कुमार रविन्द्र कुमार सुमन कुमार अनिल कुमार सुभासचंद्र हरिकिशन पुत्र रामजीलाल पुत्र पत्रं हर नौ समभाग 713/2590 भाग बिसम्बर दयाल सतीश कुमार बालकिशन बाबूलाल प्रदीप कुमार पुत्र सोमवती पुत्र प्रभातीलाल पुत्र हर छ समभाग 39/1295 भाग प्रेमलता पुत्री प्रभातीलाल पुत्र पत्रं 13/2590 भाग वासिदेह विजयपाल पुत्र मलखान सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह 47/259 भाग वासिबस कुशल जी- गुडगाँव श्रीमती सलोचना पत्नी धर्मवीर पुत्र मोहर सिंह 11/259 भाग वासिदेह (53//6/2)
68	61//14	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा . का .	0.1518	नगर पंचायत (61//14)
69	61//15	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा . का .	0.0632	नगर पंचायत (61//15)
70	61//16	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा . का .	0.0304	नगर पंचायत (61//16)
71	61//17	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा . का .	0.4553	नगर पंचायत (61//17)
72	61//18	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा . का .	0.0076	नगर पंचायत (61//18)
73	61//23/1	निजी	गैर कृषि	0.0025	नगर पंचायत (61//23/1)
74	61//23/10	निजी	गैर कृषि	0.0025	लालाराम पुत रछोटूराम वासिदेह. (61//23/10)
75	61//23/11	निजी	गैर कृषि	0.00758	शेरसिंह पुत्र छोटूराम वासिदेह. (61//23/11)
76	61//23/12	निजी	गैर कृषि	0.0051	लालाराम पुत रछोटूराम वासिदेह. (61//23/12)

77	61//24	निजी	वा. का.	0.2251	नगर पंचायत (61//24)
78	61//4	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा . का .	0.2074	नगर पंचायत (61//4)
79	61//5	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा . का .	0.2706	नगर पंचायत (61//5)
80	61//7	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.1872	नगर पंचायत (61//7)
81	76//13	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.3136	नगर पंचायत (76//13)
82	76//14	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.1214	नगर पंचायत (76//14)
83	76//17	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.0304	नगर पंचायत (76//17)
84	76//18	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.392	नगर पंचायत (76//18)
85	76//19	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.0202	नगर पंचायत (76//19)
86	76//22	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.0809	नगर पंचायत (76//22)
87	76//23	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा का	0.3136	नगर पंचायत (76//23)
88	76//3	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा . का .	0.1416	नगर पंचायत (76//3)
89	76//4	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा. का.	0.2833	नगर पंचायत (76//4)
90	76//7	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा . का .	0.2023	नगर पंचायत (76//7)
91	76//8	अन्य(ग्राम पंचायत)	वा. का.	0.2327	नगर पंचायत (76//8)
92	84//25	निजी	कृषि	0.0076	अभीसिंह पुत्र सदिराम पुत्र दयाराम 1/6 भाग भूरा सिंह लालसिंह पुत्र पहलवान सिंह पुत्र खेमसिंह हर दो समभाग 1/3 भाग सुरेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार पुत्र व कृष्ण सुशीला पुत्री हरफूल सिंह पुत्र सदिराम हर चार समभाग 1/9 भाग अलका पुत्री व गौरव पुत्र व सुनीता विधवा महेंद्र सिंह हर तीन समभाग 1/36 चंपा देवी विधवा

					हरफूल सिंह पुत्र सदिराम 1/36 प्रताप सिकरामिंग छैलूराम पुत्र दयाराम 1/9 भाग धर्मपाल धीरज कुमार पुत्र नत्थूराम पुत्र छैलूराम है दो समभाग 1/9 भाग वासी खड़ा हबसिंह विक्रमसिंह सुमेरसिंह पुत्र व लाली देवी विधवा राजपालसिंह पुत्र चलूराम हर चार समभाग 1/9 भाग वासिदेह (84//25)
93	85//10/2	निजी	कृषि	0.0051	नगर पंचायत (85//10/2)
94	85//11	निजी	कृषि	0.1012	रामबती पत्नी तुलसा सिंह पुत्र कुंदन सिंह वासी झगडोली (85//11)
95	85//12	निजी	कृषि	0.3516	रामबती पत्नी तुलसा सिंह पुत्र कुंदन सिंह वासी झगडोली (85//12)
96	85//13	निजी	कृषि	0.0025	रामबती पत्नी तुलसा सिंह पुत्र कुंदन सिंह वासी झगडोली (85//13)
97	85//19	निजी	कृषि	0.2125	रामफल राम सिंह पुत्र व श्रीमती अनोखी देवी विधवा देशराज पुत्र हरनंद हर तीन समभाग वासिदेह (85//19)
98	85//2/1	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा का	0.1821	नगर पंचायत (85//2/1)
99	85//2/2	सरकारी	नहर	0.0632	हरियाणा सरकार (85//2/2)
100	85//20	निजी	कृषि	0.2428	कवरपाल सिंह विजयपाल सिंह पुत्र व श्रीमती रामबती देवी विधवा तुलसी सिंह पुत्र कुंदन सिंह हर तीन समभाग वासिदेह (85//20)
101	85//21	निजी	कृषि	0.3743	कवरपाल सिंह विजयपाल सिंह पुत्र व श्रीमती रामबती देवी विधवा तुलसी सिंह पुत्र कुंदन सिंह हर तीन समभाग वासिदेह (85//21)
102	85//22/1	निजी	कृषि	0.007587	रामफल राम सिंह पुत्र व श्रीमती अनोखी देवी विधवा देशराज पुत्र हरनंद हर तीन समभाग वासिदेह (85//22/1)

103	85//3/1	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा का	0.1644	नगर पंचायत (85//3/1)
104	85//3/2	सरकारी	नहर	0.0354	हरियाणा सरकार (85//3/2)
105	85//8/1	सरकारी	नहर	0.0354	हरियाणा सरकार (85//8/1)
106	85//8/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा का	0.0481	नगर पंचायत (85//8/2)
107	85//9/1	सरकारी	नहर	0.086	हरियाणा सरकार (85//9/1)
108	85//9/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	बा का	0.2732	नगर पंचायत (85//9/2)
109	98//1	निजी	कृषि	0.301	रेवती विधवा व कृष्णा सरोज सकुन्तल पुत्री पवन कुमार पुत्र श्रीचंद पुत्र हरफूल हर पांच समभाग 1/2 भाग वासी खेडा रमेश कुमार पुत्र दुलीचंद पुत्र सिंह 1/4 भाग वासिदेह रोशनलाल पुत्र भूप सिंह पुत्र पुराण सिंह 1/4 भाग वासी अकबरपुर नांगल (98//1)
110	98//10	निजी	कृषि	0.1922	रेवती विधवा व कृष्णा सरोज सकुन्तल पुत्री पवन कुमार पुत्र श्रीचंद पुत्र हरफूल हर पांच समभाग 1/2 भाग वासी खेडा रमेश कुमार पुत्र दुलीचंद पुत्र सिंह 1/4 भाग वासिदेह रोशनलाल पुत्र भूप सिंह पुत्र पुराण सिंह 1/4 भाग वासी अकबरपुर नांगल (98//10)
111	98//11/1	निजी	कृषि	0.2479	फूलचंद रावत सिंह दयानन्द पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवीसहाय हर तीन समभाग 3/5 भगवासिदेह राजेंदर सिंह विजय सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र देवीसहाय हर दो समभाग 2/5 भाग वासी नांगल हरनाथ (98//11/1)
112	99//15	निजी	कृषि	0.3566	रामप्रताप प्रताप सिंह पुत्र छेलूराम पुत्र दयाराम 1/9 भाग वासिदेह चंदरकाला पत्नी चाँद सिंह 1/18 भाग वासी नांगल हरनाथ वीरमति पत्नी अभय सिंह 1/18 भाग वासी नांगल हरनाथ अनीता पत्नी विजय सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद 1/18 भाग

					वासी मेघनवास श्रीमती रजनी यादव पत्नी रविंदर कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद 110/349 भाग मुकेश देवी पत्नी सत्यपाल पुत्र बिसम्बरदयाल 43/698 भाग सुमन पत्नी महिपाल पुत्र विशम्बरदयाल 43/698 भाग वासिदेह पूजा पत्नी हरिओम पुत्र भूप सिंह 43/698 भाग वासी खेड़ा धर्मपाल धीरज कुमार पुत्र नाथूराम पुत्र छेलूराम हर दो समभाग 1/9 भाग हवा सिंह विक्रम सिंह सुमेर सिंह पुत्र व लाली देवी विधवा राजपाल सिंह पुत्र छेलूराम हर चार समभाग 1/9 भाग वासिदेह (99//15)
113	99//16	निजी	कृषि	0.1492	सतीश पुत्र छत्रपाल पुत्र नित्यानंद 169/843 भाग अंतर सिंह पुत्र नित्यानंद पुत्र गनेशी 161/843 भाग सौरव मन्ना पुत्र जयपाल सिंह पुत्र नित्य नन्द हर दो समभाग 128/843 सुरेंद्र सिंह राकेश रमेश कुमार पुत्र सुल्तान सिंह पुत्र गनेशी हर तीन समभाग ३ ३337/843 भाग राजेंद्र सिंह पुत्र पुत्र गनेशी 14/843 भाग जयपाल पुत्र नित्यानंद पुत्र गनेशी 34/843 भाग वासिदेह. (99//16)
114	99//17	निजी	कृषि	0.1518	उर्मिला देवी पत्नी सूरत सिंह पुत्र मामनराम 1761/3752 भाग वासिदेह सरवती उर्फ लाली पत्नी सत्यपाल पुत्र मामनराम 1761/3752 भाग वासी पाएगा प्रेमपाल पुत्र खजान सिंह पुत्र मुंशी सिंह 115/1876 भाग वासिदेह (99//17)
115	99//24	निजी	कृषि	0.2833	रोशनलाल पुत्र भूप सिंह पुत्र पूर्ण 1/9 भाग सुबेसिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र नरसिंह 11/48 भाग रामानंद पुत्र नरसिंह पुत्र 5/48 भाग चंदसिंह अभय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हेतराम हर दो समभाग 1/9 सचिन साहिल पुत्र विजय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हर दो समभाग 1/18 भाग मनीष कुमार दीपेश कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र दुलीचंद हर दो समभाग 1/9 भाग सावत सिंह पुत्र भूप सिंह पुत्र पूर्ण 29/666 भाग वासिदेह मुकेश कुमार पुत्र

					सावत सिंह पुत्र भूप सिंह 5/74 भाग वासी अकबरपुर नांगल हज़ारीलाल पुत्र हेतराम पुत्र पुराण 1/24 भाग श्रीभगवान जिलेसिंह उमेद सिंह पुत्र हज़ारीलाल पुत्र हेतराम हर तीन समभाग 1/8 भाग वासिदेह (99//24)
116	99//25	निजी	कृषि	0.1619	रोशनलाल पुत्र भूप सिंह पुत्र पूर्ण 1/9 भाग सुबेसिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र नरसिंह 11/48 भाग रामानंद पुत्र नरसिंह पुत्र 5/48 भाग चंदसिंह अभय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हेतराम हर दो समभाग 1/9 सचिन साहिल पुत्र विजय सिंह पुत्र जगदीश सिंह हर दो समभाग 1/18 भाग मनीष कुमार दीपेश कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र दुलीचंद हर दो समभाग 1/9 भाग सावत सिंह पुत्र भूप सिंह पुत्र पूर्ण 29/666 भाग वासिदेह मुकेश कुमार पुत्र सावत सिंह पुत्र भूप सिंह 5/74 भाग वासी अकबरपुर नांगल हज़ारीलाल पुत्र हेतराम पुत्र पुराण 1/24 भाग श्रीभगवान जिलेसिंह उमेद सिंह पुत्र हज़ारीलाल पुत्र हेतराम हर तीन समभाग 1/8 भाग वासिदेह (99//25)
117	99//5/1	निजी	कृषि	0.0708	फूलचंद रावत सिंह दयानन्द पुत्र रणजीत सिंह पुत्र देवीसहाय हर तीन समभाग 3/5 भगवासिदेह राजेंदर सिंह विजय सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र देवीसहाय हर दो समभाग 2/5 भाग वासी नांगल हरनाथ (99//5/1)
118	99//5/2	निजी	कृषि	0.043	अभीसिंह पुत्र सदिराम पुत्र दयाराम 1/6 भाग भूरा सिंह लालसिंह पुत्र पहलवान सिंह पुत्र खेमसिंह हर दो समभाग 1/3 भाग सुरेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार पुत्र व कृष्ण सुशीला पुत्री हरफूल सिंह पुत्र सदिराम हर चार समभाग 1/9 भाग अलका पुत्री व गौरव पुत्र व सुनीता विधवा महेंद्र सिंह हर तीन समभाग 1/36 चंपा देवी विधवा हरफूल सिंह पुत्र सदिराम 1/36 प्रताप सिकरामिंग छैलूराम पुत्र दयाराम 1/9 भाग धर्मपाल धीरज कुमार पुत्र नत्थूराम पुत्र छैलूराम है दो समभाग 1/9 भाग

					वासी खड़ा हबसिंह विक्रमसिंह सुमेरसिंह पुत्र व लाली देवी विधवा राजपालसिंह पुत्र चलूराम हर चार समभाग 1/9 भाग वासिदेह (99//5/2)
119	99//6	निजी	कृषि	0.263	रामप्रताप प्रताप सिंह पुत्र छेलूराम पुत्र दयाराम 1/9 भाग वासिदेह चंद्रकाला पत्नी चाँद सिंह 1/18 भाग वासी नांगल हरनाथ वीरमति पत्नी अभय सिंह 1/18 भाग वासी नांगल हरनाथ अनीता पत्नी विजय सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद 1/18 भाग वासी मेघनवास श्रीमती रजनी यादव पत्नी रविंदर कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद 110/349 भाग मुकेश देवी पत्नी सत्यपाल पुत्र बिसम्बरदयाल 43/698 भाग सुमन पत्नी महिपाल पुत्र विशम्बरदयाल 43/698 भाग वासिदेह पूजा पत्नी हरिओम पुत्र भूप सिंह 43/698 भाग वासी खेड़ा धर्मपाल धीरज कुमार पुत्र नाथूराम पुत्र छेलूराम हर दो समभाग 1/9 भाग हवा सिंह विक्रम सिंह सुमेर सिंह पुत्र व लाली देवी विधवा राजपाल सिंह पुत्र छेलूराम हर चार समभाग 1/9 भाग वासिदेह (99//6)
तालुक का नाम: नारनौल					
गांव का नाम: दुबलाना(१७४)					
1	102	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0835	ग्राम पंचायत (102)
2	42//12	निजी	कृषि	0.1214	रामकुमार पुत्र मनभारिया पुत्र हरकिशन 1/2 भाग श्रीमती. चमेली विधवा यादराम पुत्र मनभर 1/8 भाग देवेन्द्र पुत्र यादराम पुत्र मनभर 17/88 भाग श्रीमती. प्यारी देवी पत्नी धनीराम पुत्र बहादुर सिंह 2/11 भाग वासीदेह (42//12)
3	42//13	निजी	कृषि	0.2276	रामकुमार पुत्र मनभारिया पुत्र हरकिशन 1/2 भाग श्रीमती. चमेली विधवा यादराम पुत्र मनभर 1/8 भाग देवेन्द्र पुत्र यादराम पुत्र मनभर 17/88 भाग श्रीमती. प्यारी देवी पत्नी धनीराम पुत्र बहादुर सिंह 2/11 भाग वासीदेह

					(42//13)
4	42//18	निजी	कृषि	0.2378	रामकुमार पुत्र मनभारिया पुत्र हरकिशन 1/2 भाग श्रीमती. चमेली विधवा यादराम पुत्र मनभर 1/8 भाग देवेन्द्र पुत्र यादराम पुत्र मनभर 17/88 भाग श्रीमती. प्यारी देवी पत्नी धनीराम पुत्र बहादुर सिंह 2/11 भाग वासीदेह (42//18)
5	42//19	निजी	कृषि	0.1973	रामकुमार पुत्र मनभारिया पुत्र हरकिशन 1/2 भाग श्रीमती. चमेली विधवा यादराम पुत्र मनभर 1/8 भाग देवेन्द्र पुत्र यादराम पुत्र मनभर 17/88 भाग श्रीमती. प्यारी देवी पत्नी धनीराम पुत्र बहादुर सिंह 2/11 भाग वासीदेह (42//19)
6	42//2/2	निजी	कृषि	0.001	मनफूल पुत्र मान पुत्र प्रेमा 1/6 भाग हवा सिंह अजय सिंह पुत्र शिम्भू सिंह पुत्र मान हर दो समभाग 1/3 भाग फ़तेह सिंह संजय पुत्र मनफूल सिंह पुत्र मान हर दो समभाग 1/6 भाग अशोक कुमार पुत्र सुभाष चंद पुत्र मान 1/12 भाग उदय सिंह पुत्र सुभाष चंद पुत्र मान 1/4 भाग वासीदेह (42//2/2)
7	42//22/1	निजी	कृषि	0.0101	श्रीमती. लाली पत्नी ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 51/196 भाग श्रीमती. सविता पत्नी लालचंद पुत्र रामजीलाल 39/196 भाग सुभाषचंद अमर सिंह पुत्र प्रभाती लाल पुत्र चिरंजी लाल हर दो समभाग 53/294 भाग राजबाला कमला पुत्री भीमा पुत्र कालिया हर दो समभाग 1/294 भाग जीतेन्द्र नवीन पुत्र व निर्मला देवी विधवा व श्रीमती. जगनि देवी माता वेदप्रकाश पुत्र प्रभाती लाल हर चार समभाग 53/588 भाग राजपाल पुत्र भीमा पुत्र कालिया 53/392 भाग सत्यवीर पुत्र भीमा पुत्र कालिया 149/1176 भाग महेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया 1/196 भाग वासीदेह (42//22/1)
8	42//22/2	निजी	कृषि	0.263	पुरुषोत्तम पुत्र व श्रीमती. कृष्णा विमला पुत्री मोहर सिंह पुत्र इंद्राज हर तीन समभाग 175/1051 भाग दिनेश कुमार

					पुत्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 90/1051 भाग लालचंद शिम्भू दयाल महेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया हर तीन समभाग 351/1051 भाग ओमप्रकाश इंद्रजीत पुत्र व रमेश देवी विधवा बाबूलाल पुत्र सुल्तान हर तीन समभाग 260/1051 भाग श्रीमती. माया देवी पत्नी बस्तीराम पुत्र गणपत राम 40/1051 भाग श्रीमती. मंजू देवी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र बस्तीराम 320/9459 भाग रविंद्र कुमार पुत्र पुष्कर उर्फ पुष्पित कुमार उर्फ पुष्प कुमार पुत्र 535/9459 भाग श्रीमती. संतष देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र छाजूराम 40/1051 भाग वासीदेह (42/22/2)
9	42/23	निजी	कृषि	0.1619	पुरुषोत्तम पुत्र व श्रीमती. कृष्णा बिमला पुत्री मोहर सिंह पुत्र इंद्राज हर तीन समभाग 175/1051 भाग दिनेश कुमार पुत्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 90/1051 भाग लालचंद शिम्भू दयाल महेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया हर तीन समभाग 351/1051 भाग ओमप्रकाश इंद्रजीत पुत्र व रमेश देवी विधवा बाबूलाल पुत्र सुल्तान हर तीन समभाग 260/1051 भाग श्रीमती. माया देवी पत्नी बस्तीराम पुत्र गणपत राम 40/1051 भाग श्रीमती. मंजू देवी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र बस्तीराम 320/9459 भाग रविंद्र कुमार पुत्र पुष्कर उर्फ पुष्पित कुमार उर्फ पुष्प कुमार पुत्र 535/9459 भाग श्रीमती. संतष देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र छाजूराम 40/1051 भाग वासीदेह (42/23)
10	42/9/1	निजी	कृषि	0.0683	मनफूल पुत्र मान पुत्र प्रेमा 1/6 भाग हवा सिंह अजय सिंह पुत्र शिम्भू सिंह पुत्र मान हर दो समभाग 1/3 भाग ऋतेह सिंह संजय पुत्र मनफूल सिंह पुत्र मान हर दो समभाग 1/6 भाग अशोक कुमार पुत्र सुभाष चंद पुत्र मान 1/12 भाग उदय सिंह पुत्र सुभाष चंद पुत्र मान 1/4 भाग वासीदेह (42/9/1)
11	42/9/2	निजी	कृषि	0.0506	मनफूल पुत्र मान पुत्र प्रेमा 1/6 भाग हवा

					सिंह अजय सिंह पुत्र शिम्भू सिंह पुत्र मान हर दो समभाग 1/3 भाग फ़तेह सिंह संजय पुत्र मनफूल सिंह पुत्र मान हर दो समभाग 1/6 भाग अशोक कुमार पुत्र सुभाष चंद पुत्र मान 1/12 भाग उदय सिंह पुत्र सुभाष चंद पुत्र मान 1/4 भाग वासीदेह (42//9/2)
12	43//10/2	निजी	कृषि	0.0228	पुरुषोत्तम पुत्र व श्रीमती. कृष्णा बिमला पुत्री मोहर सिंह पुत्र इंद्राज हर तीन समभाग 175/1051 भाग दिनेश कुमार पुत्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 90/1051 भाग लालचंद शिम्भू दयाल महेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया हर तीन समभाग 351/1051 भाग ओमप्रकाश इंद्रजीत पुत्र व रमेश देवी विधवा बाबूलाल पुत्र सुल्तान हर तीन समभाग 260/1051 भाग श्रीमती. माया देवी पत्नी बस्तीराम पुत्र गणपत राम 40/1051 भाग श्रीमती. मंजू देवी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र बस्तीराम 320/9459 भाग रविंद्र कुमार पुत्र पुष्कर उर्फ पुष्पित कुमार उर्फ पुष्प कुमार पुत्र 535/9459 भाग श्रीमती. संतष देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र छाजूराम 40/1051 भाग वासीदेह (43//10/2)
13	43//11	निजी	कृषि	0.0961	सुमेर सिंह शीशराम राजेंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती. इन्द्रो भतेरी पुत्री व श्रीमती सर्फि विधवा सुरजा पुत्र नानग हर छः समभाग 1/12 भाग भनीसहाये चंद्र पुत्र नानग पुत्र रामकरण हर दो समभाग 1/16 भाग प्रह्लाद पुत्र रिछपाल पुत्र रामकरण 1/9 भाग श्रीमती. बिमला कृष्णा पुत्री चंद्र पुत्र नानग हर दो समभाग 1/12 भाग मिश्रीलाल मुख्तयार सिंह पुत्र उमराओ सिंह पुत्र रिछपाल हर दो समभाग 1/9 भाग श्रीमती. विधा देवी पत्नी सोमदत्त पुत्र छाजू राम 1/48 भाग सोमदत्त पुत्र छाजू राम पार्टिया 7/48 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र परता 3866/33939 भाग वासीदेह जगदीश प्रसाद पुत्र रंगराओ पुत्र बिहारी लाल 4/419 भाग वासी गुवानी सुनील कुमार पुत्र व उषा देवी ओमवती पुत्री व संतरा विधवा मनोहर लाल पुत्र

					दौलत राम हर चार समभाग 4/45 भाग अनीश कुमार नरेश कुमार पुत्र व दीपिका पुत्री व संतोष देवी विधवा व संतरा माता सुरेंद्र कुमार पुत्र मनोहर लाल हर पांच समभाग 1/45 भाग नथिया रिसाल पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/27 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज 1/162 भाग वासीदेह (43//11)
14	43//12	निजी	कृषि	0.3389	सुमेर सिंह शीशराम राजेंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती. इन्द्रो भतेरी पुत्री व श्रीमती सर्फि विधवा सुरजा पुत्र नानग हर छः समभाग 1/12 भाग भनीसहाये चंद्र पुत्र नानग पुत्र रामकरण हर दो समभाग 1/16 भाग प्रह्लाद पुत्र रिद्धपाल पुत्र रामकरण 1/9 भाग श्रीमती. बिमला कृष्णा पुत्री चंद्र पुत्र नानग हर दो समभाग 1/12 भाग मिश्रीलाल मुख्तयार सिंह पुत्र उमराओ सिंह पुत्र रिद्धपाल हर दो समभाग 1/9 भाग श्रीमती. विधा देवी पत्नी सोमदत्त पुत्र छाजू राम 1/48 भाग सोमदत्त पुत्र छाजू राम पाटिया 7/48 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र परता 3866/33939 भाग वासीदेह जगदीश प्रसाद पुत्र रंगराओ पुत्र बिहारी लाल 4/419 भाग वासी गुवानी सुनील कुमार पुत्र व उषा देवी ओमवती पुत्री व संतरा विधवा मनोहर लाल पुत्र दौलत राम हर चार समभाग 4/45 भाग अनीश कुमार नरेश कुमार पुत्र व दीपिका पुत्री व संतोष देवी विधवा व संतरा माता सुरेंद्र कुमार पुत्र मनोहर लाल हर पांच समभाग 1/45 भाग नथिया रिसाल पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/27 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज 1/162 भाग वासीदेह (43//12)
15	43//19	निजी	कृषि	0.263	सुमेर सिंह शीशराम राजेंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती. इन्द्रो भतेरी पुत्री व श्रीमती सर्फि विधवा सुरजा पुत्र नानग हर छः समभाग 1/12 भाग भनीसहाये चंद्र पुत्र नानग पुत्र रामकरण हर दो समभाग 1/16 भाग प्रह्लाद पुत्र रिद्धपाल पुत्र रामकरण 1/9 भाग श्रीमती. बिमला कृष्णा पुत्री चंद्र पुत्र

					नानग हर दो समभाग 1/12 भाग मिश्रीलाल मुख्तयार सिंह पुत्र उमराओ सिंह पुत्र रिछपाल हर दो समभाग 1/9 भाग श्रीमती. विधा देवी पत्नी सोमदत्त पुत्र छाजू राम 1/48 भाग सोमदत्त पुत्र छाजू राम पाटिया 7/48 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र परता 3866/33939 भाग वासीदेह जगदीश प्रसाद पुत्र रंगराओ पुत्र बिहारी लाल 4/419 भाग वासी गुवानी सुनील कुमार पुत्र व उषा देवी ओमवती पुत्री व संतरा विधवा मनोहर लाल पुत्र दौलत राम हर चार समभाग 4/45 भाग अनीश कुमार नरेश कुमार पुत्र व दीपिका पुत्री व संतोष देवी विधवा व संतरा माता सुरेंद्र कुमार पुत्र मनोहर लाल हर पांच समभाग 1/45 भाग नथिया रिसाल पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/27 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज 1/162 भाग वासीदेह (43//19)
16	43//2/1/1	निजी	कृषि	0.0481	श्रीमती. लाली पत्नी ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 51/196 भाग श्रीमती. सविता पत्नी लालचंद पुत्र रामजीलाल 39/196 भाग सुभाषचंद अमर सिंह पुत्र प्रभाती लाल पुत्र चिरंजी लाल हर दो समभाग 53/294 भाग राजबाला कमला पुत्री भीमा पुत्र कालिया हर दो समभाग 1/294 भाग जीतेन्द्र नवीन पुत्र व निर्मला देवी विधवा व श्रीमती. जगनि देवी माता वेदप्रकाश पुत्र प्रभाती लाल हर चार समभाग 53/588 भाग राजपाल पुत्र भीमा पुत्र कालिया 53/392 भाग सत्यवीर पुत्र भीमा पुत्र कालिया 149/1176 भाग महेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया 1/196 भाग वासीदेह (43//2/1/1)
17	43//2/2/2	सरकारी	सड़क	0.00759	हरियाणा सरकार (43//2/2/2)
18	43//20	निजी	कृषि	0.1669	सुमेर सिंह शीशराम राजेंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती. इन्द्रो भतेरी पुत्री व श्रीमती सर्फि विधवा सुरजा पुत्र नानग हर छः समभाग 1/12 भाग भनीसहाये चंद्र पुत्र नानग पुत्र रामकरण हर दो समभाग 1/16 भाग

				<p>प्रह्लाद पुत्र रिछपाल पुत्र रामकरण 1/9 भाग श्रीमती. बिमला कृष्णा पुत्री चंद्र पुत्र नानग हर दो समभाग 1/12 भाग मिश्रीलाल मुख्तयार सिंह पुत्र उमराओ सिंह पुत्र रिछपाल हर दो समभाग 1/9 भाग श्रीमती. विधा देवी पत्नी सोमदत्त पुत्र छाजू राम 1/48 भाग सोमदत्त पुत्र छाजू राम पार्टिया 7/48 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र परता 3866/33939 भाग वासीदेह जगदीश प्रसाद पुत्र रंगराओ पुत्र बिहारी लाल 4/419 भाग वासी गुवानी सुनील कुमार पुत्र व उषा देवी ओमवती पुत्री व संतरा विधवा मनोहर लाल पुत्र दौलत राम हर चार समभाग 4/45 भाग अनीश कुमार नरेश कुमार पुत्र व दीपिका पुत्री व संतोष देवी विधवा व संतरा माता सुरेंद्र कुमार पुत्र मनोहर लाल हर पांच समभाग 1/45 भाग नथिया रिसाल पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/27 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज 1/162 भाग वासीदेह (43//20)</p>	
19	43//21	निजी	कृषि	0.2352	<p>सुमेर सिंह शीशराम राजेंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती. इन्द्रो भतेरी पुत्री व श्रीमती सर्फि विधवा सुरजा पुत्र नानग हर छः समभाग 1/12 भाग भनीसहाये चंद्र पुत्र नानग पुत्र रामकरण हर दो समभाग 1/16 भाग प्रह्लाद पुत्र रिछपाल पुत्र रामकरण 1/9 भाग श्रीमती. बिमला कृष्णा पुत्री चंद्र पुत्र नानग हर दो समभाग 1/12 भाग मिश्रीलाल मुख्तयार सिंह पुत्र उमराओ सिंह पुत्र रिछपाल हर दो समभाग 1/9 भाग श्रीमती. विधा देवी पत्नी सोमदत्त पुत्र छाजू राम 1/48 भाग सोमदत्त पुत्र छाजू राम पार्टिया 7/48 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र परता 3866/33939 भाग वासीदेह जगदीश प्रसाद पुत्र रंगराओ पुत्र बिहारी लाल 4/419 भाग वासी गुवानी सुनील कुमार पुत्र व उषा देवी ओमवती पुत्री व संतरा विधवा मनोहर लाल पुत्र दौलत राम हर चार समभाग 4/45 भाग अनीश कुमार नरेश कुमार पुत्र व दीपिका पुत्री व संतोष देवी विधवा व संतरा माता</p>

					सुरेंद्र कुमार पुत्र मनोहर लाल हर पांच समभाग 1/45 भाग नथिया रिसाल पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/27 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज 1/162 भाग वासीदेह (43//21)
20	43//22	निजी	कृषि	0.1695	सुमेर सिंह शीशराम राजेंद्र सिंह पुत्र व श्रीमती. इन्द्रो भतेरी पुत्री व श्रीमती सर्फि विधवा सुरजा पुत्र नानग हर छः समभाग 1/12 भाग भनीसहाये चंद्र पुत्र नानग पुत्र रामकरण हर दो समभाग 1/16 भाग प्रह्लाद पुत्र रिछपाल पुत्र रामकरण 1/9 भाग श्रीमती. बिमला कृष्णा पुत्री चंद्र पुत्र नानग हर दो समभाग 1/12 भाग मिश्रीलाल मुख्तयार सिंह पुत्र उमराओ सिंह पुत्र रिछपाल हर दो समभाग 1/9 भाग श्रीमती. विधा देवी पत्नी सोमदत्त पुत्र छाजू राम 1/48 भाग सोमदत्त पुत्र छाजू राम पारटिया 7/48 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र परता 3866/33939 भाग वासीदेह जगदीश प्रसाद पुत्र रंगराओ पुत्र बिहारी लाल 4/419 भाग वासी गुवानी सुनील कुमार पुत्र व उषा देवी ओमवती पुत्री व संतरा विधवा मनोहर लाल पुत्र दौलत राम हर चार समभाग 4/45 भाग अनीश कुमार नरेश कुमार पुत्र व दीपिका पुत्री व संतोष देवी विधवा व संतरा माता सुरेंद्र कुमार पुत्र मनोहर लाल हर पांच समभाग 1/45 भाग नथिया रिसाल पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज हर दो समभाग 1/27 भाग सुरेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र बेगराज 1/162 भाग वासीदेह (43//22)
21	43//3/1/1	निजी	कृषि	0.0556	पुरुषोत्तम पुत्र व श्रीमती. कृष्णा बिमला पुत्री मोहर सिंह पुत्र इंद्राज हर तीन समभाग 175/1051 भाग दिनेश कुमार पुत्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 90/1051 भाग लालचंद शिम्भू दयाल महेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया हर तीन समभाग 351/1051 भाग ओमप्रकाश इंद्रजीत पुत्र व रमेश देवी विधवा बाबूलाल पुत्र सुल्तान हर तीन समभाग 260/1051 भाग श्रीमती. माया

					देवी पत्नी बस्तीराम पुत्र गणपत राम 40/1051 भाग श्रीमती. मंजू देवी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र बस्तीराम 320/9459 भाग रविंद्र कुमार पुत्र पुष्कर उर्फ पुष्पित कुमार उर्फ पुष्प कुमार पुत्र 535/9459 भाग श्रीमती. संतष देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र छाजूराम 40/1051 भाग वासीदेह (43//3/1/1)
22	43//3/1/2	सरकारी	सड़क	0.001	हरियाणा सरकार (43//3/1/2)
23	43//3/2/1	सरकारी	सड़क	0.0025	हरियाणा सरकार (43//3/2/1)
24	43//3/2/2	निजी	कृषि	0.0152	पुरुषोत्तम पुत्र व श्रीमती. कृष्णा बिमला पुत्री मोहर सिंह पुत्र इंद्राज हर तीन समभाग 175/1051 भाग दिनेश कुमार पुत्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 90/1051 भाग लालचंद्र शिम्भू दयाल महेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया हर तीन समभाग 351/1051 भाग ओमप्रकाश इंद्रजीत पुत्र व रमेश देवी विधवा बाबूलाल पुत्र सुल्तान हर तीन समभाग 260/1051 भाग श्रीमती. माया देवी पत्नी बस्तीराम पुत्र गणपत राम 40/1051 भाग श्रीमती. मंजू देवी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र बस्तीराम 320/9459 भाग रविंद्र कुमार पुत्र पुष्कर उर्फ पुष्पित कुमार उर्फ पुष्प कुमार पुत्र 535/9459 भाग श्रीमती. संतष देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र छाजूराम 40/1051 भाग वासीदेह (43//3/2/2)
25	43//8	निजी	कृषि	0.0152	पुरुषोत्तम पुत्र व श्रीमती. कृष्णा बिमला पुत्री मोहर सिंह पुत्र इंद्राज हर तीन समभाग 175/1051 भाग दिनेश कुमार पुत्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 90/1051 भाग लालचंद्र शिम्भू दयाल महेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया हर तीन समभाग 351/1051 भाग ओमप्रकाश इंद्रजीत पुत्र व रमेश देवी विधवा बाबूलाल पुत्र सुल्तान हर तीन समभाग 260/1051 भाग श्रीमती. माया देवी पत्नी बस्तीराम पुत्र गणपत राम 40/1051 भाग श्रीमती. मंजू देवी पत्नी

					प्रदीप कुमार पुत्र बस्तीराम 320/9459 भाग रविंद्र कुमार पुत्र पुष्कर उर्फ पुष्पित कुमार उर्फ पुष्प कुमार पुत्र 535/9459 भाग श्रीमती. संतष देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र छाजूराम 40/1051 भाग वासीदेह (43//8)
26	43//9/1	सरकारी	सड़क	0.0101	हरियाणा सरकार (43//9/1)
27	43//9/2	निजी	कृषि	0.349	पुरुषोत्तम पुत्र व श्रीमती. कृष्णा बिमला पुत्री मोहर सिंह पुत्र इंद्राज हर तीन समभाग 175/1051 भाग दिनेश कुमार पुत्र पुत्र ओमप्रकाश पुत्र नित्यानंद 90/1051 भाग लालचंद शिम्भू दयाल महेंद्र सिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र कालिया हर तीन समभाग 351/1051 भाग ओमप्रकाश इंद्रजीत पुत्र व रमेश देवी विधवा बाबूलाल पुत्र सुल्तान हर तीन समभाग 260/1051 भाग श्रीमती. माया देवी पत्नी बस्तीराम पुत्र गणपत राम 40/1051 भाग श्रीमती. मंजू देवी पत्नी प्रदीप कुमार पुत्र बस्तीराम 320/9459 भाग रविंद्र कुमार पुत्र पुष्कर उर्फ पुष्पित कुमार उर्फ पुष्प कुमार पुत्र 535/9459 भाग श्रीमती. संतष देवी पत्नी रामचंद्र पुत्र छाजूराम 40/1051 भाग वासीदेह (43//9/2)
28	55//24/1	निजी	कृषि	0.0126	श्रीमती. पूनम पुत्री रामकला पुत्री छाजू राम 1/176 भाग रामकवर ओमप्रकाश करन सिंह वेद प्रकाश पुत्र खूबचंद पुत्र काशीराम हर चार समभाग 1/6 भाग धर्मवीर पुत्र गणपत राम पुत्र काशीराम 1/8 भाग चंद्र कला पत्नी होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद 40/2677 भाग उदय सिंह प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री व श्रीमती/ किरोस्ता विधवा व परमेश्वररी माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर पांच समभाग 2357/21416 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी

					धर्मपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग रामजीलाल पुत्र पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपा रामपाल पुत्र छाजूराम पुत्र पिराना हर दो समभाग 21/176 भाग रामचंद्र पुत्र बलबीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2357/21416 भाग संतपाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिरनि हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (55/24/1)
29	55/24/2	निजी	कृषि	0.0101	रामकुमार वेदप्रकाश ओमप्रकाश कारन सिंह पुत्र खूबचंद पुत्र कासीराम हर चार समभाग 1/6 भाग श्रीमती. पूनम देवी पुत्री रामकला पुत्री छाजूराम 1/110 भाग धर्मवीर पुत्र गणपत पुत्र काशीराम 1/16 भाग उदय सिंह प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर तीन समभाग 3/80 भाग श्रीमती. आशा रानी पत्नी सत्यवीर सिंह पुत्र रामजीलाल 1/264 भाग श्रीमती. किरोस्ता देवी विधवा राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत राम 343/2643 भाग श्रीमती. प्रेम देवी पत्नी नरेश कुमार पुत्र रामकुमार 1/264 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग परमेश्वरि माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत 1/80 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी धर्मपाल पुत्र छाजूराम 1/33 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र छाजूराम 1/33 भाग श्रीमती. शकीना देवी पत्नी धर्मवीर पुत्र शेर सिंह 31/21330 भाग श्रीमती. गीता देवी पत्नी महेश कुमार पुत्र धर्मपाल 41/21330 श्रीमती. मधु साइन पत्नी सुनील कुमार पुत्र सुरेश कुमार कासते नयी 1/474 भाग श्रीमती. राजेश देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्र रामसवरूप 109/104280 भाग श्रीमती. रमेश देवी पत्नी कैलाश चंद पुत्र रामसवरूप 109/104280 भाग रामजीलाल पुत्र

					पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपाल रामपाल पुत्र छाजूराम उर्फ छाजू पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना हर दो समभाग 37/330 भाग रामचंद्र पुत्र बलवीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2/33 भाग संतलाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिराना हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (55//24/2)
30	55//6	निजी	कृषि	0.0835	श्रीमती. पूनम पुत्री रामकला पुत्री छाजू राम 1/176 भाग रामकवर ओमप्रकाश करन सिंह वेद प्रकाश पुत्र खूबचंद पुत्र काशीराम हर चार समभाग 1/6 भाग धर्मवीर पुत्र गणपत राम पुत्र काशीराम 1/8 भाग चंद्र कला पत्नी होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद 40/2677 भाग उदय सिंह प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री व श्रीमती/ किरोस्ता विधवा व परमेश्वररी माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर पांच समभाग 2357/21416 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी धर्मपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग रामजीलाल पुत्र पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपाल रामपाल पुत्र छाजूराम पुत्र पिराना हर दो समभाग 21/176 भाग रामचंद्र पुत्र बलवीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2357/21416 भाग संतपाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिराना हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (55//6)
31	55/15	निजी	कृषि	0.0051	श्रीमती. पूनम पुत्री रामकला पुत्री छाजू राम 1/176 भाग रामकवर ओमप्रकाश करन सिंह वेद प्रकाश पुत्र खूबचंद पुत्र काशीराम हर चार समभाग 1/6 भाग धर्मवीर पुत्र गणपत राम पुत्र काशीराम 1/8 भाग चंद्र कला पत्नी होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद 40/2677 भाग उदय सिंह

				<p>प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री व श्रीमती/ किरोस्ता विधवा व परमेश्वररी माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर पांच समभाग 2357/21416 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी धर्मपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग रामजीलाल पुत्र पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपा रामपाल पुत्र छाजूराम पुत्र पिराना हर दो समभाग 21/176 भाग रामचंद्र पुत्र बलबीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2357/21416 भाग संतपाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिरनि हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (55//15)</p>
32	55/16	निजी	कृषि	<p>0.0986</p> <p>श्रीमती. पूनम पुत्री रामकला पुत्री छाजू राम 1/176 भाग रामकवर ओमप्रकाश करन सिंह वेद प्रकाश पुत्र खूबचंद पुत्र काशीराम हर चार समभाग 1/6 भाग धर्मबीर पुत्र गणपत राम पुत्र काशीराम 1/8 भाग चंद्र कला पत्नी होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद 40/2677 भाग उदय सिंह प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री व श्रीमती/ किरोस्ता विधवा व परमेश्वररी माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर पांच समभाग 2357/21416 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी धर्मपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग रामजीलाल पुत्र पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपा रामपाल पुत्र छाजूराम पुत्र पिराना हर दो</p>

					समभाग 21/176 भाग रामचंद्र पुत्र बलबीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2357/21416 भाग संतपाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिरनि हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (55//16)
33	56//1/1	निजी	कृषि	0.0809	श्रीमती. पूनम पुत्री रामकला पुत्री छाजू राम 1/176 भाग रामकवर ओमप्रकाश करन सिंह वेद प्रकाश पुत्र खूबचंद पुत्र काशीराम हर चार समभाग 1/6 भाग धर्मबीर पुत्र गणपत राम पुत्र काशीराम 1/8 भाग चंद्र कला पत्नी होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद 40/2677 भाग उदय सिंह प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री व श्रीमती/ किरोस्ता विधवा व परमेश्वररी माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर पांच समभाग 2357/21416 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी धर्मपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग रामजीलाल पुत्र पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपा रामपाल पुत्र छाजूराम पुत्र पिराना हर दो समभाग 21/176 भाग रामचंद्र पुत्र बलबीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2357/21416 भाग संतपाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिरनि हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (56//1/1)
34	56//1/2	निजी	कृषि	0.2529	मोहर सिंह पुत्र बहादुर पुत्र लक्ष्मण 1/2 भाग सभानंद मुंशी राम छोटेलाल पुत्र धनि राम पुत्र बहादुर हर तीन समभाग 1/2 भाग वासीदेह (56//1/2)
35	56//10	निजी	कृषि	0.3288	श्रीमती. पूनम पुत्री रामकला पुत्री छाजू राम 1/176 भाग रामकवर ओमप्रकाश करन सिंह वेद प्रकाश पुत्र खूबचंद पुत्र काशीराम हर चार समभाग 1/6 भाग

				<p>धर्मवीर पुत्र गणपत राम पुत्र काशीराम 1/8 भाग चंद्र कला पत्नी होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद 40/2677 भाग उदय सिंह प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री व श्रीमती/ किरोस्ता त्रिधवा व परमेश्वररी माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर पांच समभाग 2357/21416 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी धर्मपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग रामजीलाल पुत्र पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपा रामपाल पुत्र छाजूराम पुत्र पिराना हर दो समभाग 21/176 भाग रामचंद्र पुत्र बलवीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2357/21416 भाग संतपाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिरनि हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (56//10)</p>	
36	56//11	निजी	कृषि	0.11129	<p>श्रीमती. पूनम पुत्री रामकला पुत्री छाजू राम 1/176 भाग रामकवर ओमप्रकाश करन सिंह वेद प्रकाश पुत्र खूबचंद पुत्र काशीराम हर चार समभाग 1/6 भाग धर्मवीर पुत्र गणपत राम पुत्र काशीराम 1/8 भाग चंद्र कला पत्नी होशियार सिंह पुत्र रामप्रसाद 40/2677 भाग उदय सिंह प्रदीप पुत्र व श्रीमती. गीता पुत्री व श्रीमती/ किरोस्ता त्रिधवा व परमेश्वररी माता राजेंद्र सिंह पुत्र गणपत हर पांच समभाग 2357/21416 भाग अनिल कुमार पुत्र संतपाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल पुत्र टेकचंद 1/20 भाग हनुमान सिंह पुत्र रणजीत सिंह पुत्र खूबचंद 1/24 भाग सत्यवान पुत्र जगदीश प्रसाद पुत्र खूबचंद 1/24 भाग श्रीमती. देव कला पत्नी धर्मपाल पुत्र छाजूराम 20/2677 भाग श्रीमती. सुषमा देवी पत्नी रामपाल पुत्र</p>

					<p>छाजूराम 20/2677 भाग रामजीलाल पुत्र पिराना पुत्र ठाकुर सिंह 1/8 भाग धर्मपा रामपाल पुत्र छाजूराम पुत्र पिराना हर दो समभाग 21/176 भाग रामचंद्र पुत्र बलबीर पुत्र प्राणसुख उर्फ पिराना 2357/21416 भाग संतपाल बनवारी पुत्र टेकचंद पुत्र पिरनि हर दो समभाग 1/40 भाग वासीदेह (56//11)</p>
37	56//2	निजी	कृषि	0.1062	<p>हीरा लाल पुत्र श्रीमती. सरवन पुत्री कालिया 178/5441 भाग श्रीमती. मिश्री देवी पत्नी हरी सिंह पुत्र सवाल राम 119/5441 भाग भूप सिंह पुत्र रामकुवार पुत्र केशो 520/5441 भाग बाबू लाल पुत्र नेट राम पुत्र मुखराम 80/5441 भाग रामबीर ओमबीर पुत्र विजय सिंह पुत्र लोकचंद हर दो समभाग 216/5441 भाग विजय सिंह पुत्र लोकचंद पुत्र हरदेवा 464/5441 भाग घीसा राम पुत्र जीवन राम पुत्र कशी राम 6078553/118439688 भाग धर्मपाल पुत्र रामकुमार पुत्र केशा 557/5441 भाग जगमाल रामनिवास पुत्र देवकरण पुत्र हरदेवा हर दो समभाग 680/5441 भाग रमेश अशोक कुमार रामपाल पुत्र रामनारायण हर तीन समभाग 80/5441 भाग सूबे सिंह पुत्र श्रीमती. मकतूल पुत्री बेगराज 340/5441 भाग वासीदेह ईश्वर सिंह राजपाल पुत्र श्रीराम पुत्र उम्दा पुत्र रूपा हर दो समभाग 240/5441 भाग वासी खत्रीपुर अनीता पुत्री श्रीमती. कलावती पुत्री श्रीमती. सरती 177/54410 भाग अमीलाल मातादीन पुत्र श्रीमती. सरती पुत्र कालिया हर दो समभाग 3817658/133244649 भाग रविंद्र संजीव पुत्र व कुसुम सरजीत पुत्री श्रीमती. कलावती पुत्री श्रीमती. सरती हर चार समभाग 7635316/666223245 भाग सुनील कुमार पुत्र व संगीता पुत्री कवर सिंह पुत्र श्रीमती. सरती हर दो समभाग 1908829/133244649 भाग प्रदीप कुमार पुत्र बस्ती राम पुत्र गणपत 361/48978 भाग जसवंत सिंह पुत्र</p>

					श्रीमती मकतूल पुत्र बेगराज पुत्र किशन 1020/5441 भाग रामनिवास पुत्र श्रीमती लिली पुत्री श्रीमती. सुरजी 59/21764 भाग मातादीन पुत्र व सर्व बिमला पुत्री श्रीमती. सुरजी पुत्र कालिया हर तीन समभाग 848973/39479896 भाग रामौतार पुत्र श्रीमती. सरिया पुत्र कालिया 282991/39479896 भाग शारदा माया संतोष पुत्री श्रीमती सरिया पुत्र कालिया हर तीन समभाग 848973/39479896 भाग लाली देवी सावित्री देवी पुत्री श्रीमती. लिली पुत्र श्रीमती. सुरजी हर दो समभाग 282991/59219844 भाग वासीदेह (56//2)
गांव का नाम: जाट गुवाना					
38	12//1	निजी	कृषि	0.0152	कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/4 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/8 भाग रघबीर सिंह , बाबूलाल , छोटे लाल , ईश्वर सिंह , राजेंद्र सिंह पुत्र रामसिंघ पुत्र गणपत हर पैघ समभाग 1/4 भाग विकास , विशाल पुत्र महेंद्र सिंह उमरौ सिंह हर दो समभाग 11/8270 भाग राजेश सिंह , रेखा पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपाल सिंह हर दो समभाग 1/27 भाग राजबीर सिंह लाला राम पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 17/540 भाग अशोक कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारीलाल कॉम अहीर 1/270 भाग प्रेम बाई , पाना बाई लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर तीन समभाग 29/540 भाग वीरेंदर सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नित्य नन्द 1/24 भाग महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/40 भाग वासिदेह श्रीमती अरुणा भर्ती पत्नी बरह्मप्रकश पुत्र मातादीन 1/20 भाग वासी अमंदि अटेली रवि , रजत पुत्र वे पूनम विधवा सुरेंदर सिंह पुत्र उमराव सिंह हर तीन समभाग 1/24 भाग वासी डलना (12//1)
39	13//14	निजी	कृषि	0.1821	वीरेंदर सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नीता नन्द

					1/2 भाग वासी डलना रवि , रजत पुत्र व् पूनम विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र उमरौ सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग वासी डलाना (13//14)
40	13//15	निजी	कृषि	0.263	वीरेंद्र सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नीता नन्द 1/2 भाग वासी डलना रवि , रजत पुत्र व् पूनम विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र उमरौ सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग वासी डलाना (13//15)
41	13//16	निजी	कृषि	0.1771	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेंद्र नरेंद्र पुत्र व् श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व् रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 1/5 बहग वासी डलना (13//16)
42	13//17	निजी	कृषि	0.2428	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेंद्र नरेंद्र पुत्र व् श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व् रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन

					समभाग 1/5 बहग वासी डलना (13//17)
43	13//24	निजी	कृषि	0.3339	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेन्द्र नरेंद्र पुत्र व् श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व् रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 1/5 बहग वासी डलना (13//24)
44	13//25	निजी	कृषि	0.1113	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेन्द्र नरेंद्र पुत्र व् श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व् रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 1/5 बहग वासी डलना (13//25)
45	13//5	निजी	कृषि	0.3996	कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/4 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/8 भाग रघवीर सिंह , बाबूलाल , छोटे लाल ,

					ईश्वर सिंह , राजेंद्र सिंह पुत्र रामसिंघ पुत्र गणपत हर पैघ समभाग 1/4 भाग विकास , विशाल पुत्र महेन्द्र सिंह उमरौ सिंह हर दो समभाग 11/8270 भाग राजेश सिंह , रेखा पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपाल सिंह हर दो समभाग 1/27 भाग राजबीर सिंह लाला राम पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 17/540 भाग अशोक कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारीलाल कॉम अहीर 1/270 भाग प्रेम बाई , पाना बाई लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर तीन समभाग 29/540 भाग वीरेंदर सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नित्य नन्द 1/24 भाग महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/40 भाग वासिदेह श्रीमती अरुणा भर्ती पत्नी बरह्मप्रकश पुत्र मातादीन 1/20 भाग वासी अमंदि अटेली रवि , रजत पुत्र वे पूनम विधवा सुरेंदर सिंह पुत्र उमराव सिंह हर तीन समभाग 1/24 भाग वासी डलना (13//5)
46	13//6	निजी	कृषि	0.3389	वीरेंदर सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नीता नन्द 1/2 भाग वासी डलना रवि , रजत पुत्र व् पूनम विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र उमरौ सिंह हर तीन समभाग 1/2 भाग वासी डलाना (13//6)
47	13//7	निजी	कृषि	0.1062	कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/4 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/8 भाग रघवीर सिंह , बाबूलाल , छोटे लाल , ईश्वर सिंह , राजेंद्र सिंह पुत्र रामसिंघ पुत्र गणपत हर पैघ समभाग 1/4 भाग विकास , विशाल पुत्र महेन्द्र सिंह उमरौ सिंह हर दो समभाग 11/8270 भाग राजेश सिंह , रेखा पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपाल सिंह हर दो समभाग 1/27 भाग राजबीर सिंह लाला राम पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 17/540 भाग अशोक कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारीलाल कॉम अहीर 1/270 भाग प्रेम बाई , पाना बाई लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर तीन समभाग 29/540 भाग वीरेंदर सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नित्य नन्द

					1/24 भाग महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/40 भाग वासिदेह श्रीमती अरुणा भर्ती पत्नी बरह्मप्रकश पुत्र मातादीन 1/20 भाग वासी अमंदि अटेली रवि , रजत पुत्र वे पूनम विधवा सुरेंदर सिंह पुत्र उमराव सिंह हर तीन समभाग 1/24 भाग वासी डलना (13//7)
48	16//13	निजी	कृषि	0.1442	उमरौ सिंह पुत्र नीता नन्द पुत्र किशन लाल 1/2 भाग वासिदेह अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल 1/4 भाग वासी डलना (16//13)
49	16//14	निजी	कृषि	0.2479	उमरौ सिंह पुत्र नीता नन्द पुत्र किशन लाल 1/2 भाग वासिदेह अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल 1/4 भाग वासी डलना (16//14)
50	16//17	निजी	कृषि	0.2175	श्रीमती सुशीला पुत्री रामनिवास पुत्र रघुबीर 1/24 भाग वासी खत्रीपुर जसवंत सिंह , जगराम , जगबीर सिंह पुत्र मम चाँद पुत्र किशन लाल हर तीन समभाग 1/34 भाग वासी खत्रीपुर वीम सिंह हर ध्यान सिंह पुत्र रामावतार पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 1/34 भाग वासी खत्रीपुर बिमला , मंजू पुत्री रामनिवास हर दो समभाग 5/204 भाग वासी खत्रीपुर हेतराम पुत्र बलबीर सिंह पुत्र मोतीराम 55/1224 भाग पृथ्वी सिंह पुत्र रघुबीर सिंह पुत्र नेट राम 379/1224 भाग वासिदेह श्रीमती अंजू देवी पत्नी नरेंद्र कुमार पुत्र याद राम 25/1224 भाग वासी डलना सूरत सिंह पुत्र घीसा राम पुत्र नेट राम 1/4 भाग वासी दिनलना सत्यवान पुत्र घीसा राम पुत्र नेट राम 133/612 बहग वासी दुंलाना श्रीमती सरोजा देवी पत्नी सूरत सिंह पुत्र घीसा राम 5/153 भाग वासिदेह

					(16//17)
51	16//18	निजी	कृषि	0.2276	बशेसर, अमर सिंह पुत्र विशम्बर पुत्र हरदयाल हर दो समभाग 1/9 भाग वासी डलना राधेश्याम, राजेंद्र पुत्र व् मेवा विधवा प्यारे लाल पुत्र विशम्बर पुत्र हरदयाल हर तीन समभाग 1/18 भाग वासिदेह रामचंद्र, रामबिलास पुत्र लीला राम पुत्र झूठा राम हर दो समभाग 1/4 भाग वासी डलना हेतराम पुत्र बलबीर पुत्र मोती राम 7/2 भाग वासी डलना (16//18)
52	16//23/1	निजी	कृषि	0.0607	बशेसर, अमर सिंह पुत्र विशम्बर पुत्र हरदयाल हर दो समभाग 1/9 भाग वासी डलना राधेश्याम, राजेंद्र पुत्र व् मेवा विधवा प्यारे लाल पुत्र विशम्बर पुत्र हरदयाल हर तीन समभाग 1/18 भाग वासिदेह रामचंद्र, रामबिलास पुत्र लीला राम पुत्र झूठा राम हर दो समभाग 1/4 भाग वासी डलना हेतराम पुत्र बलबीर पुत्र मोती राम 7/2 भाग वासी डलना (16//23/1)
53	16//23/2	निजी	कृषि	0.2428	रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम, राम चंद्र, रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम रामानंद रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम कैलाश चाँद रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम मुरारी लाल पुत्र व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम श्रीमती संतरा रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम कृष्णा बाई पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम चन्दगी देवी विधवा चुनना पुत्र मंगतू हर सात समभाग 7/70 भाग वासी नुनी कला रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम मदन लाल रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम अशोक कुमार पुत्र रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम श्रीमतीसंतो बाई रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम आशा बाई पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम शमत कमला देवी विधवा जगदीश पुत्र

					चुनना हर पांच समभाग 1/10 भाग वासी नुनीकला रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम सुभाष पुत्र व रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम माया पुत्री रामऔवतार पुत्र चुनी लाल हर दो समभाग 1/10 भाग रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम राधे श्याम रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम सुरेश पुत्रव् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम बिंदिया पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम दुर्गा पत्नी बसंत लाल चुनना हर चार समभाग 1/10 भाग वासिदेह (16//23/2)
54	16//24/1	निजी	कृषि	0.1416	श्रीमती सुशीला पुत्री रामनिवास पुत्र रघुबीर 1/24 भाग वासी खत्रीपुर जसवंत सिंह , जगराम , जगबीर सिंह पुत्र मम चाँद पुत्र किशन लाल हर तीन समभाग 1/34 भाग वासी खत्रीपुर बीम सिंह हर ध्यान सिंह पुत्र रामावतार पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 1/34 भाग वासी खत्रीपुर ब्रिमला , मंजू पुत्री रामनिवास हर दो समभाग 5/204 भाग वासी खत्रीपुर हेतराम पुत्र बलबीर सिंह पुत्र मोतीराम 55/1224 भाग पृथ्वी सिंह पुत्र रघुबीर सिंह पुत्र नेट राम 379/1224 भाग वासिदेह श्रीमती अंजू देवी पत्नी नरेंद्र कुमार पुत्र याद राम 25/1224 भाग वासी डलना सूरत सिंह पुत्र घीसा राम पुत्र नेट राम 1/4 भाग वासी दिनलना सत्यवान पुत्र घीसा राम पुत्र नेट राम 133/612 बहग वासी दुंलाना श्रीमती सरोजा देवी पत्नी सूरत सिंह पुत्र घीसा राम 5/153 भाग वासिदेह (16//24/1)
55	16//3	निजी	कृषि	0.0101	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश

					पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेन्द्र नरेंद्र पुत्र व् श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व् रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 1/5 बहग वासी डलना (16//3)
56	16//4	निजी	कृषि	0.3971	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेन्द्र नरेंद्र पुत्र व् श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व् रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 1/5 बहग वासी डलना (16//4)
57	16//5	निजी	कृषि	0.0354	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेन्द्र नरेंद्र पुत्र व् श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन

					सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 1/5 बहग वासी डलना (16//5)
58	16//7/1	निजी	कृषि	0.1315	सुरेश , नरेश पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन लाल हर दो समभाग 2/5 भाग वासी डलना श्रीमती अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर दो समभाग 1/0 भाग वासी डलना श्रीमती रामदेई माँ गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 2401/174420 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह 15041/174420 भाग वादी डलना शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह पुत्र किशन पल 1/261630 भाग वासी डलना देवेन्द्र नरेंद्र पुत्र व श्रीमती अनीता पत्नी शमशेर सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 10465/52326 भाग वासी डलना प्रदुमन सिंह , अभिमन्यु यादव पुत्र व रचना पुत्री राजेंद्र सिंह पुत्र जयपाल सिंह हर तीन समभाग 1/5 बहग वासी डलना (16//7/1)
59	16//7/2	निजी	कृषि	0.2326	उमरौ सिंह पुत्र नीता नन्द पुत्र किशन लाल 1/2 भाग वासिदेह अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल 1/4 भाग वासी डलना (16//7/2)
60	16//8	निजी	कृषि	0.0759	उमरौ सिंह पुत्र नीता नन्द पुत्र किशन लाल 1/2 भाग वासिदेह अनीता कुमारी , सुनीता पुत्री गजराज सिंह पुत्र जयपाल हर दो समभाग 1/4 भाग वासी डलना राकेश पुत्र गजराज सिंह पुत्र जयपाल 1/4 भाग वासी डलना (16//8)
61	168	निजी	रास्ता	0.0253	नगर पंचायत (168)
62	170	सरकारी	रास्ता	0.0253	नगर पंचायत (170)
63	2//14	निजी	कृषि	0.0025	सीता राम , सत्य नारायण पुत्र भात्री

					सहाय पुत्र दिलसुख हर दो समभाग वासी डलना (2//14)
64	2//16	निजी	कृषि	0.2656	रघवीर सिंह बाबूलाल, छोटे, ईश्वर, राजेंद्र पुत्र श्रीमती रेशम, कृष्ण आन्तरा बाई पुत्री श्रीमती सहयो बाई राम सिंह पुत्र हर नो समभाग हिस्सेदारन तबादला दाहिन्द्रां विकास, विशाल पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र उमा राव हर दो समभाग वासी डलना तबादलों गरिन्द्रां (2//16)
65	2//25/1	निजी	कृषि	0.06576	बबलाल पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 59/1012 भाग वासिदेह सगर सिंह पुत्र बिहारी लाल पुत्र राम दयाल 5/204 भाग वासी गुवानी श्री राम पुत्र राम सिंह पुत्र घीसा राम 4/51 भाग वासी गुवानी अजयपाल, श्योराज पुत्र व् श्रीमती अनीता पुत्री व् श्रीमती किरोस देवी विधवा लख्मी चाँद पुत्र रामदूत हर चार समभाग 1/68 भाग वासी गुवानी अशोक कुमार पुत्र श्रे सिंह पुत्र बिहारी लाल 1/30 भाग गुवानी राम कुमार पुत्र राम चंद्र पुत्र खुबा राम 1/136 भाग वासिदेह श्रीमती सावित्री देवी पत्नी लाल चाँद पुत्र रामचंद्र 1/136 भाग वासी गुवानिसटायपाल पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारी लाल 1/51 भाग वासी गुवानी शीशपाल पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारी लाल 27/1360 भाग वासी गुवानी रेखा पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/680 भाग बिहारी लाल पुत्र रामदयाल पुत्र 1/102 भाग श्रीमती पन्ना बाई प्रेम बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 13147/1352180 भाग लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह 673/131920 भाग संजय कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र राम कुमार 1/408 भाग श्रीमती सावित्री देवी पत्नी लाल चाँद राम चंद्र 1/136 भाग श्रीमती . पुष्प देवी पत्नी राण सिंह राम कुमार 1/408 भाग वासिदेह भूपेंद्र सिंह पुत्र कृष्ण कुमार 1/408 भाग वासी गुवानी श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी महेंद्र सिंगभ, मोहन

				<p>लाल 39/3977 भाग रघबीर सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत 103/2040 भाग ईश्वर पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 1339/40120 भाग कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 29035/811308 भाग दीपक सिंह पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह 397/7954 भाग वासिदेह श्रीमती कविता देवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र कनै राम 400/3977 भाग वासी ग्राम परता पुर वासी. टी. बहरोड़ श्रीमती राजेश देवी पत्नी सतीश कुमार पुत्र कनै राम 400/3977 भाग वासी ग्राम परता पुर वासी. टी. बहरोड़ छोटे लाल पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 42923/1622616 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कवर पाल पुत्र भारत सिंह 80/3977 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी महेंद्र पुत्र मोहन सिंह 40/3977 भाग वासिदेह श्रीमती कैलाश देवी पत्नी देशराज पुत्र याद राम 181/3977 भाग वासी गुवानी राजेंद्र पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 368831/8113080 भाग कुलदीप सिंह पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह 277/7954 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कवरपाल पुत्र भारत सिंह 80/3977 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 481/31816 भाग महेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह 2729/31816 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सतयपाल पुत्र मायचंद 2/3977 भाग वासिदेह (2/25/1)</p>	
66	2/25/2	निजी	कृषि	0.0531	<p>कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/4 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/8 भाग रघबीर सिंह, बाबूलाल, छोटे लाल, ईश्वर सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र रामसिंह पुत्र गणपत हर पैघ समभाग 1/4 भाग विकास , विशाल पुत्र महेंद्र सिंह उमरौ सिंह हर दो समभाग 11/8270 भाग राजेश सिंह, रेखा पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपाल सिंह हर दो समभाग 1/27 भाग राजबीर सिंह लाला राम पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 17/540 भाग अशोक</p>

					<p>कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारीलाल कॉम अहीर 1/270 भाग प्रेम बाई , पाना बाई लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर तीन समभाग 29/540 भाग वीरेंद्र सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नित्य नन्द 1/24 भाग महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/40 भाग वासिदेह श्रीमती अरुणा भर्ती पत्नी बरह्मप्रकश पुत्र मातादीन 1/20 भाग वासी अमंदि अटेली रवि , रजत पुत्र वे पूनम विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र उमराव सिंह हर तीन समभाग 1/24 भाग वासी डलना (2/25/2)</p>
67	3/20/2	निजी	कृषि	0.2074	<p>बबलाल पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 59/1012 भाग वासिदेह सगर सिंह पुत्र बिहारी लाल पुत्र राम दयाल 5/204 भाग वासी गुवानी श्री राम पुत्र राम सिंह पुत्र घीसा राम 4/51 भाग वासी गुवानी अजयपाल , श्योराज पुत्र व् श्रीमती अनीता पुत्री व् श्रीमती किरोस देवी विधवा लख्मी चाँद पुत्र रामदूत हर चार समभाग 1/68 भाग वासी गुवानी अशोक कुमार पुत्र श्रे सिंह पुत्र बिहारी लाल 1/30 भाग गुवानी राम कुमार पुत्र राम चंद्र पुत्र खुबा राम 1/136 भाग वासिदेह श्रीमती सावित्री देवी पत्नी लाल चाँद पुत्र रामचंद्र 1/136 भाग वासी गुवानिसटायपाल पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारी लाल 1/51 भाग वासी गुवानी शीशपाल पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारी लाल 27/1360 भाग वासी गुवानी रेखा पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/680 भाग बिहारी लाल पुत्र रामदयाल पुत्र 1/102 भाग श्रीमती पन्ना बाई प्रेम बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 13147/1352180 भाग लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह 673/131920 भाग संजय कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र राम कुमार 1/408 भाग श्रीमती सावित्री देवी पत्नी लाल चाँद राम चंद्र 1/136 भाग श्रीमती . पुष्प देवी पत्नी राण सिंह राम कुमार 1/408 भाग वासिदेह भूपेंद्र सिंह पुत्र कृष्ण कुमार</p>

				<p>1/408 भाग वासी गुवानी श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी महेंद्र सिंगभ , मोहन लाल 39/3977 भाग रघवीर सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत 103/2040 भाग ईश्वर पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 1339/40120 भाग कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 29035/811308 भाग दीपक सिंह पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह 397/7954 भाग वासिदेह श्रीमती कविता देवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र कनै राम 400/3977 भाग वासी ग्राम परता पुर वासी. टी. बहरोड़ श्रीमती राजेश देवी पत्नी सतीश कुमार पुत्र कनै राम 400/3977 भाग वासी ग्राम परता पुर वासी. टी. बहरोड़ छोटे लाल पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 42923/1622616 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कवर पाल पुत्र भारत सिंह 80/3977 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी महेंद्र पुत्र मोहन सिंह 40/3977 भाग वासिदेह श्रीमती कैलाश देवी पत्नी देशराज पुत्र याद राम 181/3977 भाग वासी गुवानी राजेंद्र पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 368831/8113080 भाग कुलदीप सिंह पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह 277/7954 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कवरपाल पुत्र भारत सिंह 80/3977 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 481/31816 भाग महेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह 2729/31816 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सतयपाल पुत्र मायचंद 2/3977 भाग वासिदेह (3//20/2)</p>	
68	3//21/1	निजी	कृषि	0.0809	<p>बबलाल पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 59/1012 भाग वासिदेह सगर सिंह पुत्र बिहारी लाल पुत्र राम दयाल 5/204 भाग वासी गुवानी श्री राम पुत्र राम सिंह पुत्र घीसा राम 4/51 भाग वासी गुवानी अजयपाल , श्योराज पुत्र व् श्रीमती अनीता पुत्री व् श्रीमती किरोस देवी विधवा लख्मी चाँद पुत्र रामदूत हर चार समभाग 1/68 भाग वासी गुवानी अशोक कुमार पुत्र श्वे सिंह पुत्र बिहारी लाल 1/30</p>

					<p>भाग गुवानी राम कुमार पुत्र राम चंद्र पुत्र खुबा राम 1/136 भाग वासिदेह श्रीमती सावित्री देवी पत्नी लाल चाँद पुत्र रामचंद्र 1/136 भाग वासी गुवानिसटायपाल पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारी लाल 1/51 भाग वासी गुवानी शीशपाल पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारी लाल 27/1360 भाग वासी गुवानी रेखा पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/680 भाग बिहारी लाल पुत्र रामदयाल पुत्र 1/102 भाग श्रीमती पन्ना बाई प्रेम बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 13147/1352180 भाग लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह 673/131920 भाग संजय कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह पुत्र राम कुमार 1/408 भाग श्रीमती सावित्री देवी पत्नी लाल चाँद राम चंद्र 1/136 भाग श्रीमती . पुष्प देवी पत्नी राण सिंह राम कुमार 1/408 भाग वासिदेह भूपेंद्र सिंह पुत्र कृष्ण कुमार 1/408 भाग वासी गुवानी श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी महेंद्र सिंगभ , मोहन लाल 39/3977 भाग रघबीर सिंह पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत 103/2040 भाग ईश्वर पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 1339/40120 भाग कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 29035/811308 भाग दीपक सिंह पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह 397/7954 भाग वासिदेह श्रीमती कविता देवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र कनै राम 400/3977 भाग वासी ग्राम परता पुर वासी. टी. बहरोड़ श्रीमती राजेश देवी पत्नी सतीश कुमार पुत्र कनै राम 400/3977 भाग वासी ग्राम परता पुर वासी. टी. बहरोड़ छोटे लाल पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 42923/1622616 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कवर पाल पुत्र भारत सिंह 80/3977 भाग श्रीमती शकुंतला पत्नी महेंद्र पुत्र मोहन सिंह 40/3977 भाग वासिदेह श्रीमती कैलाश देवी पत्नी देशराज पुत्र याद राम 181/3977 भाग वासी गुवानी राजेंद्र पुत्र राम सिंह पुत्र गणपत सिंह 368831/8113080 भाग कुलदीप सिंह</p>
--	--	--	--	--	---

					पुत्र कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह 277/7954 भाग श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कवरपाल पुत्र भारत सिंह 80/3977 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 481/31816 भाग महेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह 2729/31816 भाग श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सतयपाल पुत्र मायचंद 2/3977 भाग वासिदेह (3/21/1)
69	3/21/2	निजी	कृषि	0.0051	कवरपाल पुत्र भारत सिंह पुत्र भारत सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/4 भाग कृष्ण सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 1/8 भाग रघवीर सिंह, बाबूलाल, छोटे लाल, ईश्वर सिंह, राजेंद्र सिंह पुत्र रामसिंघ पुत्र गणपत हर पैघ समभाग 1/4 भाग विकास , विशाल पुत्र महेंद्र सिंह उमरौ सिंह हर दो समभाग 11/8270 भाग राजेश सिंह, रेखा पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपाल सिंह हर दो समभाग 1/27 भाग राजवीर सिंह लाला राम पुत्र जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर दो समभाग 17/540 भाग अशोक कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र बिहारीलाल कॉम अहीर 1/270 भाग प्रेम बाई, पाना बाई लाली बाई पुत्री जगमाल सिंह पुत्र गणपत सिंह हर तीन समभाग 29/540 भाग वीरेंद्र सिंह पुत्र उमरौ सिंह पुत्र नित्य नन्द 1/24 भाग महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह 3/40 भाग वासिदेह श्रीमती अरुणा भर्ती पत्नी बरह्मप्रकश पुत्र मातादीन 1/20 भाग वासी अमंदि अटेली रवि, रजत पुत्र वे पूनम विधवा सुरेंद्र सिंह पुत्र उमराव सिंह हर तीन समभाग 1/24 भाग वासी डलना (3/21/2)
70	31/13	निजी	कृषि	0.0911	श्रीमती राम कला पत्नी कवर सिंह पुत्र सरदार सिंह 373/4432 भाग अभय सिंह शमशेर सिंह पुत्र मनोहर लाल पुत्र हर दो समभाग 721/4432 भाग श्रीमती सुशीला देवी विधवा शेर सिंह पुत्र सरदार सिंह 17/554 भाग श्रीमती तारा देवी पत्नी मनोहर लाल पुत्र नित्यानंद 333/4432 भाग अशोक कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र सरदार सिंह 139/2216 भाग परवीन

					कुमार पुत्र शेर सिंह पुत्र सरदार सिंह 83/2216 भाग जयप्रकश पुत्र कवर सिंह पुत्र सरदार सिंह 59/1108 कवर सिंह पुत्र सरदार सिंह पुत्र नित्यानंद 23/1108 भाग वासिदेह राम मेहर सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र मदु 373/2216 भाग वासी सलग की धनि गुडगाँव सुभग ओम प्रकाश देशराज पुत्र फ़तेह सिंह उर्फ़ लाल सिंह पुत्र सरदार सिंह हर तीन समभाग 1351/4432 भाग वासिदेह (31//13)
71	31//3	निजी	कृषि	0.3845	रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम , राम चंद्र , रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम रामानंद रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम कैलाश चाँद रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम मुरारी लाल पुत्र व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम श्रीमती संतरा रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम कृष्णा बाई पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम चन्दगी देवी विधवा चुनना पुत्र मंगतू हर सात समभाग 7/70 भाग वासी नुनी कला रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम मदन लाल रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम अशोक कुमार पुत्र रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम श्रीमतीसंतो बाई रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम आशा बाई पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम शमत कमला देवी विधवा जगदीश पुत्र चुनना हर पांच समभाग 1/10 भाग वासी नुनीकला रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम सुभाष पुत्र व् रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम माया पुत्री रामऔवतार पुत्र चुनी लाल हर दो समभाग 1/10 भाग रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम राधे श्याम रामचंद्र जी महाराज वका नुनीकला बा अहतमाम सुरेश पुत्रव् रामचंद्र जी महाराज वका

					तुनीकला बा अहतमाम बिंदिया पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम दुर्गा पत्नी बसंत लाल चुनना हर चार समभाग 1/10 भाग वासिदेह (31//3)
72	31//4/1	निजी	कृषि	0.0658	रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम , राम चंद्र , रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम रामानंद रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम कैलाश चाँद रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम मुरारी लाल पुत्र व् रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम श्रीमती संतरा रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम कृष्णा बाई पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम चन्दगी देवी विधवा चुनना पुत्र मंगतू हर सात समभाग 7/70 भाग वासी तुनी कला रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम मदन लाल रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम अशोक कुमार पुत्र रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम श्रीमतीसंतो बाई रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम आशा बाई पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम शमत कमला देवी विधवा जगदीश पुत्र चुनना हर पांच समभाग 1/10 भाग वासी तुनीकला रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम सुभाष पुत्र व् रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम माया पुत्री रामऔवतार पुत्र चुनी लाल हर दो समभाग 1/10 भाग रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम राधे श्याम रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम सुरेश पुत्रव् रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम बिंदिया पुत्री व् रामचंद्र जी महाराज वका तुनीकला बा अहतमाम दुर्गा पत्नी बसंत लाल चुनना हर चार समभाग 1/10 भाग वासिदेह (31//4/1)
73	31//7/2	निजी	कृषि	0.0051	नगर पंचायत

					(31/7/2)
74	31//8	निजी	कृषि	0.3111	नगर पंचायत (31//8)
75	49	निजी	रास्ता	0.0531	नगर पंचायत (49)
			कुल	77.3717	

[फा. सं. EC08/07/GF/3a2/3D7]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 721(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 3701(E) dated 27.07.2018 and S.O. 5093(E) dated 01.10.2018, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/paved shoulder with four laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield alignment Km. 180 to Km. 230 in the district of Mahendragarh in the State of Haryana;

And whereas the substance of the said notification S.O. 3701(E) dated 27.07.2018, has been published in the “Times of India” and “Hari Bhoomi” both dated 07.08.2018; and whereas the substance of the notification S.O. 5093(E) dated 01.10.2018, has been published in “The Tribune” and “Hari Bhoomi” both dated 23.10.2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield alignment of Ismailabad (Gangheri) – Narnaul national highway in the stretch of land from Km. 180 to Km. 230 in the district of Mahendragarh in the State of Haryana.

State: HARYANA		District: Mahendragarh			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ateli					
Viilage: Atali					
1	13//1	Private	Agriculture	0.0923	Jasvant Singh , Virendra , Dayaram , Mukesh S/O & Ramrati , Bhagvani D/O Har Chh Sambhag 1/2 Bhag Hissedaran Thavar Singh S/O 1/2 Bhag Vasideh Hissedar 13//1
2	13//10	Private	Agriculture	0.034	Jasvant Singh , Virendra , Dayaram , Mukesh S/O & Ramrati , Bhagvani D/O Har Chh Sambhag 1/2 Bhag Hissedaran Thavar Singh S/O 1/2 Bhag Vasideh Hissedar 13//10
3	13//11/1	Private	Agriculture	0.0024	Ramsajan , Ram Singh , Maduram S/O Meharchand S/O Kishan Har Teen Sambhag Vasideh 13//11/1
4	14//14	Private	Agriculture	0.0413	Ramsajan , Ram Singh , Maduram S/O Meharchand S/O Kishan Har Teen Sambhag Vasideh 14//14
5	14//15	Private	Agriculture	0.3571	Ramsajan , Ram Singh , Maduram S/O Meharchand S/O Kishan Har Teen Sambhag Vasideh 14//15
6	14//16	Private	Agriculture	0.3255	Sube Singh Urf Shivilal S/O Buddha S/O Harnu 494/1875 Bhag Rampartap S/O Dataram S/O Harnu 48/125 Bhag Vinay Kumar S/O Digaram S/O Shayolal 19/375 Bhag Virendra Singh Ramniwas S/O Sumer Singh S/O Shayolal Har 3 Sambhag 16/625 Bhag Abhay Singh , Satish Kumar S/O Phool Singh S/O Maan Singh Har Do Sambhag 47/375 Bhag Mahendra Singh S/O Rajendra Singh S/O Hardayal 41/1875 Bhag Vikash, Vipin S/O Satbeer Singh S/O Hardayal Singh Har Do Sambhag 82/1875 Bhag Ashok Kumar Vedparkash , Sunil Kumar S/O & Premlata D/O & Smt. Samakaur Wd/O Shobharam Har Panch Sambhag 16/375 Bhag Atar Singh S/O Fateh Singh S/O Ji Sukh 16/375 Bhag

					Vasideh 14//16
7	14//17	Private	Agriculture	0.0923	Smt. Krishna Devi Wd/O Hari Singh S/O Budha 29/140 Bhag Kuldeep S/O Heera Singh S/O Budha 111/140 Bhag Vasideh 14//17
8	14//24/1	Private	Agriculture	0.0656	Smt. Krishna Devi Wd/O Hari Singh S/O Budha 29/140 Bhag Kuldeep S/O Heera Singh S/O Budha 111/140 Bhag Vasideh 14//24/1
9	14//24/2	Private	Agriculture	0.0777	Dileep Singh , Jai Dayal Singh , Om Parkash , Rameshchand S/O Ganpat S/O Kurda Har Chaar Sambhag Vasideh 14//24/2
10	14//25	Private	Agriculture	0.2769	Sube Singh Urf Shivilal S/O Budha S/O Harnu 494/1875 Bhag Rampartap S/O Dataram S/O Harnu 48/125 Bhag Vinay Kumar S/O Digaram S/O Shayolal 19/375 Bhag Virendra Singh Ramniwas S/O Sumer Singh S/O Shayolal Har 3 Sambhag 16/625 Bhag Abhay Singh , Satish Kumar S/O Phool Singh S/O Maan Singh Har Do Sambhag 47/375 Bhag Mahendra Singh S/O Rajendra Singh S/O Hardayal 41/1875 Bhag Vikash, Vipin S/O Satbeer Singh S/O Hardayal Singh Har Do Sambhag 82/1875 Bhag Ashok Kumar Vedparkash , Sunil Kumar S/O & Premlata D/O & Smt. Samakaur Wd/O Shobharam Har Panch Sambhag 16/375 Bhag Atar Singh S/O Fateh Singh S/O Ji Sukh 16/375 Bhag Vasideh 14//25
11	14//5/1	Private	Agriculture	0.1263	Roshanlal , Lala Ram , Ram Bharosh S/O Hetram S/O Kashi Ram Har Teen Sambhag 160/703 Bhag Ishar S/O Arjun S/O Kishan 398/703 Bhag , Kailash , Dharambeer Ashok S/O Chandrabhan S/O Thavar Singh Har Teen Sambhag 435/2812 Bhag Devendra Singh S/O Nihal Singh S/O Thavar Singh 145/2812 Bhag Vasideh 14//5/1
12	14//5/2	Private	Agriculture	0.2016	Smt. Ramrati D/O & Smt. Bhagvani Wd/O Hari Singh S/O Parlad Har Do Sambhag 5/144 Bhag Thavar Singh S/O Parlahad S/O Sethu 5/48 Bhag Smt. Basanti , Chheema D/O Sethu S/O Begraj Har Do Sambhag 1/6 Bhag Sukrmpaal , Mahesh Kumar , Suresh Kumar S/O Thavar Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 65/576 Bhag Jaswant Singh Birendra, Daya Ram ,

					Mukesh S/O Hari Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 95/576 Bhag Deendayal , Hansraj , Dharampaal S/O Adisaal S/O Sedi Har Teen Sambhag Vasideh 14/5/2
13	14//6/1	Private	Agriculture	0.2235	Roshanlal , Lala Ram , Ram Bharosh S/O Hetram S/O Kashi Ram Har Teen Sambhag 160/703 Bhag Ishar S/O Arjun S/O Kishan 398/703 Bhag , Kailash , Dharambeer Ashok S/O Chandrabhan S/O Thavar Singh Har Teen Sambhag 435/2812 Bhag Devendra Singn S/O Nihal Singh S/O Thavar Singh 145/2812 Bhag Vasideh 14//6/1
14	14//6/2	Private	Agriculture	0.0923	Ramsajan , Ram Singh , Maduram S/O Meharchand S/O Kishan Har Teen Sambhag Vasideh 14//6/2
15	14//7	Private	Agriculture	0.0049	Ramsajan , Ram Singh , Maduram S/O Meharchand S/O Kishan Har Teen Sambhag Vasideh 14//7
16	19//14	Private	Agriculture	0.2964	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19//14
17	19//15	Private	Agriculture	0.1263	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19//15
18	19//16	Private	Agriculture	0.0729	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19//16
19	19//17/1	Private	Agriculture	0.1849	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19//17/1
20	19//17/2	Private	Agriculture	0.0437	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19//17/2
21	19//23	Private	Agriculture	0.0073	Tezpal , Udaypal, Shri Paal S/O Chhatrpaal S/O Muliya Har Teen

					Sambhag 1/2 Bhag Kavar Paal Sukhpaaal S/O Teet Paal S/O Muliya Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 19//23
22	19//24/1	Private	Agriculture	0.1263	Tezpal , Udaypal, Shri Paal S/O Chhatrpaal S/O Muliya Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Kavar Paal Sukhpaaal S/O Teet Paal S/O Muliya Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 19//24/1
23	19//24/2/2	Private	Agriculture	0.2089	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19//24/2
24	19//25	Private	Agriculture	0.0243	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19//25
25	19//4	Private	Agriculture	0.1943	Sube Singh Urf Shivilal S/O Budha S/O Harnu 494/1875 Bhag Rampartap S/O Dataram S/O Harnu 48/125 Bhag Vinay Kumar S/O Digaram S/O Shayolal 19/375 Bhag Virendra Singh Ramniwas S/O Sumer Singh S/O Shayolal Har 3 Sambhag 16/625 Bhag Abhay Singh , Satish Kumar S/O Phool Singh S/O Maan Singh Har Do Sambhag 47/375 Bhag Mahendra Singh S/O Rajendra Singh S/O Hardayal 41/1875 Bhag Vikash, Vipin S/O Satbeer Singh S/O Hardayal Singh Har Do Sambhag 82/1875 Bhag Ashok Kumar Vedparkash , Sunil Kumar S/O & Premlata D/O & Smt. Samakaur Wd/O Shobharam Har Panch Sambhag 16/375 Bhag Atar Singh S/O Fateh Singh S/O Ji Sukh 16/375 Bhag Vasideh 19//4
26	19//5	Private	Agriculture	0.2284	Sube Singh Urf Shivilal S/O Budha S/O Harnu 494/1875 Bhag Rampartap S/O Dataram S/O Harnu 48/125 Bhag Vinay Kumar S/O Digaram S/O Shayolal 19/375 Bhag Virendra Singh Ramniwas S/O Sumer Singh S/O Shayolal Har 3 Sambhag 16/625 Bhag Abhay Singh , Satish Kumar S/O Phool Singh S/O Maan Singh Har Do Sambhag 47/375 Bhag Mahendra Singh S/O Rajendra Singh S/O Hardayal 41/1875 Bhag Vikash, Vipin S/O Satbeer Singh S/O Hardayal Singh Har Do Sambhag 82/1875 Bhag Ashok Kumar Vedparkash , Sunil Kumar S/O & Premlata D/O & Smt. Samakaur

					Wd/O Shobharam Har Panch Sambhag 16/375 Bhag Atar Singh S/O Fateh Singh S/O Ji Sukh 16/375 Bhag Vasideh 19/5
27	19/6	Private	Agriculture	0.1798	Lakshminarayan S/O Bohtram S/O Jairam 1/5 Bhag Partap Singh Rajendra Singh Bharat Singh Surendra S/O Lakshmi Narayan S/O Bohatram Har Char Sambhag 4/5 Bhag Vasideh 19/6
28	19/7	Private	Agriculture	0.2478	Sube Singh Urf Shivilal S/O Budha S/O Harnu 494/1875 Bhag Rampartap S/O Dataram S/O Harnu 48/125 Bhag Vinay Kumar S/O Digaram S/O Shayolal 19/375 Bhag Virendra Singh Ramniwas S/O Sumer Singh S/O Shayolal Har 3 Sambhag 16/625 Bhag Abhay Singh , Satish Kumar S/O Phool Singh S/O Maan Singh Har Do Sambhag 47/375 Bhag Mahendra Singh S/O Rajendra Sinhg S/O Hardayal 41/1875 Bhag Vikash, Vipin S/O Satbeer Singh S/O Hardayal Singh Har Do Sambhag 82/1875 Bhag Ashok Kumar Vedparkash , Sunil Kumar S/O & Premlata D/O & Smt. Samakaur Wd/O Shobharam Har Panch Sambhag 16/375 Bhag Atar Singh S/O Fateh Singh S/O Ji Sukh 16/375 Bhag Vasideh 19/7
29	232	Government	Rasta	0.0243	Haryana Government 232
30	3//16	Private	Agriculture	0.1555	Smt. Ramrati D/O & Smt. Bhagvani Wd/O Hari Singh S/O Parlad Har Do Sambhag 5/144 Bhag Thavar Singh S/O Parlahad S/O Sethu 5/48 Bhag Smt. Basanti , Chheema D/O Sethu S/O Begraj Har Do Sambhag 1/6 Bhag Sukrmpaal , Mahesh Kumar , Suresh Kumar S/O Thavar Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 65/576 Bhag Jaswant Singh Birendra, Daya Ram , Mukesh S/O Hari Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 95/576 Bhag Deendayal , Hansraj , Dharampaal S/O Adisaal S/O Sedi Har Teen Sambhag Vasideh 3//16
31	3//24	Private	Agriculture	0.0024	Smt. Ramrati D/O & Smt. Bhagvani Wd/O Hari Singh S/O Parlad Har Do Sambhag 5/144 Bhag Thavar Singh S/O Parlahad S/O Sethu 5/48 Bhag Smt. Basanti , Chheema D/O Sethu S/O Begraj Har Do Sambhag 1/6 Bhag Sukrmpaal , Mahesh Kumar , Suresh Kumar S/O Thavar Singh S/O Parlahd

					Har Teen Sambhag 65/576 Bhag Jaswant Singh Birendra, Daya Ram , Mukesh S/O Hari Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 95/576 Bhag Deendayal , Hansraj , Dharampaal S/O Adisaal S/O Sedi Har Teen Sambhag Vasideh 3//24
32	3//25	Private	Agriculture	0.2721	Smt. Ramrati D/O & Smt. Bhagyvani Wd/O Hari Singh S/O Parlahd Har Do Sambhag 5/144 Bhag Thavar Singh S/O Parlahad S/O Sethu 5/48 Bhag Smt. Basanti , Chheema D/O Sethu S/O Begraj Har Do Sambhag 1/6 Bhag Sukrmpaal , Mahesh Kumar , Suresh Kumar S/O Thavar Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 65/576 Bhag Jaswant Singh Birendra, Daya Ram , Mukesh S/O Hari Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 95/576 Bhag Deendayal , Hansraj , Dharampaal S/O Adisaal S/O Sedi Har Teen Sambhag Vasideh 3//25
33	36//13	Private	Agriculture	0.1603	Shayochand S/O Sultan S/O Dhansi 797/3252 Bhag Umesh Devi W/O Rajesh Kumar S/O Shayochand 16/813 Bhag Sukhdev , Tarachand , Satpal S/O Sultan S/O Dhansi Har Teen Sambhag 797/1084 Bhag Vasideh 36//13
34	36//14	Private	Agriculture	0.2672	Ramniwas , Nand Ram , Shree Ram S/O & Smt. Sugna Devi D/O & Smt. Chandrapati Wd/O Gheesaram S/O Ramparsad Har Panch Sambhag 1/3 Bhag Subhash Virendra S/O & Sushila D/O & Bhani Wd/O Shayonath S/O Parsad Har Char Sambhag 1/3 Bhag Satish Kumar S/O & Smt. Bimla D/O & Smt. Santosh Wd/O Lala Ram S/O Prasad Har Teen Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 36//14
35	36//17	Private	Agriculture	0.2138	Ramniwas , Nand Ram , Shree Ram S/O & Smt. Sugna Devi D/O & Smt. Chandrapati Wd/O Gheesaram S/O Ramparsad Har Panch Sambhag 1/3 Bhag Subhash Virendra S/O & Sushila D/O & Bhani Wd/O Shayonath S/O Parsad Har Char Sambhag 1/3 Bhag Satish Kumar S/O & Smt. Bimla D/O & Smt. Santosh Wd/O Lala Ram S/O Prasad Har Teen Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 36//17
36	36//18	Private	Agriculture	0.2089	Shayochand S/O Sultan S/O Dhansi 797/3252 Bhag Umesh Devi W/O Rajesh Kumar S/O Shayochand

					16/813 Bhag Sukhdev , Tarachand , Satpal S/O Sultan S/O Dhansi Har Teen Sambhag 797/1084 Hag Vasideh 36//18
37	36//23	Private	Agriculture	0.2575	Sher Singh S/O Somdutt S/O Bidha S/O Aasha 1/2 Bhag Sumersingh S/O Jagmaal Singh S/ Osomdutt 1/2 Bhag Vasideh 36//23
38	36//24	Private	Agriculture	0.1603	Ramniwas , Nand Ram , Shree Ram S/O & Smt. Sugna Devi D/O & Smt. Chandrapati Wd/O Gheesaram S/O Ramparsad Har Panch Sambhag 1/3 Bhag Subhash Virendra S/O & Sushila D/O & Bhani Wd/O Shayonath S/O Parsad Har Char Sambhag 1/3 Bhag Satish Kumar S/O & Smt. Bimla D/O & Smt. Santosh Wd/O Lala Ram S/O Prasad Har Teen Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 36//24
39	36//3	Private	Agriculture	0.0534	Kurda Ram , Man Phool Singh S/O & Smt. Bhati Devi , Sarti Devi , Bimla D/O Madhu Urf Mahadev Parsad S/O Thakarsi S/O Ram Sahay Har Chh Sambhag Vasideh 36//3
40	36//4	Private	Agriculture	0.3693	Abhay Singh Naresh Kumar S/O Baldev S/O Netram Har Do Sambhag 1/2 Bhag Smt. Ramrati W/O & Suresh S/O Baldev S/O Netram Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Sajjan Singh S/O & Smt. Rajesh, Mukesh, Aasha Devi , Bindu D/O & Smt Chandro Wd/O Rosgan Lal S/O Surjbhan Har Chh Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 36//4
41	36//7	Private	Agriculture	0.3158	Abhay Singh Naresh Kumar S/O Baldev S/O Netram Har Do Sambhag 1/2 Bhag Smt. Ramrati W/O & Suresh S/O Baldev S/O Netram Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Sajjan Singh S/O & Smt. Rajesh, Mukesh, Aasha Devi , Bindu D/O & Smt Chandro Wd/O Rosgan Lal S/O Surjbhan Har Chh Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 36//7
42	36//8	Private	Agriculture	0.1069	Abhay Singh Naresh Kumar S/O Baldev S/O Netram Har Do Sambhag 1/2 Bhag Smt. Ramrati W/O & Suresh S/O Baldev S/O Netram Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Sajjan Singh S/O & Smt. Rajesh, Mukesh, Aasha Devi , Bindu D/O & Smt Chandro Wd/O Rosgan Lal S/O Surjbhan Har Chh Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 36//8

43	4//20	Private	Agriculture	0.1288	Smt. Ramrati D/O & Smt. Bhagvani Wd/O Hari Singh S/O Parlad Har Do Sambhag 5/144 Bhag Thavar Singh S/O Parlahad S/O Sethu 5/48 Bhag Smt. Basanti , Chheema D/O Sethu S/O Begraj Har Do Sambhag 1/6 Bhag Sukrmpaal , Mahesh Kumar , Suresh Kumar S/O Thavar Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 65/576 Bhag Jaswant Singh Birendra, Daya Ram , Mukesh S/O Hari Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 95/576 Bhag Deendayal , Hansraj , Dharampaal S/O Adisaal S/O Sedi Har Teen Sambhag Vasideh 4//20
44	4//21	Private	Agriculture	0.1414	Smt. Ramrati D/O & Smt. Bhagvani Wd/O Hari Singh S/O Parlad Har Do Sambhag 5/144 Bhag Thavar Singh S/O Parlahad S/O Sethu 5/48 Bhag Smt. Basanti , Chheema D/O Sethu S/O Begraj Har Do Sambhag 1/6 Bhag Sukrmpaal , Mahesh Kumar , Suresh Kumar S/O Thavar Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 65/576 Bhag Jaswant Singh Birendra, Daya Ram , Mukesh S/O Hari Singh S/O Parlahd Har Teen Sambhag 95/576 Bhag Deendayal , Hansraj , Dharampaal S/O Adisaal S/O Sedi Har Teen Sambhag Vasideh 4//21
45	40//12	Private	Agriculture	0.0219	Amar Singh S/O & Smt Sumitra Devi Silochna , Kamla , Savitri, Bimla , Suman Devi , Samina Devi D/O& Smt Vidha Wd/O Nand S/O Dhansi Har Nau Sambhag Vasideh 40//12
46	40//13	Private	Agriculture	0.3887	Amar Singh S/O & Smt Sumitra Devi Silochna , Kamla , Savitri, Bimla , Suman Devi , Samina Devi D/O& Smt Vidha Wd/O Nand S/O Dhansi Har Nau Sambhag Vasideh 40//13
47	40//14	Private	Agriculture	0.0146	Mahaveer , Ramniwas , Omparkash S/O & Smt.Kaushalya Maya D/O & Smt. Sharbti Wd/O Hari Singh S/O Har Narayan Har Chh Sambhag Vasideh 40//14
48	40//18	Private	Agriculture	0.3547	Amar Singh S/O & Smt Sumitra Devi Silochna , Kamla , Savitri, Bimla , Suman Devi , Samina Devi D/O& Smt Vidha Wd/O Nand S/O Dhansi Har Nau Sambhag Vasideh 40//18
49	40//19	Private	Agriculture	0.0437	Amar Singh S/O & Smt Sumitra Devi Silochna , Kamla , Savitri, Bimla ,

					Suman Devi , Samina Devi D/O& Smt Vidha Wd/O Nand S/O Dhansi Har Nau Sambhag Vasideh 40//19
50	40//3	Private	Agriculture	0.2672	Sher Singh S/O Somdutt S/O Bidha S/O Aasha 1/2 Bhag Sumersingh S/O Jagmaal Singh S/ Osomdutt 1/2 Bhag Vasideh 40//3
51	40//4	Private	Agriculture	0.1288	Sher Singh S/O Somdutt S/O Bidha S/O Aasha 1/2 Bhag Sumersingh S/O Jagmaal Singh S/ Osomdutt 1/2 Bhag Vasideh 40//4
52	40//7	Private	Agriculture	0.0534	Amar Singh S/O & Smt Sumitra Devi Silochna , Kamla , Savitri, Bimla , Suman Devi , Samina Devi D/O& Smt Vidha Wd/O Nand S/O Dhansi Har Nau Sambhag Vasideh 40//7
53	40//8	Private	Agriculture	0.2559	Amar Singh S/O & Smt Sumitra Devi Silochna , Kamla , Savitri, Bimla , Suman Devi , Samina Devi D/O& Smt Vidha Wd/O Nand S/O Dhansi Har Nau Sambhag Vasideh 40//8
54	65	Government	Rasta	0.0292	Gram panchyat 65
55	76	Private	Rasta	0.0462	Gram panchyat 76
Village: Sagarpur					
56	49//14	Private	Agriculture	0.3136	Niranjanlal S/o Devisahaye S/o Jhabar 1/3 bhag Mulchand, Karmveer S/o Niranjanlal S/o Devisahaye har do Sambhag 2/3 bhag Vasideh 49//14
57	49//15	Private	Agriculture	0.1315	Niranjanlal S/o Devisahaye S/o Jhabar 1/3 bhag Mulchand, Karmveer S/o Niranjanlal S/o Devisahaye har do Sambhag 2/3 bhag Vasideh 49//15
58	49//16	Private	Agriculture	0.0556	Niranjanlal S/o Devisahaye S/o Jhabar 1/3 bhag Mulchand, Karmveer S/o Niranjanlal S/o Devisahaye har do Sambhag 2/3 bhag Vasideh 49//16
59	49//17	Private	Agriculture	0.387	Niranjanlal S/o Devisahaye S/o Jhabar 1/3 bhag Mulchand, Karmveer S/o Niranjanlal S/o Devisahaye har do Sambhag 2/3 bhag Vasideh 49//17
60	49//18	Private	Agriculture	0.0025	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen

					Sambhag 3/4 bhag Vasideh 49//18
61	49//23	Private	Agriculture	0.0607	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen Sambhag 3/4 bhag Vasideh 49//23
62	49//24	Private	Agriculture	0.3819	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen Sambhag 3/4 bhag Vasideh 49//24
63	49//25	Private	Agriculture	0.0025	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen Sambhag 3/4 bhag Vasideh 49//25
64	49//4/1	Private	Agriculture	0.0379	Niranjanlal S/o Devisahaye S/o Jhabar 1/3 bhag Mulchand, Karmveer S/o Niranjanlal S/o Devisahaye har do Sambhag 2/3 bhag Vasideh 49//4/1
65	49//4/2/1	Private	Agriculture	0.0152	Rakesh Kumar S/o Lekhram Dattak S/o Manna 1/8 bhag Rajesh Kumar, Mukash Kumar S/o Lekhram S/o Manna har do Sambhag 125/2228 bhag Vasideh Smt. Neelam W/o Jagat Singh S/o Darayav Singh 343/20052 bhag Basi Basaee Jila Gudgaon Smt. Indara Wd/o Lekhram S/o Manna 125/4456 bhag Smt. Ratta Devi Ramkarn S/o Subhashchand 541/6684 bhag Vasideh Tajram S/o Suratmal Urf Suratbhan S/o Lal Singh 160/1671 bhag Vasi Sikohpur Teh. Manesar Jila Gudgaon Shivcharan, Surender, Devender s/o Rajkumar S/o Lal Singh har teen Sambhag 818/5013 Vashi Sikohpur Teh. Manesar Jila Gudgaon Jagram, Jagveer Singh S/o Mamchand S/o Bishanlal har do Sambhag 160/5013 bhag Vasi Khataripur Harikesh S/o Shyokaran Urf Shyolal S/o Patram 2015/5013 bhag Vasideh 49//4/2/1
66	49//4/2/2	Government	Canal	0.0404688	Rajkeey Madhyamik Vidhyalay 49//4/2/2
67	49//5/1	Government	Canal	0.0329	Rajkeey Madhyamik Vidhyalay 49//5/1
68	49//5/2	Private	Agriculture	0.1669	Mainpal Singh Yasbant Singh S/o Ramsingh S/o Jasram har do Sambhag Vasideh 49//5/2

69	49//6	Private	Agriculture	0.1973	Niranjanlal S/o Devisahaye S/o Jhabar 1/3 bhag Mulchand, Karmveer S/o Niranjanlal S/o Devisahaye har do Sambhag 2/3 bhag Vasideh 49//6
70	49//7	Private	Agriculture	0.2378	Niranjanlal S/o Devisahaye S/o Jhabar 1/3 bhag Mulchand, Karmveer S/o Niranjanlal S/o Devisahaye har do Sambhag 2/3 bhag Vasideh 49//7
71	52//13	Private	Agriculture	0.2883	Dharmpal, Righram S/o Mohanlal S/o Kaluram har do Sambhag Vasideh 52//13
72	52//14	Private	Agriculture	0.1568	Dharmpal, Righram S/o Mohanlal S/o Kaluram har do Sambhag Vasideh 52//14
73	52//17	Private	Agriculture	0.0809	Neetu Devi D/o Motisingh S/o Shersingh 1/36 bhag Tekchand, Dhansingh, Pratap Singh, Shersingh S/o Hareeram har char Sambhag 2/3 bhag Smt. Santosh Wd/o & Renu Devi D/o Moteram S/o Shersingh har do Sambhag 77/3510 bhag Sandeep Kumar S/o Motee singh S/o Shersingh 77/2340 bhag Vasideh Smt. Sumitra Devi W/o Satyapal S/o Ramswarup 10/351 bhag Basi Duloth Jaat Smt. Ompati W/o Singhram S/o Begraj 1/54 bhag Basi Duloth Jaat Bimala W/o Manphul Singh S/o Begraj 1/54 bhag Basi Duloth Jaat Bashanti W/o Laxminarayan S/o Begraj 1/54 bhag Vasi Duloth Jaat Manoj Kumar, Rajpal S/o Harphul Singh S/o Sher Singh har do Sambhag 1/6 bhag Vasideh 52//17
74	52//18	Private	Agriculture	0.3642	Manoj Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag Vasideh 52//18
75	52//22	Private	Agriculture	0.0354	Manoj Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag Vasideh 52//22
76	52//23	Private	Agriculture	0.3971	Manoj Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag Vasideh 52//23
77	52//24	Private	Agriculture	0.0101	Neetu Devi D/o Motisingh S/o Shersingh 1/36 bhag Tekchand, Dhansingh, Pratap Singh, Shersingh S/o Hareeram har char Sambhag 2/3 bhag Smt. Santosh Wd/o & Renu Devi D/o Moteram S/o Shersingh har do Sambhag 77/3510 bhag Sandeep Kumar S/o Motee singh S/o Shersingh 77/2340 bhag Vasideh Smt. Sumitra

					Devi W/o Satyapal S/o Ramswarup 10/351 bhag Basi Duloth Jaat Smt. Ompati W/o Singhram S/o Begraj 1/54 bhag Basi Duloth Jaat Bimala W/o Manphul Singh S/o Begraj 1/54 bhag Basi Duloth Jaat Bashanti W/o Laxminarayan S/o Begraj 1/54 bhag Vasi Duloth Jaat Manoj Kumar, Rajpal S/o Harphul Singh S/o Sher Singh har do Sambhag 1/6 bhag Vasideh 52/24
78	52/3	Private	Agriculture	0.1366	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen Sambhag 3/4 bhag Vasideh 52/3
79	52/4	Private	Agriculture	0.3086	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen Sambhag 3/4 bhag Vasideh 52/4
80	52/7	Private	Agriculture	0.2125	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen Sambhag 3/4 bhag Vasideh 52/7
81	52/8	Private	Agriculture	0.1846	Shyamram Dattak S/o Jotiya S/o Khimanand 1/4 bhag Yashpal Singh, Bheem Singh, Jayprakash S/o Shyamram Dattak S/o Jotiya har teen Sambhag 3/4 bhag Vasideh 52/8
82	61/12	Private	Agriculture	0.263	Jaydayal S/o Netram S/o Ramratan 1/3 bhag pyarelal, Harprasad, Kailash, Ashok S/o & Kamala, Shakuntla, Sabita D/o & Smt. Meva Wd/o Banshi har 8 Sambhag 1/3 bhag Raghuvveer Singh, Rohatas, Pratap, Ramnivas, Randheer Singh S/o Jaynarayan S/o Netram har 5 Sambhag 5/18 bhag Babeeta W/o Kanvar Singh W/o Dulichand 1/18 bhaag Vasideh 61/12
83	61/13	Private	Agriculture	0.1821	Pratap Singh S/o Sher Singh S/o Hareeram 59/2740 bhag Tekchand S/o Hareeram 117/1370 bhag Dhansingh S/o Sher Singh S/o Hareeram 35/548 bhag Savaee Singh S/o Hareeram 989/2740 bhag Mohan Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag 3/1370 bhag Nimbo Devi W/o Harful S/o Sher Singh 17/2740 bhag Santa Devi W/o Pratap Singh S/o Birender Singh S/o Guradayal 43/2740 bhag Sandeep Kumar S/o Moti Singh

					S/o Sher Singh 37/1370 bhag Ranu Singh S/o & Santosh Devi Wd/o Moti Singh S/o Sher Singh har do Snabhag 26/685 bhag Neetu Devi D/o Moti Singh Sher Singhj 127/1370 bhag Vasideh 61//13
84	61//18	Private	Agriculture	0.1062	Pratap Singh S/o Sher Singh S/o Hareeram 59/2740 bhag Tekchand S/o Hareeram 117/1370 bhag Dhansingh S/o Sher Singh S/o Hareeram 35/548 bhag Savaee Singh S/o Hareeram 989/2740 bhag Mohan Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag 3/1370 bhag Nimbo Devi W/o Harful S/o Sher Singh 17/2740 bhag Santa Devi W/o Pratap Singh S/o Birender Singh S/o Guradayal 43/2740 bhag Sandeep Kumar S/o Moti Singh S/o Sher Singh 37/1370 bhag Ranu Singh S/o & Santosh Devi Wd/o Moti Singh S/o Sher Singh har do Snabhag 26/685 bhag Neetu Devi D/o Moti Singh Sher Singhj 127/1370 bhag Vasideh 61//18
85	61//19	Private	Agriculture	0.3389	Balvan, Satyaveer Singh, Javaharlal S/o Surat Singh S/o Palaram har teen Sambhag 150/4573 bhag Sandeep Kumar S/o Chanderbhan S/o Surat Singh 50/4573 bhag Laxmi D/o Charanjilal S/o Amilal 26407/1202699 bhag Amar Singh S/o Dulichand S/o Amilal 66898/1202699 bhag Shakuntala D/o & Smt. Dadakali Wd/o Dulichand S/o Amilal har do Sambhag 32/4471 bhag Mahesh Kumar S/o & Sunita D/o & Santara Devi Wd/o & Kitav Kaur Mata Sharjeet Singh S/o Maanak Chand har char Sambhag 12776/212241 bhag Daleep Singh Baljeet Singh S/o Manakchand S/o Amilal har do Smabhag 432761/3608097 bhag Sitar S/o CHEeranji Lal S/o Amilal 317/4573 bhag Rajpal, Ashok Kumar S/o & Sumitra D/o & Savitri Wd/o Dharpal S/o CHEeranjilal har char Sambhag 249/4573 bhag Satpal, Mukesh S/o & Pinkee D/o & Susheela Wd/o & Shanti Devi mata Tej Singh S/o Man Singh har paanch Sambhag 2087/4573 bhag Bhim Singh S/o Dulichand S/o Amilal 96/1202699 bhag Kanvar Singh S/o Dulichand S/o Amilal 133700/1202699 bhag Vasideh 61//19
86	61//2	Private	Agriculture	0.0835	Manoj Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag

					Vasideh 61//2
87	61//21	Private	Agriculture	0.0126	Balvan, Satyaveer Singh, Javaharlal S/o Surat Singh S/o Palaram har teen Sambhag 150/4573 bhag Sandeep Kumar S/o Chanderbhan S/o Surat Singh 50/4573 bhag Laxmi D/o Charanjilal S/o Amilal 26407/1202699 bhag Amar Singh S/o Dulichand S/o Amilal 66898/1202699 bhag Shakuntala D/o & Smt. Dadakali Wd/o Dulichand S/o Amilal har do Sambhag 32/4471 bhag Mahesh Kumar S/o & Sunita D/o & Santara Devi Wd/o & Kitav Kaur Mata Sharjeet Singh S/o Maanak Chand har char Sambhag 12776/212241 bhag Daleep Singh Baljeet Singh S/o Manakchand S/o Amilal har do Smabhag 432761/3608097 bhag Sitar S/o CHEeranji Lal S/o Amilal 317/4573 bhag Rajpal, Ashok Kumar S/o & Sumitra D/o & Savitri Wd/o Dharpal S/o CHEeranjlal har char Sambhag 249/4573 bhag Satpal, Mukesh S/o & Pinkee D/o & Susheela Wd/o & Shanti Devi mata Tej Singh S/o Man Singh har paanch Sambhag 2087/4573 bhag Bhim Singh S/o Dulichand S/o Amilal 96/1202699 bhag Kanvar Singh S/o Dulichand S/o Amilal 133700/1202699 bhag Vasideh 61//21
88	61//22	Private	Agriculture	0.3996	Balvan, Satyaveer Singh, Javaharlal S/o Surat Singh S/o Palaram har teen Sambhag 150/4573 bhag Sandeep Kumar S/o Chanderbhan S/o Surat Singh 50/4573 bhag Laxmi D/o Charanjilal S/o Amilal 26407/1202699 bhag Amar Singh S/o Dulichand S/o Amilal 66898/1202699 bhag Shakuntala D/o & Smt. Dadakali Wd/o Dulichand S/o Amilal har do Sambhag 32/4471 bhag Mahesh Kumar S/o & Sunita D/o & Santara Devi Wd/o & Kitav Kaur Mata Sharjeet Singh S/o Maanak Chand har char Sambhag 12776/212241 bhag Daleep Singh Baljeet Singh S/o Manakchand S/o Amilal har do Smabhag 432761/3608097 bhag Sitar S/o CHEeranji Lal S/o Amilal 317/4573 bhag Rajpal, Ashok Kumar S/o & Sumitra D/o & Savitri Wd/o Dharpal S/o CHEeranjlal har char Sambhag 249/4573 bhag Satpal, Mukesh S/o & Pinkee D/o & Susheela Wd/o & Shanti Devi mata Tej Singh S/o Man Singh har paanch Sambhag 2087/4573 bhag Bhim Singh S/o Dulichand S/o Amilal

					96/1202699 bhag Kanvar Singh S/o Dulichand S/o Amilal 133700/1202699 bhag Vasideh 61/22
89	61/23	Private	Agriculture	0.0329	Pratap Singh S/o Sher Singh S/o Hareeram 59/2740 bhag Tekchand S/o Hareeram 117/1370 bhag Dhansingh S/o Sher Singh S/o Hareeram 35/548 bhag Savaee Singh S/o Hareeram 989/2740 bhag Mohan Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag 3/1370 bhag Nimbo Devi W/o Harful S/o Sher Singh 17/2740 bhag Santa Devi W/o Pratap Singh S/o Birender Singh S/o Guradayal 43/2740 bhag Sandeep Kumar S/o Moti Singh S/o Sher Singh 37/1370 bhag Ranu Singh S/o & Santosh Devi Wd/o Moti Singh S/o Sher Singh har do Snabhag 26/685 bhag Neetu Devi D/o Moti Singh Sher Singhj 127/1370 bhag Vasideh 61/23
90	61/3/1	Private	Agriculture	0.1771	Manoj Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag Vasideh 61/3/1
91	61/3/2	Private	Agriculture	0.1138	Jaydayal S/o Netram S/o Ramratan 1/3 bhag pyarelal, Harprasad, Kailash, Ashok S/o & Kamala, Shakuntla, Sabita D/o & Smt. Meva Wd/o Banshi har 8 Sambhag 1/3 bhag Raghuvveer Singh, Rohatas, Pratap, Ramnivash, Randheer Singh S/o Jaynarayan S/o Netram har 5 Sambhag 5/18 bhag Babeeta W/o Kanvar Singh W/o Dulichand 1/18 bhaag Vasideh 61/3/2
92	61/8	Private	Agriculture	0.258	Jaydayal S/o Netram S/o Ramratan 1/3 bhag pyarelal, Harprasad, Kailash, Ashok S/o & Kamala, Shakuntla, Sabita D/o & Smt. Meva Wd/o Banshi har 8 Sambhag 1/3 bhag Raghuvveer Singh, Rohatas, Pratap, Ramnivash, Randheer Singh S/o Jaynarayan S/o Netram har 5 Sambhag 5/18 bhag Babeeta W/o Kanvar Singh W/o Dulichand 1/18 bhaag Vasideh 61/8
93	61/9	Private	Agriculture	0.1897	Jaydayal S/o Netram S/o Ramratan 1/3 bhag pyarelal, Harprasad, Kailash, Ashok S/o & Kamala, Shakuntla, Sabita D/o & Smt. Meva Wd/o Banshi har 8 Sambhag 1/3 bhag Raghuvveer Singh, Rohatas, Pratap, Ramnivash, Randheer Singh S/o Jaynarayan S/o Netram har 5 Sambhag 5/18 bhag Babeeta W/o Kanvar Singh W/o

					Dulichand 1/18 bhaag Vasideh 61/9
94	63/25	Private	Agriculture	0.0025	Pratap Singh S/o Sher Singh S/o Hareeram 59/2740 bhag Tekchand S/o Hareeram 117/1370 bhag Dhansingh S/o Sher Singh S/o Hareeram 35/548 bhag Savaee Singh S/o Hareeram 989/2740 bhag Mohan Kumar, Rajpal S/o Harful Singh S/o Sher Singh har do Sambhag 3/1370 bhag Nimbo Devi W/o Harful S/o Sher Singh 17/2740 bhag Santa Devi W/o Pratap Singh S/o Birender Singh S/o Guradayal 43/2740 bhag Sandeep Kumar S/o Moti Singh S/o Sher Singh 37/1370 bhag Ranu Singh S/o & Santosh Devi Wd/o Moti Singh S/o Sher Singh har do Snabhag 26/685 bhag Neetu Devi D/o Moti Singh Sher Singhj 127/1370 bhag Vasideh 63/25
95	64/1	Private	Agriculture	0.0809	Omparkash, Rameshchand S/o Prabhati S/o Girdhari har do Sambhag 2/3 bhag Smt. Suragee Mata & Jesveer Singh, Vinit S/o & Smt. Chandra Devi Wd/o Jaysingh Prabhati har char Sambhag 1/3 bhag Vasideh 64/1
96	64/10	Private	Agriculture	0.1568	Ramkarn S/o Sabhachand S/o Heera 75/2326 bhag Jagatsingh S/o Sabhachand S/o Heera 388/12163 bhag Havasingh Singh Sabhachand S/o Heera 135/2326 bhag Rajveer Singh S/o Gomaram S/o Neta ram 160/1163 bhag Smt. Sakuntala Devi Wd/o & Devdatt, Sidhdarth S/o Jogendra singh Sarjeet Singh har teen Sambhag 32/1163 bhag Vasideh Ashok Kumar s/o & Suman Devi, Sushama Devi D/o & Smt. Sma Kaur Wd/o Sharjit Singh S/o Goma har char Sambhag 128/1163 bhag Vashi Duloth Jaat Anup Singh, Pritam singh s/o Karm Singh S/o Risal Singh har do Sambhag 350/1163 bhag Vasi Basaee Jila Gudgaon 64/10
97	64/11	Private	Agriculture	0.2327	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt. Ramrati Wd/o

					Ramchandra S/o Gugan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 64//11
98	64//12	Private	Agriculture	0.2074	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gugan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 64//12
99	64//2/1	Private	Agriculture	0.101172	Omparkash, Rameshchand S/o Prabhati S/o Girdhari har do Sambhag 2/3 bhag Smt. Suragee Mata & Jesveer Singh, Vinit S/o & Smt. Chandra Devi Wd/o Jaysingh Prabhati har char Sambhag 1/3 bhag Vasideh 64//2/1
100	64//2/2	Private	Agriculture	0.258	Ramkarn S/o Sabhachand S/o Heera 75/2326 bhag Jagatsingh S/o Sabhachand S/o Heera 388/12163 bhag Havasingh Singh Sabhachand S/o Heera 135/2326 bhag Rajveer Singh S/o Gomaram S/o Neta ram 160/1163 bhag Smt. Sakuntala Devi Wd/o & Devdatt, Sidhdarth S/o Jogendra singh Sarjeet Singh har teen Sambhag 32/1163 bhag Vasideh Ashok Kumar s/o & Suman Devi, Sushama Devi D/o & Smt. Sma Kaur Wd/o Sharjit Singh S/o Goma har char Sambhag 128/1163 bhag Vashi Duloth Jaat Anup Singh, Pritam singh s/o Karm Singh S/o Risal Singh har do

					Sambhag 350/1163 bhag Vasi Basaee Jila Gudgaon 64/2/2
101	64//20	Private	Agriculture	0.3086	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gudan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 64//20
102	64//21	Private	Agriculture	0.3769	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gudan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 64//21
103	64//22	Private	Agriculture	0.0101	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326

					bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gugan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 64/22
104	64/9	Private	Agriculture	0.2833	Omparkash, Rameshchand S/o Prabhati S/o Girdhari har do Sambhag 2/3 bhag Smt. Suragee Mata & Jesveer Singh, Vinit S/o & Smt. Chandra Devi Wd/o Jaysingh Prabhati har char Sambhag 1/3 bhag Vasideh 64/9
105	73//1/1	Private	Agriculture	0.2074	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gugan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 73//1/1
106	73//1/2	Private	Agriculture	0.1037	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gugan 1675/3978

					bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 73//1/2
107	73//10/1	Private	Agriculture	0.1113	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gugan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 73//10/1
108	73//10/2	Private	Agriculture	0.0405	Gram Panchayat Deh 73//10/2
109	73//10/3	Private	Agriculture	0.0354	Gram Panchayat Deh 73//10/3
110	73//11	Private	Agriculture	0.2023	Gram Panchayat Deh 73//11
111	73//2	Private	Agriculture	0.0025	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gugan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam

					80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 73/2
112	74//15/1	Private	Agriculture	0.0531	Gram Panchayat Deh 74//15/1
113	74//15/2	Private	Agriculture	0.0607	Gram Panchayat Deh 74//15/2
114	74//5/2	Private	Agriculture	0.0556	Karnsingh S/o Dalu S/o Shyodayal 253/1989 bhag Rajesh Kumar, Rajendra Kumar, S/o Karn Singh S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Sukrm Singh, Vikram Singh S/o Subhash S/o Dalu har do Sambhag 62/663 bhag Mukesh Kumar S/o & Babali, Roshani Devi D/o Sajana Devi D/o Dalu har teen Sambhag 83/1326 bhag Rajesh Singh, Tejpal S/o Rishal S/o Shyodayal har do Sambhag 83/1326 bhag Smt.Ramrati Wd/o Ramchandra S/o Gugan 1675/3978 bhaag Smt. Phulvati Wd/o Subhash S/o Dalu 83/3978 bhaag Balavan Singh S/o Hardayal Singh S/o Ramajeelal 76/1989 bhaag Anil Kumar S/o Kuvar Singh S/o Daularam 80/1989 bhaag Mukhtyar Singh , Atar Singh Sataveer S/o & Lakhapati, Sunehari D/o & Shraban Devi Wd/o Ramjeelal har six Sambhaag 80/1989 bhaag Vasideh 74//5/2
115	74//6	Private	Agriculture	0.0784	Gram Panchayat Deh 74//6
Taluk: Kanina					
Viilage: Kheri					
1	1//12	Private	Agriculture	0.1366	Jaypal Singh, Mohanpal Singh, Rampal Singh S/O व Ataribai, Balabai D/O Jagpal Singh Laxmansingh Har Panch Sambhag 5/21 Bhag Hoshyar Singh S/O Jokhi S/O Umada 1/3 Bhag Tejpal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxmansingh 2/6951 Bhag Radhupal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxman Singh 17/2317 Bhag Smt. Sunita Devi W/O Kailash S/O Sanval 29/331 Bhag Vasideh Manoj, Rajkumar S/O व Manju D/O व Chandro Wd/O Jagadeeshprasad S/O Radhakishan Har Char Sambhag 1/3 Bhag Vasi Sehlang 1//12
2	1//13/1	Private	Agriculture	0.1391	Jaypal Singh, Mohanpal Singh, S/O व Ataribai Har Char Sambhag 4/21

					Bhag Smt. Sharmila Devi W/O Rameer Singh S/O Nihal Singh 5/63 Bhag Hoshyar Singh S/O Jokhi S/O Umada 1/3 Bhag Tejpal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxmansingh 2/6951 Bhag 17/2317 Bhag Smt. Sunita Devi W/O Kailash S/O Sanval 29/331 Bhag Vasideh Manoj, Rajkumar S/O ँ Manju D/O ँ Chandro Wd/O Jagadeeshprasad S/O Radhakishan Har Char Sambhag 1/3 Bhag Vasi Sehlang 1//13/1
3	1//13/2	Private	Agriculture	0.1088	Chandar S/O Salag S/O Vishal Singh 1/4 Bhag Tejpal, Vedpal S/O Mamraj S/O Dariyai Har Do Sambhag 7/48 Bhag Shanti Wd/O Mamraj S/O Dariyai 1/96 Bhag Balveer, Ravindra S/O Mamchand S/O Gulab Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasideh Dharmpal, Rambhul, Banshi S/O Kaluram Har Teen Sambhag 1/8 Bhag Vasi Bagot Teh. Dis. Mahendragarh Ramsingh S/O Jaluram S/O Kaluram 1/8 Bhag Vasi Bagot Teh. Dis. Mahendragarh Jagpal S/O Dariyai S/O Salag 1/16 Bhag Suresh, Naresh, Mahendra S/O Jagpal Har Teen Sambhag 1/32 Bhag Vasideh 1//13/2
4	1//18	Private	Agriculture	0.2732	Jaypal Singh, Mohanpal Singh, Rampal Singh S/O ँ Ataribai, Balabai D/O Jagpal Singh Laxmansingh Har Panch Sambhag 5/21 Bhag Hoshyar Singh S/O Jokhi S/O Umada 1/3 Bhag Tejpal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxmansingh 2/6951 Bhag Radhupal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxman Singh 17/2317 Bhag Smt. Sunita Devi W/O Kailash S/O Sanval 29/331 Bhag Vasideh Manoj, Rajkumar S/O ँ Manju D/O ँ Chandro Wd/O Jagadeeshprasad S/O Radhakishan Har Char Sambhag 1/3 Bhag Vasi Sehlang 1//18
5	1//19	Private	Agriculture	0.1619	Jaypal Singh, Mohanpal Singh, Rampal Singh S/O ँ Ataribai, Balabai D/O Jagpal Singh Laxmansingh Har Panch Sambhag 5/21 Bhag Hoshyar Singh S/O Jokhi S/O Umada 1/3 Bhag Tejpal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxmansingh 2/6951 Bhag Radhupal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxman Singh 17/2317 Bhag Smt. Sunita Devi W/O Kailash S/O Sanval 29/331 Bhag Vasideh Manoj, Rajkumar S/O ँ

					Manju D/O व Chandro Wd/O Jagadeeshprasad S/O Radhakishan Har Char Sambhag 1/3 Bhag Vasi Sehlang 1//19
6	1//2	Private	Agriculture	0.1113	Vijay Pal Singh D/O Veh Chitra Devi Wd/O Amarsingh S/O Savat Singh Har Do Sambhag 53/1292 Bhag Hansi, Bhuri, Naval, Santosh D/O Amarsingh Savat Singh Har Char Sambhag Man Singh S/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 41/1938 Bhag Santoshbai D/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 43/1292 Bhag Johari Singh S/O Savat Singh Ramnath Singh 80/323 Bhag Gindodi Wd/O Badh Singh S/O Savat Singh 40/323 Bhag Rajendra Prasad S/O Badalu Ram S/O Natthuram 155/1292 Bhag Rohatash S/O Matu S/O Umadi 215/2584 Bhag Sunil Kumars/O व Lalita D/O व Vimla Wd/O Shreeram S/O Matu Har Teen Sambhag 18/323 Bhag Krishna Bai , Maganbai D/O Mamraj Singh S/O Savat Singh Har Do Sambhag 53/1292 Bhag Mahendra Singh S/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 181/3876 Bhag Smt.Ramrati Wd/O व Smt.Rekha, Sima, Renu D/O व Rajesh S/O Rajendra Singh S/O Mamraj Har Panch Sambhag 41/1938 Bhag Vasideh Ramkishan, Havasingh, Krishan S/O व Sudesh, Santosh , Kiran D/O व Chavali Wd/O Banavari S/O Matu Har Saat Sambhag 215/2584 Bhag Vasi Bagot 1//2
7	1//22	Private	Agriculture	0.1821	Jaypal Singh, Mohanpal Singh, Rampal Singh S/O व Ataribai, Balabai D/O Jagpal Singh Laxmansingh Har Panch Sambhag 5/21 Bhag Hoshyar Singh S/O Jokhi S/O Umada 1/3 Bhag Tejpal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxmansingh 2/6951 Bhag Radhupal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxman Singh 17/2317 Bhag Smt. Sunita Devi W/O Kailash S/O Sanval 29/331 Bhag Vasideh Manoj, Rajkumar S/O व Manju D/O व Chandro Wd/O Jagadeeshprasad S/O Radhakishan Har Char Sambhag 1/3 Bhag Vasi Sehlang 1//22
8	1//23	Private	Agriculture	0.2529	Jaypal Singh, Mohanpal Singh, Rampal Singh S/O व Ataribai, Balabai D/O Jagpal Singh Laxmansingh Har Panch Sambhag 5/21 Bhag Hoshyar

					Singh S/O Jokhi S/O Umada 1/3 Bhag Tejpal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxmansingh 2/6951 Bhag Radhupal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxman Singh 17/2317 Bhag Smt. Sunita Devi W/O Kailash S/O Sanval 29/331 Bhag Vasideh Manoj, Rajkumar S/O ँ Manju D/O ँ Chandro Wd/O Jagadeeshprasad S/O Radhakishan Har Char Sambhag 1/3 Bhag Vasi Sehlang 1//23
9	1//3	Private	Agriculture	0.2959	Vijay Pal Singh D/O Veh Chitra Devi Wd/O Amarsingh S/O Savat Singh Har Do Sambhag 53/1292 Bhag Hansi, Bhuri, Naval, Santosh D/O Amarsingh Savat Singh Har Char Sambhag Man Singh S/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 41/1938 Bhag Santoshbai D/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 43/1292 Bhag Johari Singh S/O Savat Singh Ramnath Singh 80/323 Bhag Gindodi Wd/O Badh Singh S/O Savat Singh 40/323 Bhag Rajendra Prasad S/O Badalu Ram S/O Natthuram 155/1292 Bhag Rohatash S/O Matu S/O Umadi 215/2584 Bhag Sunil Kumars/O ँ Lalita D/O ँ Vimla Wd/O Shreeram S/O Matu Har Teen Sambhag 18/323 Bhag Krishna Bai , Maganbai D/O Mamraj Singh S/O Savat Singh Har Do Sambhag 53/1292 Bhag Mahendra Singh S/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 181/3876 Bhag Smt.Ramrati Wd/O ँ Smt.Rekha, Sima, Renu D/O ँ Rajesh S/O Rajendra Singh S/O Mamraj Har Panch Sambhag 41/1938 Bhag Vasideh Ramkishan, Havasingh, Krishan S/O VEh Sudesh, Santosh , Kiran D/O Veh Chavali Wd/O Banavari S/O Matu Har Saat Sambhag 215/2584 Bhag Vasi Bagot 1//3
10	1//9/1	Private	Agriculture	0.1012	Vijay Pal Singh D/O Veh Chitra Devi Wd/O Amarsingh S/O Savat Singh Har Do Sambhag 53/1292 Bhag Hansi, Bhuri, Naval, Santosh D/O Amarsingh Savat Singh Har Char Sambhag Man Singh S/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 41/1938 Bhag Santoshbai D/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 43/1292 Bhag Johari Singh S/O Savat Singh Ramnath Singh 80/323 Bhag Gindodi Wd/O Badh Singh S/O Savat Singh 40/323 Bhag Rajendra Prasad S/O Badalu Ram S/O Natthuram 155/1292 Bhag Rohatash S/O Matu S/O Umadi 215/2584 Bhag Sunil

					Kumars/O व Lalita D/O व Vimla Wd/O Shreeram S/O Matu Har Teen Sambhag 18/323 Bhag Krishna Bai , Maganbai D/O Mamraj Singh S/O Savat Singh Har Do Sambhag 53/1292 Bhag Mahendra Singh S/O Mamraj Singh S/O Savat Singh 181/3876 Bhag Smt.Ramrati Wd/O व Smt.Rekha, Sima, Renu D/O व Rajesh S/O Rajendra Singh S/O Mamraj Har Panch Sambhag 41/1938 Bhag Vasideh Ramkishan, Havasingh, Krishan S/O VEh Sudesh, Santosh , Kiran D/O Veh Chavali Wd/O Banavari S/O Matu Har Saat Sambhag 215/2584 Bhag Vasi Bagot 1/9/1
11	1/9/2	Private	Agriculture	0.0076	Jaypal Singh, Mohanpal Singh, Rampal Singh S/O व Ataribai, Balabai D/O Jagpal Singh Laxmansingh Har Panch Sambhag 5/21 Bhag Hoshyar Singh S/O Jokhi S/O Umada 1/3 Bhag Tejpal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxmansingh 2/6951 Bhag Radhupal Singh S/O Jagpal Singh S/O Laxman Singh 17/2317 Bhag Smt. Sunita Devi W/O Kailash S/O Sanval 29/331 Bhag Vasideh Manoj, Rajkumar S/O व Manju D/O व Chandro Wd/O Jagadeeshprasad S/O Radhakishan Har Char Sambhag 1/3 Bhag Vasi Sehlang 1/9/2
12	101/12	Private	Agriculture	0.301	Gangapal Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 267/1355 Bhag Deshraj Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 331/2710 Bhag Chhatrapal Singh S/O Lal Singh 399/2710 Bhag Smt.Vinita Devi W/O Hansaraj Singh S/O Rohatash Singh 53/2710 Bhag Krishanpal Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 63/1355 Bhag Manoj Kumar S/O Jagdeesh Singh S/O Rudsingh82/1355 Bhag Kuldeep S/O Sarjeet S/O Rudsingh 13/2710 Bhag Sandeep, Pradeep S/O Sarjeet S/O Rudsingh Har Do Sambhag 13/1355 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O व Smt.Kusum D/O व Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 226/1355 Bhag Dharpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uaday Singh S/O Natthu Har Do Sambhag 33/271 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash, Ajay Singh S/O व Smt.Aasha, Usha D/O व Smt.Ban Devi Wd/O Shreepal Singh Ramnarayan Har Saat Sambhag

					16/271 Bhag Ransingh, Rajendra Singh, Satyaveer Singh S/O ँ Shakuntala Devi Wd/O Bachan Singh S/O Dipsingh Har Char Sambhag 61/1355 Bhag Vasideh 101//12
13	101//13/1	Private	Agriculture	0.1062	Ripudaman, Shivkumar S/O Tejjal S/O Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Karan Singh, Ramotar Singh, Rajveer Singh S/O Jaynarayan S/O Joravar Singh Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Kehar Singh, Chetbhaan, Motisagar, Surendra Singh S/O Omkar Singh S/O Joravar Singh Har Char Sambhag 1/3 Bhag Rinku S/O ँ Rekha Wd/O Pardip S/O Jainarayan Har Do Sambhag 1/12 Bhag Vasideh 101//13/1
14	101//18	Private	Agriculture	0.0228	Kehar Singh, Chetbhan Singh, Motisagar, Surendar Singh S/O ँ Krishna, Usha, Santosh D/O ँ Resham Devi Wd/O Okar Singh S/O Joravar Singh Har 8 Sambhag 1/3 Bhag Karn Singh, Ramautar, Rajveer, Pradeep S/O ँ Antar, Kamalesh, Nirmala D/O Jaynarayan S/O Joravar Har Saat Sambhag 1/3 Bhag Ripudaman, Shivkumar S/O Tejjal Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 101//18
15	101//19	Private	Agriculture	0.3971	Kehar Singh, Chetbhan Singh, Motisagar, Surendar Singh S/O ँ Krishna, Usha, Santosh D/O ँ Resham Devi Wd/O Okar Singh S/O Joravar Singh Har 8 Sambhag 1/3 Bhag Karn Singh, Ramautar, Rajveer, Pradeep S/O ँ Antar, Kamalesh, Nirmala D/O Jaynarayan S/O Joravar Har Saat Sambhag 1/3 Bhag Ripudaman, Shivkumar S/O Tejjal Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 101//19
16	101//20	Private	Agriculture	0.0329	Kehar Singh, Chetbhan Singh, Motisagar, Surendar Singh S/O ँ Krishna, Usha, Santosh D/O ँ Resham Devi Wd/O Okar Singh S/O Joravar Singh Har 8 Sambhag 1/3 Bhag Karn Singh, Ramautar, Rajveer, Pradeep S/O ँ Antar, Kamalesh, Nirmala D/O Jaynarayan S/O Joravar Har Saat Sambhag 1/3 Bhag Ripudaman, Shivkumar S/O Tejjal Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 101//20

17	101//21	Private	Agriculture	0.1315	Kehar Singh, Chetbhan Singh, Motisagar, Surendar Singh S/O व Krishna, Usha, Santosh D/O व Resham Devi Wd/O Okar Singh S/O Joravar Singh Har 8 Sambhag 1/3 Bhag Karn Singh, Ramautar, Rajveer, Pradeep S/O व Antar, Kamalesh, Nirmala D/O Jaynarayan S/O Joravar Har Saat Sambhag 1/3 Bhag Ripudaman, Shivkumar S/O Tejjal Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 101//21
18	101//22	Private	Agriculture	0.3238	Ripudaman, Shivkumar S/O Tejjal S/O Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Karan Singh, Ramotar Singh, Rajveer Singh S/O Jaynarayan S/O Joravar Singh Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Kehar Singh, Chetbhaan, Motisagar, Surendra Singh S/O Omkar Singh S/O Joravar Singh Har Char Sambhag 1/3 Bhag Rinku S/O व Rekha Wd/O Pradeep S/O Jaynarayan Har Do Sambhag 1/12 Bhag Vasideh 101//22
19	101//3	Private	Agriculture	0.2656	Gajraj Singh, Balveer Singh S/O व Anup Bai D/O Ramnarayan Singh S/O Chandu Singh Har Teen Sambhag 3/4 Bhag Anil Kumar, Sunil Kumar, Ravindra Singh S/O व Smt.Savita D/O Mahaveer Singh S/O Ramnarayan Har Char Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 101//3
20	101//8/1	Private	Agriculture	0.1315	Smt.Krishna Devi W/O Ratipal S/O Mallu Singh 20/73 Bhag Smt.Pooja Devi W/O Rakesh Kumar S/O Omkar Singh 20/73 Bhag Kiranbai Wd/O Ramkavar Singh S/O Sandal 3/73 Bhag Anil Kumar, Sunil Kumar, Ravindra Singh S/O Mahaveer Singh S/O Ramnarayan Har Teen Sambhag 30/73 Bhag Vasideh 101//8/1
21	101//8/2	Private	Agriculture	0.0809	Gangapal Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 267/1355 Bhag Deshraj Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 331/2710 Bhag Chhatrapal Singh S/O Lal Singh 399/2710 Bhag Smt.Vinita Devi W/O Hansaraj Singh S/O Rohatash Singh 53/2710 Bhag Krishanpal Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 63/1355 Bhag Manoj Kumar S/O Jagdeesh Singh S/O Rudsingh82/1355 Bhag Kuldeep S/O Sarjeet S/O Rudsingh 13/2710 Bhag Sandeep, Pradeep S/O Sarjeet S/O Rudsingh Har Do Sambhag 13/1355

					Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O ँ Smt.Kusum D/O ँ Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 226/1355 Bhag Dharmpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Singh S/O Natthu Har Do Sambhag 33/271 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash, Ajay Singh S/O ँ Smt.Aasha, Usha D/O ँ Smt.Ban Devi Wd/O Shreepal Singh Ramnarayan Har Saat Sambhag 16/271 Bhag Ransingh, Rajendra Singh, Satyaveer Singh S/O ँ Shakuntala Devi Wd/O Bachan Singh S/O Dipsingh Har Char Sambhag 61/1355 Bhag Vasideh 101//8/2
22	101//9/1	Private	Agriculture	0.0303516	Gangapal Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 267/1355 Bhag Deshraj Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 331/2710 Bhag Chhatrapal Singh S/O Lal Singh 399/2710 Bhag Smt.Vinita Devi W/O Hansaraj Singh S/O Rohatash Singh 53/2710 Bhag Krishanpal Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 63/1355 Bhag Manoj Kumar S/O Jagdeesh Singh S/O Rudsingh82/1355 Bhag Kuldeep S/O Sarjeet S/O Rudsingh 13/2710 Bhag Sandeep, Pradeep S/O Sarjeet S/O Rudsingh Har Do Sambhag 13/1355 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O ँ Smt.Kusum D/O ँ Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 226/1355 Bhag Dharmpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Singh S/O Natthu Har Do Sambhag 33/271 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash, Ajay Singh S/O ँ Smt.Aasha, Usha D/O ँ Smt.Ban Devi Wd/O Shreepal Singh Ramnarayan Har Saat Sambhag 16/271 Bhag Ransingh, Rajendra Singh, Satyaveer Singh S/O ँ Shakuntala Devi Wd/O Bachan Singh S/O Dipsingh Har Char Sambhag 61/1355 Bhag Vasideh 101//9/1
23	101//9/2	Private	Agriculture	0.2074	Rajpal Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh 1/6 Bhag Chhtrapal Singh, Gangapal Singh , Krishanpal Singh, Deshraj Singh S/O Natthu Singh S/O Lal Singh Har Char Sambhag 535/1167 Bhag Dharmpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Singh S/O Natthu Har Do Sambhag 1/6 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do

					Sambhag 81/389 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Ji. Gudgaon 101//9/2
24	13//12	Private	Agriculture	0.3541	Ramautar S/O Smt.Mauna D/O Beerbal 1/12 Bhag Hanuman, Krishanpal S/O Chhagan S/O Ramnath Har Do Sambhag 1/2 Bhag Ramsingh S/O Smt.Maina S/O Beerbal 1/6 Bhag Baghsingh S/O Chhagan S/O Ramnath 139/716 Bhag Vasideh Smt.Suman W/O Suresh Chand S/O Chandra Singh 10/179 Bhag Vasi Sehalang 13//12
25	13//13	Private	Agriculture	0.0809	Majeedankh S/O Abadul S/O Chotan 1/4 Bhag Vasideh Premlata W/O Vedprakash S/O Shubharam 1/2 Bhag Vasi Paygatah, Mahendrag Satyaveer Khan, Saropkhan, Ramesh Kumar, Jamaludeen, Husinkhan, Rijak Khan, Alimohamdakhan S/O Nijamudeen S/O Chhotan Har Saat Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 13//13
26	13//18/1	Private	Agriculture	0.0582	Rajala, Bhopal, Isab, Sarojkhan S/O Salamudeen S/O Chotan Har Char Sambhag 1/4 Bhag Kamarudeen S/O Chhotan S/O Kalu 1/4 Bhag Manjeed S/O Abadul S/O Chhotan 1/4 Bhag Satyaveer Khan, Leelakhn Ramesh Kumar, Jamaludeen, Husinkhan, Rijak Khan, Animohamdakhan S/O Nijamudeen S/O Chhotan Har Saat Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 13//18/1
27	13//19	Private	Agriculture	0.3743	Ramautar S/O Smt.Mauna D/O Beerbal 1/12 Bhag Hanuman, Krishanpal S/O Chhagan S/O Ramnath Har Do Sambhag 1/2 Bhag Ramsingh S/O Smt.Maina S/O Beerbal 1/6 Bhag Baghsingh S/O Chhagan S/O Ramnath 139/716 Bhag Vasideh Smt.Suman W/O Suresh Chand S/O Chandra Singh 10/179 Bhag Vasi Sehalang 13//19
28	13//2	Private	Agriculture	0.3136	Omveer S/O Sohanlal 1/2 Bhag Vasi Sehalang Rishiraj S/O Jagdeesh S/O Sultan 1/2 Bhag Vasi Sehalang 13//2
29	13//3	Private	Agriculture	0.1214	Parvati Wd/O ँ Manbhavati, Gindodi, Phulbai, Mosambai, Vasanti Bai, Lalbai, D/O ँ Tulsiram, Phulchand, Motilal, Laxminarayan, Jagdeeshprasad S/O Matadeen S/O Kisanlal Har Barah Sambhag 413/1654 Bhag Netram Dattak S/O Jethamal S/O Chunnilal 205/1654 Bhag Surendra Singh , Mahesh Kumar

					S/O Ramkavar S/O Ganpat Singh Har Do Sambhag 159/1654 Bhag Prakash Singh, Ramesh Singh, Ajay Singh , Vijay Singh S/O Amar Singh S/O Rramlal Singh Har Char Sambhag 567/1654 Bhag Naragee D/O Jethamal S/O Chunnilal 155/1654 Bhag Banarasi S/O ँ Kamla, Santosh D/O Naragee Har Teen Sambhag 15/2481 Bhag Vinod, Satyanarayan S/O Shyobai D/O Jethamal Har Do Sambhag 155/1654 Bhag Vasideh 13/3
30	13/8	Private	Agriculture	0.1012	Rajala, Bhopal, Isab, Sarojkhan S/O Salamudeen S/O Chotan Har Char Sambhag 1/4 Bhag Kamarudeen S/O Chhotan S/O Kalu 1/4 Bhag Manjeed S/O Abadul S/O Chhotan 1/4 Bhag Satyaveer Khan, Leelakhan Ramesh Kumar, Jamaludeen, Husinkhan, Rijak Khan, Animohamdkhan S/O Nijamudeen S/O Chhotan Har Saat Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 13/8
31	13/9	Private	Agriculture	0.3339	Omveer S/O Sohanlal 1/2 Bhag Vasi Sehalang Rishiraj S/O Jagdeesh S/O Sultan 1/2 Bhag Vasi Sehalang 13/9
32	169	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.1012	Nagar Panchyat 169
33	18/1	Private	Agriculture	0.0076	Mamrajsingh, Mahendra Singh, Ravindra Singh S/O ँ Shakuntala D/O ँ Vidhavi Wd/O Ramkavar Singh S/O Sadhu Singh Har Panch Sambhag 1/8 Bhag Sanvat Singh S/O Sadhu Singh S/O Jodha Singh 1/8 Bhag Smt.Mamata, Sima D/O Shaitan Singh Har Do Sambhag 1/50 Bhag Smt. Susheela Devi W/O Ashok Singh S/O Jagdeesh 3/100 Bhag Fakir Singh S/O Sadhu 1/20 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jairam 1/20 Bhag Laxminaryan, Ishwar S/O Parbhatilal S/O Gopal Har Do Sambhag 1/20 Bhag Smt. Surajbai D/O Sadhu Singh S/O Jodha 1/8 Bhag Sunderlal S/O Smt. Kamalbai D/O Sadhu Singh 1/8 Bhag Smt. Saroj D/O ँ Smt. Shant Wd/ O Ramotar S/O Sadhu Singh Har Do Sambhag 1/20 Bhag Surender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 31/6640 Bhag Vasideh Smt. Savita Devi W/O Surender S/O Ramotar 27/1328 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Dharmender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Vasideh Smt. Manju Devi W/O Bijender S/O

					<p>Ramotar 53/2656 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Bijender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Smt. Anita W/O Dharmender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Jagrup Singh, Jagdish Singh S/O व Kashmiri, Ombai, Kishna D/O Mul Singh Har Panch Sambhag 35/288 Bhag Pankaj S/O व Ponam D/O व Smt. Santosh Wd/O Shiv Kumar S/O Mul Singh Har 3 Sambhag 1/288 Bhga Padam Singh S/O Shispal 567/24940 Bhag Smt. Shakuntla W/O Shiv Kumar S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Smt. Rekha W/O Govind S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Vasideh 18/1</p>
34	18//10	Private	Agriculture	0.0278	<p>Mamrajsingh, Mahendra Singh, Ravindra Singh S/O व Shakuntala D/O व Vidhavi Wd/O Ramkavar Singh S/O Sadhu Singh Har Panch Sambhag 1/8 Bhag Sanvat Singh S/O Sadhu Singh S/O Jodha Singh 1/8 Bhag Smt.Mamata, Sima D/O Shaitan Singh Har Do Sambhag 1/50 Bhag Smt. Susheela Devi W/O Ashok Singh S/O Jagdeesh 3/100 Bhag Fakir Singh S/O Sadhu 1/20 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jairam 1/20 Bhag Laxminaryan, Ishwar S/O Parbhatilal S/O Gopal Har Do Sambhag 1/20 Bhag Smt. Surajbai D/O Sadhu Singh S/O Jodha 1/8 Bhag Sunderlal S/O Smt. Kamalbai D/O Sadhu Singh 1/8 Bhag Smt. Saroj D/O व Smt. Shant Wd/ O Ramotar S/O Sadhu Singh Har Do Sambhag 1/20 Bhag Surender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 31/6640 Bhag Vasideh Smt. Savita Devi W/O Surender S/O Ramotar 27/1328 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Dharmender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Vasideh Smt. Manju Devi W/O Bijender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Bijender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Smt. Anita W/O Dharmender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Jagrup Singh, Jagdish Singh S/O व Kashmiri, Ombai, Kishna D/O Mul Singh Har Panch Sambhag 35/288 Bhag Pankaj S/O व Ponam D/O व Smt. Santosh Wd/O Shiv Kumar S/O Mul Singh Har 3 Sambhag 1/288 Bhga Padam Singh S/O Shispal 567/24940 Bhag Smt. Shakuntla W/O Shiv Kumar S/O Jagrup Singh 17/1247</p>

					Bhag Smt. Rekha W/O Govind S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Vasideh 18//10
35	18//11	Private	Agriculture	0.0506	Ripudaman, Shivkumar S/O Tejpal S/O Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Karan Singh, Ramotar Singh, Rajveer Singh S/O Jaynarayan S/O Joravar Singh Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Kehar Singh, Chetbhaan, Motisagar, Surendra Singh S/O Omkar Singh S/O Joravar Singh Har Char Sambhag 1/3 Bhag Rinku S/O ँ Rekha Wd/O Pradeep S/O Jaynarayan Har Do Sambhag 1/12 Bhag Vasideh 18//11
36	18//12	Private	Agriculture	0.3845	Ripudaman, Shivkumar S/O Tejpal S/O Ramsvarup Har Do Sambhag 1/3 Bhag Karan Singh, Ramotar Singh, Rajveer Singh S/O Jaynarayan S/O Joravar Singh Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Kehar Singh, Chetbhaan, Motisagar, Surendra Singh S/O Omkar Singh S/O Joravar Singh Har Char Sambhag 1/3 Bhag Rinku S/O ँ Rekha Wd/O Pradeep S/O Jaynarayan Har Do Sambhag 1/12 Bhag Vasideh 18//12
37	18//19	Private	Agriculture	0.3642	Ombai D/O Musadi Singh S/O Kanha 1/4 Bhag Ombai D/O Musadi Singh S/O Kanha 1/4 Bhag Surendar Singh Bijendar Singh S/O ँ Munnibai, Guddi, Bala, Manju D/O ँ Saroj Devi Wd/O Ranjeet Singh Dattak S/O Shaitan Singh Har Saat Sambhag 1/4 Bhag Panne Singh S/O Richhpal Singh S/O Danvant Singh 1/4 Bhag Vasideh 18//19
38	18//2	Private	Agriculture	0.3945	Mamrajsingh, Mahendra Singh, Ravindra Singh S/O ँ Shakuntala D/O ँ Vidhavi Wd/O Ramkavar Singh S/O Sadhu Singh Har Panch Sambhag 1/8 Bhag Sanvat Singh S/O Sadhu Singh S/O Jodha Singh 1/8 Bhag Smt.Mamata, Sima D/O Shaitan Singh Har Do Sambhag 1/50 Bhag Smt. Susheela Devi W/O Ashok Singh S/O Jagdeesh 3/100 Bhag Fakir Singh S/O Sadhu 1/20 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jairam 1/20 Bhag Laxminaryan, Ishwar S/O Parbhatilal S/O Gopal Har Do Sambhag 1/20 Bhag Smt. Surajbai D/O Sadhu Singh S/O Jodha 1/8 Bhag Sunderlal S/O Smt. Kamalbai D/O Sadhu Singh 1/8 Bhag Smt. Saroj D/O ँ Smt. Shant Wd/ O Ramotar S/O Sadhu Singh Har

					<p>Do Sambhag 1/20 Bhag Surender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 31/6640 Bhag Vasideh Smt. Savita Devi W/O Surender S/O Ramotar 27/1328 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Dharmender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Vasideh Smt. Manju Devi W/O Bijender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Bijender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Smt. Anita W/O Dharmender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Jagrup Singh, Jagdish Singh S/O व Kashmiri, Ombai, Kishna D/O Mul Singh Har Panch Sambhag 35/288 Bhag Pankaj S/O व Ponam D/O व Smt. Santosh Wd/O Shiv Kumar S/O Mul Singh Har 3 Sambhag 1/288 Bhga Padam Singh S/O Shispal 567/24940 Bhag Smt. Shakuntla W/O Shiv Kumar S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Smt. Rekha W/O Govind S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Vasideh 18/2</p>
39	18/20	Private	Agriculture	0.0708	<p>Omprakash, Ashok, Pavan Kumar S/O Daleep Singh S/O Beeja Har Teen Sambhag 280/1579 Bhag Munni, Lali D/O Dalip Singh S/O Vija Singh Har Do Sambhag 132/1579 Bhag Urmila Devi W/O Dharmveer Singh S/O Harnarayan 40/1579 Bhag Mahaveer Singh, Ranjeet Singh, Krishan Singh S/O व Krishna, Ratana Devi D/O व Nitanandi Wd/O Gopal Singh S/O Binja Singh Har 6 Sambhag Satpal Singh S/O Ranlalsingh S/O Binja Singh 61567/265272 Bhag Smt. Anguri Bai, Santara Bai, Umed Bai D/O व Shivpal Singh, Madan Singh S/O Harnath Singh S/O Binja Singh Har Panch Sambhag 25/144 Bhag Smt. Santosh Devi W/O Anand Prakash S/O Chandgiram 80/1579 Bhag Smt. Anita Devi W/O Mahesh S/O Balsvarup Singh 1/3158 Bhag Smt. Aasha Devi W/O Balvan Singh S/O Jagrup Singh 1/3158 Bhag Smt. Nisha W/O Pradeep Urf Pradu S/O Jagmal Singh 108/1579 Bhag Sandeep, Shankar S/O व Poonam D/O Karn Singh S/O Amarsingh Har Teen Sambhag 51/7895 Bhag Urmila Wd/O Karn Singh S/O Amar Singh 34/7895 Bhag Virsingh, Jaysingh S/O व Anita, Rajani D/O व Kunti Devi Wd/O Satyapal Singh S/O Harnath Singh Har Panch Sambhag 5/144 Bhag Vasideh</p>

					18/20
40	18//21	Private	Agriculture	0.0911	Leeluram, Hoshyar Singh S/O Sultan Singh S/O Kanha Har Do Sambhag Vasideh 18//21
41	18//22	Private	Agriculture	0.344	Leeluram, Hoshyar Singh S/O Sultan Singh S/O Kanha Har Do Sambhag Vasideh 18//22
42	18//3	Private	Agriculture	0.0202	Mamrajsingh, Mahendra Singh, Ravindra Singh S/O ँ Shakuntala D/O ँ Vidhavti Wd/O Ramkavar Singh S/O Sadhu Singh Har Panch Sambhag 1/8 Bhag Sanvat Singh S/O Sadhu Singh S/O Jodha Singh 1/8 Bhag Smt.Mamata, Sima D/O Shaitan Singh Har Do Sambhag 1/50 Bhag Smt. Susheela Devi W/O Ashok Singh S/O Jagdeesh 3/100 Bhag Fakir Singh S/O Sadhu 1/20 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jairam 1/20 Bhag Laxminaryan, Ishwar S/O Parbhatilal S/O Gopal Har Do Sambhag 1/20 Bhag Smt. Surajbai D/O Sadhu Singh S/O Jodha 1/8 Bhag Sunderlal S/O Smt. Kamalbai D/O Sadhu Singh 1/8 Bhag Smt. Saroj D/O ँ Smt. Shant Wd/ O Ramotar S/O Sadhu Singh Har Do Sambhag 1/20 Bhag Surender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 31/6640 Bhag Vasideh Smt. Savita Devi W/O Surender S/O Ramotar 27/1328 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Dharmender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Vasideh Smt. Manju Devi W/O Bijender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Bijender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Smt. Anita W/O Dharmender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Jagrup Singh, Jagdish Singh S/O ँ Kashmiri, Ombai, Kishna D/O Mul Singh Har Panch Sambhag 35/288 Bhag Pankaj S/O ँ Ponam D/O ँ Smt. Santosh Wd/O Shiv Kumar S/O Mul Singh Har 3 Sambhag 1/288 Bhga Padam Singh S/O Shispal 567/24940 Bhag Smt. Shakuntla W/O Shiv Kumar S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Smt. Rekha W/O Govind S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Vasideh 18//3
43	18//8/2	Private	Agriculture	0.0025	Mamrajsingh, Mahendra Singh, Ravindra Singh S/O ँ Shakuntala D/O ँ Vidhavti Wd/O Ramkavar Singh

					<p>S/O Sadhu Singh Har Panch Sambhag 1/8 Bhag Sanvat Singh S/O Sadhu Singh S/O Jodha Singh 1/8 Bhag Smt.Mamata, Sima D/O Shaitan Singh Har Do Sambhag 1/50 Bhag Smt. Susheela Devi W/O Ashok Singh S/O Jagdeesh 3/100 Bhag Fakir Singh S/O Sadhu 1/20 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jairam 1/20 Bhag Laxminaryan, Ishwar S/O Parbhatilal S/O Gopal Har Do Sambhag 1/20 Bhag Smt. Surajbai D/O Sadhu Singh S/O Jodha 1/8 Bhag Sunderlal S/O Smt. Kamalbai D/O Sadhu Singh 1/8 Bhag Smt. Saroj D/O व Smt. Shant Wd/ O Ramotar S/O Sadhu Singh Har Do Sambhag 1/20 Bhag Surender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 31/6640 Bhag Vasideh Smt. Savita Devi W/O Surender S/O Ramotar 27/1328 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Dharmender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Vasideh Smt. Manju Devi W/O Bijender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Bijender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Smt. Anita W/O Dharmender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Jagrup Singh, Jagdish Singh S/O व Kashmiri, Ombai, Kishna D/O Mul Singh Har Panch Sambhag 35/288 Bhag Pankaj S/O व Ponam D/O व Smt. Santosh Wd/O Shiv Kumar S/O Mul Singh Har 3 Sambhag 1/288 Bhga Padam Singh S/O Shispal 567/24940 Bhag Smt. Shakuntla W/O Shiv Kumar S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Smt. Rekha W/O Govind S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Vasideh 18/8/2</p>
44	18/9	Private	Agriculture	0.3693	<p>Mamrajsingh, Mahendra Singh, Ravindra Singh S/O व Shakuntala D/O व Vidhavi Wd/O Ramkavar Singh S/O Sadhu Singh Har Panch Sambhag 1/8 Bhag Sanvat Singh S/O Sadhu Singh S/O Jodha Singh 1/8 Bhag Smt.Mamata, Sima D/O Shaitan Singh Har Do Sambhag 1/50 Bhag Smt. Susheela Devi W/O Ashok Singh S/O Jagdeesh 3/100 Bhag Fakir Singh S/O Sadhu 1/20 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jairam 1/20 Bhag Laxminaryan, Ishwar S/O Parbhatilal S/O Gopal Har Do Sambhag 1/20 Bhag Smt. Surajbai D/O Sadhu Singh S/O Jodha 1/8 Bhag Sunderlal S/O Smt. Kamalbai D/O Sadhu Singh 1/8</p>

					Bhag Smt. Saroj D/O ँ Smt. Shant Wd/ O Ramotar S/O Sadhu Singh Har Do Sambhag 1/20 Bhag Surender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 31/6640 Bhag Vasideh Smt. Savita Devi W/O Surender S/O Ramotar 27/1328 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Dharmender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Vasideh Smt. Manju Devi W/O Bijender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Vasi Kundali Tah. Sonipat Bijender S/O Ramotar S/O Sadhu Singh 67/13280 Bhag Smt. Anita W/O Dharmender S/O Ramotar 53/2656 Bhag Jagrup Singh, Jagdish Singh S/O ँ Kashmiri, Ombai, Kishna D/O Mul Singh Har Panch Sambhag 35/288 Bhag Pankaj S/O ँ Ponam D/O ँ Smt. Santosh Wd/O Shiv Kumar S/O Mul Singh Har 3 Sambhag 1/288 Bhga Padam Singh S/O Shispal 567/24940 Bhag Smt. Shakuntla W/O Shiv Kumar S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Smt. Rekha W/O Govind S/O Jagrup Singh 17/1247 Bhag Vasideh 18/9
45	29//1	Private	Agriculture	0.1543	Ratilal Singh S/O Maladu Singh S/O Prahalad Singh 160/417 Bhag Multan Singh S/O Rampal Singh S/O Chandu Singh 16/139 Bhag Brahama D/O ँ Roshan S/O Jasu Singh Urf Jhabar S/O Shyonath Singh Har Do Sambhag 209/417 Bhag Vasideh 29//1
46	29//10/1	Private	Agriculture	0.0708	Smt.Asha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 1/150 Bhag Omprakash S/O Chandgeeram S/O Gangaram 1/30 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 1/25 Bhag Shreepal, Jaynaryan, Shyoprasad S/O ँ Phulbai, Meva D/O Bishambar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 1/6 Bhag Vasideh Devendra Naresh Kumar S/O Bharat Singh 23/620 Bhag Vasi Manesar Ajeet Singh S/O Dhumiram S/O Matadeen 227/9300 Bhag Ishvar Singh S/O Kehar Singh S/O Ramchandra 1/75 Bhag W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 1/30 Bhag Vasideh 29//10/1
47	29//10/2	Private	Agriculture	0.0228	Gheesaram, Ramkavar, Sher Singh, Randheer, Meer Singh, Har 5 Sambhag7/64 Smt. Sunil W/O Ajit Singh S/O Ramkumar 7/320 Bhag Vasi Syana Smt.Asha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 1/150 Bhag Omprakash S/O Chandagi S/O

					Gangaram 1/30 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 1/25 Bhag Vasideh Devendra S/O Naresh Kumar S/O Bharat Singh 1/20 Bhag Manesar Shreepal, Jaynarayan, Shyoprasad व Phulbai, Meva D/O Bishambar S/O Gangaram Har Panch Sambhag Vasideh 1/6 Bhag Vasideh Ajeet Singh S/O Dhumiram S/O Matadeen 41/300 Bhag Vasi Manesar Dis. Gudgaon Ishvar Singh S/O Kehar Singh S/O Ramchandra 73/525 Bhag Vasi Khatkhadi Dis. Gudgaon Smt. Santosh W/O Aanand Prakash S/O Chandgiram 34/175 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash, Ajaysingh S/O व Smt.Asha, Usha D/O व Smt Ban Devi Wd/O Shreepal Singh Ramnarayan Har Sat Sambhag 1/40 Bhag Pradeep, Anil S/O व Babita D/O व Vimla Devi Wd/O Balveer S/O Bhatram Har Char Sambhag 7/320 Bhag Smt.Ratani Devi W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 1/30 Bhag Vasideh Mahesh Kumar S/O Ramkumar S/O Ganpat 7/320 Bhag Vasi Syana 29//10/2
48	29//11	Private	Agriculture	0.1518	Smt.Asha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 1/150 Bhag Omprakash S/O Chandgeeram S/O Gangaram 1/30 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 1/25 Bhag Shreepal, Jaynaryan, Shyoprasad S/O व Phulbai, Meva D/O Bishambar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 1/6 Bhag Vasideh Devendra Naresh Kumar S/O Bharat Singh 23/620 Bhag Vasi Manesar Ajeet Singh S/O Dhumiram S/O Matadeen 227/9300 Bhag Ishvar Singh S/O Kehar Singh S/O Ramchandra 1/75 Bhag W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 1/30 Bhag Vasideh 29//11
49	29//12	Private	Agriculture	0.2833	Smt.Asha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 1/150 Bhag Omprakash S/O Chandgeeram S/O Gangaram 1/30 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 1/25 Bhag Shreepal, Jaynaryan, Shyoprasad S/O व Phulbai, Meva D/O Bishambar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 1/6 Bhag Vasideh Devendra Naresh Kumar S/O Bharat Singh 23/620 Bhag Vasi Manesar Ajeet Singh S/O Dhumiram S/O Matadeen 227/9300 Bhag Ishvar Singh S/O Kehar Singh S/O Ramchandra

					1/75 Bhag W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 1/30 Bhag Vasideh 29//12
50	29//19	Private	Agriculture	0.263	<p>Bhagavani Wd/O Manphul Ramjilal 42/2099 Bhag Ramotar, Vedprakash S/O Manphul S/O Ramjilal Har Teen Sambhag 42/2099 Bhag Lali, Prembai D/O Manphul Ramjilal Har Do Sambhag 42/2099 Bhag Meva Wd/O ँ Ashok S/O Gujari Lal S/O Ramjilal Har Do Sambhag 15/2099 Bhag Hansraj, Radheshyam S/O ँ Vimala, Papu , Urmila, Nirmla D/O Guljari S/O Ramjilal Har 6 Sambhag 112/2099 Bhag Maniram S/O Ramjilal S/O Ganeshi 127/2099 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jayram 28/2099 Bhag Ramesh Singh, Ajay Singh, Vijay Singh, Prakash Singh S/O Amar Singh S/O Ramlal Har Char Sambhag 110/2099 Bhag Kamla, Guntanti, Bala, Rajesh, Sharada D/O Jagdeesh S/O Ramjeelal Har Panch Sambhag 215/4198 Bhag Vijay S/O Shivcharan S/O Ramjilal 12/2099 Bhag Smt. Sumitra Devi W/O Hansraj S/O Guljarilal S/O 298/2099 Bhag Devdat S/O Banvarilal S/O Ramjilal 4/2099 Bhag Manoj, Ishvar S/O Ravidat S/O Banvari Har Do Sambhag 13/18891 Bhag Dipanshu S/O Ravikumar S/O Ratan Singh 120/2099 Bhag Nirmla Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 68/2099 Bhag Balram, Naresh,L S/O Jagdeesh Har 2 Sambhag 2/4198 Manish S/O ँ Saroj D/O ँ Koshalya Wd/O ँ Murati Devi Mata Babulaha Char Sam Bhag 172/25188 Bhag Smt. Babita Devi W/O Dinesh S/O Ramkishan 20/18891 Krishan, Devendra S/O ँ Munni, Ramesh, Ombai, Suman D/O ँ Santra Wd/O Munshiram S/O Ramjilal Har Saat Sambhag 127/2099 Bhag Smt.Bhagvani Devi W/O Manphul 226/10495 Bhag Devdatt S/O Banvasilal 31/18891 Bhag Smt. Murti Devi W/O Jagdeesh Sharma 226/10495 Bhag Munshiram, Maniram Sharma S/O Ramjilal Sharma Har Do Sambhag 452/10495 Bhag, Krishnasharma S/O ँ Smt. Shakuntla Devi W/O Maniram S/O Ramji Lal Har Chaar 420/2099 Bhaag Santra Wd/O Munsu Ram S/O Ramjilal 1505/2099 Bhag Smt. Rameshwari Devi W/O Ravidutt S/O Banvarilal</p>

					105/2099 Bhagchampa Devi Wd/O Surajbhan S/O Amichand Har Panch Sambhag 525/2099 Bhag Vasideh 29//19
51	29//2	Private	Agriculture	0.3238	Akabar Kha, Mohammad Misha S/O Kamrudeen S/O Chhotan Har Do Sambhag 29//2
52	29//20	Private	Agriculture	0.172	Bhagavani Wd/O Manphul Ramjilal 42/2099 Bhag Ramotar, Vedprakash S/O Manphul S/O Ramjilal Har Teen Sambhag 42/2099 Bhag Lali, Prembai D/O Manphul Ramjilal Har Do Sambhag 42/2099 Bhag Meva Wd/O व Ashok S/O Gujari Lal S/O Ramjilal Har Do Sambhag 15/2099 Bhag Hansraj, Radheshyam S/O व Vimala, Papu , Urmila, Nirmla D/O Guljari S/O Ramjilal Har 6 Sambhag 112/2099 Bhag Maniram S/O Ramjilal S/O Ganeshi 127/2099 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jayram 28/2099 Bhag Ramesh Singh, Ajay Singh, Vijay Singh, Prakash Singh S/O Amar Singh S/O Ramlal Har Char Sambhag 110/2099 Bhag Kamla, Gunvanti, Bala, Rajesh, Sharada D/O Jagdeesh S/O Ramjeelal Har Panch Sambhag 215/4198 Bhag Vijay S/O Shivcharan S/O Ramjilal 12/2099 Bhag Smt. Sumitra Devi W/O Hansraj S/O Guljarilal S/O 298/2099 Bhag Devdat S/O Banvarilal S/O Ramjilal 4/2099 Bhag Manoj, Ishvar S/O Ravidat S/O Banvari Har Do Sambhag 13/18891 Bhag Dipanshu S/O Ravikumar S/O Ratan Singh 120/2099 Bhag Nirmla Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 68/2099 Bhag Balram, Naresh,L S/O Jagdeesh Har 2 Sambhag 2/4198 Manish S/O व Saroj D/O व Koshalya Wd/O व Murati Devi Mata Babulahar Char Sam Bhag 172/25188 Bhag Smt. Babita Devi W/O Dinesh S/O Ramkishan 20/18891 Krishan, Devendra S/O व Munni, Ramesh, Ombai, Suman D/O व Santra Wd/O Munshiram S/O Ramjilal Har Saat Sambhag 127/2099 Bhag Smt.Bhagvani Devi W/O Manphul 226/10495 Bhag Devdatt S/O Banvasilal 31/18891 Bhag Smt. Murti Devi W/O Jagdeesh Sharma 226/10495 Bhag Munshiram, Maniram Sharma S/O Ramjilal Sharma Har Do Sambhag 452/10495 Bhag, Krishnasharma S/O व Smt. Shakuntla

					Devi W/O Maniram S/O Ramji Lal Har Chaar 420/2099 Bhaag Santra Wd/O Munsu Ram S/O Ramjilal 1505/2099 Bhag Smt. Rameshwari Devi W/O Ravidutt S/O Banvarilal 105/2099 Bhagchampa Devi Wd/O Surajbhan S/O Amichand Har Panch Sambhag 525/2099 Bhag Vasideh 29//20
53	29//21/1	Private	Agriculture	0.1644	Bhagavani Wd/O Manphul Ramjilal 42/2099 Bhag Ramotar, Vedprakash S/O Manphul S/O Ramjilal Har Teen Sambhag 42/2099 Bhag Lali, Prembai D/O Manphul Ramjilal Har Do Sambhag 42/2099 Bhag Meva Wd/O व Ashok S/O Gujari Lal S/O Ramjilal Har Do Sambhag 15/2099 Bhag Hansraj, Radheshyam S/O व Vimala, Papu , Urmila, Nirmla D/O Guljari S/O Ramjilal Har 6 Sambhag 112/2099 Bhag Maniram S/O Ramjilal S/O Ganeshi 127/2099 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jayram 28/2099 Bhag Ramesh Singh, Ajay Singh, Vijay Singh, Prakash Singh S/O Amar Singh S/O Ramlal Har Char Sambhag 110/2099 Bhag Kamla, Gunvanti, Bala, Rajesh, Sharada D/O Jagdeesh S/O Ramjeelal Har Panch Sambhag 215/4198 Bhag Vijay S/O Shivcharan S/O Ramjilal 12/2099 Bhag Smt. Sumitra Devi W/O Hansraj S/O Guljarilal S/O 298/2099 Bhag Devdat S/O Banvarilal S/O Ramjilal 4/2099 Bhag Manoj, Ishvar S/O Ravidat S/O Banvari Har Do Sambhag 13/18891 Bhag Dipanshu S/O Ravikumar S/O Ratan Singh 120/2099 Bhag Nirmla Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 68/2099 Bhag Balram, Naresh,L S/O Jagdeesh Har 2 Sambhag 2/4198 Manish S/O व Saroj D/O व Koshalya Wd/O व Murati Devi Mata Babulahar Char Sam Bhag 172/25188 Bhag Smt. Babita Devi W/O Dinesh S/O Ramkishan 20/18891 Krishan, Devendra S/O व Munni, Ramesh, Ombai, Suman D/O व Santra Wd/O Munshiram S/O Ramjilal Har Saat Sambhag 127/2099 Bhag Smt.Bhagvani Devi W/O Manphul 226/10495 Bhag Devdatt S/O Banvasilal 31/18891 Bhag Smt. Murti Devi W/O Jagdeesh Sharma 226/10495 Bhag Munshiram, Maniram Sharma S/O Ramjilal Sharma Har Do Sambhag 452/10495 Bhag,

					Krishnasharma S/O व Smt. Shakuntla Devi W/O Maniram S/O Ramji Lal Har Char 420/2099 Bhaag Santra Wd/O Munsu Ram S/O Ramjilal 1505/2099 Bhag Smt. Rameshwari Devi W/O Ravidutt S/O Banvarilal 105/2099 Bhagchampa Devi W/O Surajbhan S/O Amichand Har Panch Sambhag 525/2099 Bhag Vasideh 29//21/1
54	29//21/2	Government	Canal	0.0278	Haryana Govt. 29//21/2
55	29//22/1	Private	Agriculture	0.2099	Bhagavani Wd/O Manphul Ramjilal 42/2099 Bhag Ramotar, Vedprakash S/O Manphul S/O Ramjilal Har Teen Sambhag 42/2099 Bhag Lali, Prembai D/O Manphul Ramjilal Har Do Sambhag 42/2099 Bhag Meva Wd/O व Ashok S/O Gujari Lal S/O Ramjilal Har Do Sambhag 15/2099 Bhag Hansraj, Radheshyam S/O व Vimala, Papu , Urmila, Nirmla D/O Guljari S/O Ramjilal Har 6 Sambhag 112/2099 Bhag Maniram S/O Ramjilal S/O Ganeshi 127/2099 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jayram 28/2099 Bhag Ramesh Singh, Ajay Singh, Vijay Singh, Prakash Singh S/O Amar Singh S/O Ramlal Har Char Sambhag 110/2099 Bhag Kamla, Gunvanti, Bala, Rajesh, Sharada D/O Jagdeesh S/O Ramjeelal Har Panch Sambhag 215/4198 Bhag Vijay S/O Shivcharan S/O Ramjilal 12/2099 Bhag Smt. Sumitra Devi W/O Hansraj S/O Guljarilal S/O 298/2099 Bhag Devdat S/O Banvarilal S/O Ramjilal 4/2099 Bhag Manoj, Ishvar S/O Ravidat S/O Banvari Har Do Sambhag 4/2099 Bhag Dipanshu S/O Ravikumar S/O Ratan Singh 120/2099 Bhag Nirmla Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 68/2099 Bhag Balram, Naresh, Manish S/O व Saroj D/O व Koshalya Wd/O व Murati Devi Mata Babulal S/O Jagdeesh Har 6 Sambhag 43/4198 Bhag Krishan, Devendra S/O व Munni, Ramesh, Ombai, Suman D/O व Santra Wd/O Munshiram S/O Ramjilal Har Saat Sambhag 127/2099 Bhag Smt. Bhagvani Devi W/O Manphul 226/10495 Bhag Devdatt S/O Banvasilal 226/10495 Bhag Smt. Murti Devi W/O Jagdeesh Sharma 226/10495 Bhag Munshiram, Maniram Sharma S/O Ramjilal Sharma Har Do Sambhag 452/10495 Bhag Ramautar,

					Krishnasharma S/O ँ Premlata, Krishan D/O ँ Champa Devi Wd/O Surajbhan S/O Amichand Har Panch Sambhag 525/2099 Bhag Vasideh 29/22/1
56	29/22/2	Government	Canal	0.0329	Haryana Govt. 29/22/2
57	29/9/1	Private	Agriculture	0.1012	Akabar Kha, Mohammad Misha S/O Kamrudeen S/O Chhotan Har Do Sambhag 29/9/1
58	29/9/2	Private	Agriculture	0.1568	Smt.Asha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 1/150 Bhag Omprakash S/O Chandgeeram S/O Gangaram 1/30 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 1/25 Bhag Shreepal, Jaynaryan, Shyoprasad S/O ँ Phulbai, Meva D/O Bishambar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 1/6 Bhag Vasideh Devendra Naresh Kumar S/O Bharat Singh 23/620 Bhag Vasi Manesar Ajeet Singh S/O Dhumiram S/O Matadeen 227/9300 Bhag Ishvar Singh S/O Kehar Singh S/O Ramchandra 1/75 Bhag W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 1/30 Bhag Vasideh 29/9/2
59	34/1/1	Government	Canal	0.0455	Haryana Govt. 34/1/1
60	34/1/2	Private	Agriculture	0.1695	Shyoratan S/O ँ Minabai, Laxmibai D/O Udey Singh S/O Bhavar Singh Har Teen Sambhag 36/4465 Bhag Manbai, Mevabai, Kuntibai S/O Bhavar Singh S/O Anji Singh Har Teen Sambhag 53/893 Bhag Chhaju Singh S/O Matu Singh 15/893 Bhag Suresh S/O Matusingh 8/893 Bhag Megha Singh S/O Anji Singh S/Osultan Singh 43/893 Bhag Smt. Birmati W/O Jabar Singh S/O Megh Singh 20/387 Bhag Mamraj Singh, Mansingh S/O Vijaypal Singh S/O Anji Singh Har Do Sambhag 56/893 Bhag Dhum Singh S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh 17/893 Bhag Rampal, Singh Ramautar Singh, Tara Singh , Mukesh Singh, Jagmohan, Naresh S/O Shimbhu Singh S/O Umarav Singh Har 6 Sambhag 53/893 Bhag Rajesh Kumar, Rakesh Kumar S/O Ranjit Singh S/O Richhpal Singh Har Do Sambhag 10893 Bhag Jayveer S/O Gajraj Singh S/O Chhaju Singh 36/893 Bhag Smt.Nirmala Devi W/O Suresh Singh S/O Matu Singh 7/893 Bhag Smt.Manju Devi W/O Sarajeet Singh S/O Matu Singh 14/893 Bhag Adanee

					Power Limited Rajistared Office Sikhar Najdeek Mithavali 6 Raod Navarangpura Ahamdabad (Gujrat) 380009 Bhag 31/893 Bhag Smt.Anguri Devi Wd/O व Smt.Taramani, Dinesh D/O व Sukhpal Singh S/O Ratipal S/O Anji Singh Har Char Sambhag 552/4465 Bhag Dharmpal, Sukhveer, Dharmveer S/O व Mithalesh, Suresh, Guddi D/O व Maina Wd/O Phateh Singh S/O Anji Singh Har Saaat Sambhag 56/893 Bhag Vijaypal S/O Anji Singh S/O Sultan Singh 274710/904609 Bhag Smt.Shalu Devi W/O Sunil Kumar S/O Mahendra Singh 10/1013 Bhag Praveen, Navin S/O व Mamata D/O व Smt.Kamalesh Devi Wd/O Chitar Singh S/O Ratipal Har Saat Sambhag 138/4465 Bhag Ajit Singh, Hariom S/O Udey Singh S/O Bhavar Singh Har Do Sambhag 54/4465 Bhag Vimala Wd/O Ompal S/O Bhavar Singh 3/893 Bhag Kuldeep S/O Ompal S/O Bhavar Singh 3/893 Bhag Smt.Manju W/O Shyam Singh S/O Gajraj Singh 6/893 Bhag Vasideh 34//1/2
61	34//10	Private	Agriculture	0.2327	Shyoratan S/O व Minabai, Laxmibai D/O Udey Singh S/O Bhavar Singh Har Teen Sambhag 36/4465 Bhag Manbai, Mevabai, Kuntibai S/O Bhavar Singh S/O Anji Singh Har Teen Sambhag 53/893 Bhag Chhaju Singh S/O Matu Singh 15/893 Bhag Suresh S/O Matusingh 8/893 Bhag Megha Singh S/O Anji Singh S/Osultan Singh 43/893 Bhag Smt. Birmati W/O Jabar Singh S/O Megh Singh 20/387 Bhag Mamraj Singh, Mansingh S/O Vijaypal Singh S/O Anji Singh Har Do Sambhag 56/893 Bhag Dhum Singh S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh 17/893 Bhag Rampal, Singh Ramautar Singh, Tara Singh , Mukesh Singh, Jagmohan, Naresh S/O Shimbhu Singh S/O Umarav Singh Har 6 Sambhag 53/893 Bhag Rajesh Kumar, Rakesh Kumar S/O Ranjit Singh S/O Richhpal Singh Har Do Sambhag 10893 Bhag Jayveer S/O Gajraj Singh S/O Chhaju Singh 36/893 Bhag Smt.Nirmala Devi W/O Suresh Singh S/O Matu Singh 7/893 Bhag Smt.Manju Devi W/O Sarajeet Singh S/O Matu Singh 14/893 Bhag Adanee Power Limited Rajistared Office Sikhar Najdeek Mithavali 6 Raod

					<p>Navarangpura Ahamdabad (Gujrat) 380009 Bhag 31/893 Bhag Smt.Anguri Devi Wd/O व Smt.Taramani, Dinesh D/O व Sukhpal Singh S/O Ratipal S/O Anji Singh Har Char Sambhag 552/4465 Bhag Dharmpal, Sukhveer, Dharmveer S/O व Mithalesh, Suresh, Guddi D/O व Maina Wd/O Phateh Singh S/O Anji Singh Har Saaat Sambhag 56/893 Bhag Vijaypal S/O Anji Singh S/O Sultan Singh 274710/904609 Bhag Smt.Shalu Devi W/O Sunil Kumar S/O Mahendra Singh 10/1013 Bhag Praveen, Navin S/O व Mamata D/O व Smt.Kamalesh Devi Wd/O Chitar Singh S/O Ratipal Har Saat Sambhag 138/4465 Bhag Ajit Singh, Hariom S/O Udey Singh S/O Bhavar Singh Har Do Sambhag 54/4465 Bhag Vimala Wd/O Ompal S/O Bhavar Singh 3/893 Bhag Kuldeep S/O Ompal S/O Bhavar Singh 3/893 Bhag Smt.Manju W/O Shyam Singh S/O Gajraj Singh 6/893 Bhag Vasideh 34//10</p>
62	34//11	Private	Agriculture	0.2529	<p>Shyoratan S/O व Minabai, Laxmibai D/O Udey Singh S/O Bhavar Singh Har Teen Sambhag 36/4465 Bhag Manbai, Mevabai, Kuntibai S/O Bhavar Singh S/O Anji Singh Har Teen Sambhag 53/893 Bhag Chhaju Singh S/O Matu Singh 15/893 Bhag Suresh S/O Matusingh 8/893 Bhag Megha Singh S/O Anji Singh S/Osultan Singh 43/893 Bhag Smt. Birmati W/O Jabar Singh S/O Megh Singh 20/387 Bhag Mamraj Singh, Mansingh S/O Vijaypal Singh S/O Anji Singh Har Do Sambhag 56/893 Bhag Dhum Singh S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh 17/893 Bhag Rampal, Singh Ramautar Singh, Tara Singh , Mukesh Singh, Jagmohan, Naresh S/O Shimbhu Singh S/O Umarav Singh Har 6 Sambhag 53/893 Bhag Rajesh Kumar, Rakesh Kumar S/O Ranjit Singh S/O Richhpal Singh Har Do Sambhag 10893 Bhag Jayveer S/O Gajraj Singh S/O Chhaju Singh 36/893 Bhag Smt.Nirmala Devi W/O Suresh Singh S/O Matu Singh 7/893 Bhag Smt.Manju Devi W/O Sarajeet Singh S/O Matu Singh 14/893 Bhag Adanee Power Limited Rajistared Office Sikhar Najdeek Mithavali 6 Raod Navarangpura Ahamdabad (Gujrat) 380009 Bhag 31/893 Bhag Smt.Anguri</p>

					Devi Wd/O व Smt.Taramani, Dinesh D/O व Sukhpal Singh S/O Ratipal S/O Anji Singh Har Char Sambhag 552/4465 Bhag Dharmpal, Sukhveer, Dharmveer S/O व Mithalesh, Suresh, Guddi D/O व Maina Wd/O Phateh Singh S/O Anji Singh Har Saaat Sambhag 56/893 Bhag Vijaypal S/O Anji Singh S/O Sultan Singh 274710/904609 Bhag Smt.Shalu Devi W/O Sunil Kumar S/O Mahendra Singh 10/1013 Bhag Praveen, Navin S/O व Mamata D/O व Smt.Kamalesh Devi Wd/O Chitar Singh S/O Ratipal Har Saat Sambhag 138/4465 Bhag Ajit Singh, Hariom S/O Udey Singh S/O Bhavar Singh Har Do Sambhag 54/4465 Bhag Vimala Wd/O Ompal S/O Bhavar Singh 3/893 Bhag Kuldeep S/O Ompal S/O Bhavar Singh 3/893 Bhag Smt.Manju W/O Shyam Singh S/O Gajraj Singh 6/893 Bhag Vasideh 34//11
63	34//12/1	Private	Agriculture	0.1821	Shyoratan S/O व Minabai, Laxmibai D/O Udey Singh S/O Bhavar Singh Har Teen Sambhag 1/252 Bhag Meva, Kuntibai, Manbai D/O Bhavar Singh S/O Anji Singh Har Teen Sambhag 5/84 Bhag Vijaypal Singh S/O Anji Singh 2/9 Bhag Megh Singh S/O Anji Singh 1/6 Bhag Dharmpal Singh, Dharmveer Singh, Sukhveer S/O व Mithalesh, Sursh Devi, Guddi D/O व Maina Devi Wd/O Phateh Singh S/O Anji Singh Har Saat Sambhag 1/6 Bhag Smt.Anguri Devi Wd/O व Smt.Taramani, Dinesh D/O व Sukhpal Singh S/O Ratipal Singh S/O Anji Singh Har Char Sambhag 2/15 Bhag Rajbal Wd/O Uday Singh S/O Bhavar Singh 125/1512 Bhag Praveen, Naveen S/O व Mamata D/O व Smt.Kamalesh Devi Wd/O Chitar Singh S/O Ratipal Har Char Sambhag 1/30 Bhag Ajit Singh, Hariom Singh S/O Uaday Singh S/O Bhavar Singh Har Do Sambhag 17/756 Bhag Vimala W/O Ompal Singh S/O Bhavar Singh 5/63 Bhag Kuldeep S/O Ompal S/O Bhavar Singh 5/168 Bhag Vasideh 34//12/1
64	34//19/2	Private	Agriculture	0.1492	Shivlral, Chhotelal S/O Thakuram Har Do Sambhag 1/5 Bhag Tarachand, Harishchand S/O Lalchand S/O

					<p>Chiranji Har Do Sambhag 2/135 Bhag Mahaveer S/O Salagram S/O Chiranji 1/45 Bhag Sadhu, Kainhaya, Gajanand S/O Har Teen Sambhag 1/135 Bhag Paras, Moti, Deepak Kumar S/O व Kusum, Sushila D/O Mulchand S/O Hardvari Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Maidhan S/O Maturam S/O Ganeshilal 1/45 Bhag Nareshchand, Rameshchand, Vedprakash, Brajmohan S/O व Taramani,</p> <p>Kusamlata D/O व Mishri Wd/O Amar Singh Har Saat Sambhag 1/45 Bhag Norang, Khushiram S/O Mathuraprasad S/O Ganeshi Har Do Sambhag 1/45 Bhag Aanad Kumar S/O Bhuramal S/O Murarilal 1/75 Bhag Umarav S/O Ganapatram S/O Lakhiram 1/75 Bhag Rupram S/O Tokhram 1/75 Bhag Shakuntala, Sheela D/O Jyotiprasad S/O Lakhiram Har Do Sambhag 2/225 Bhag Mithalesh, Kamalesh, Suresh D/O व Pavan Kumar S/O व Sharada Wd/O Rajendraprasad Har Panch Sambhag 1/270 Bhag Bhagamal, Roshanlal, Madanlal, Satyanarayan S/O Pyorelal S/O Likhram Har Char Sambhag 1/75 Bhag Munaram S/O Lalaram Govindaram 1/10 Bhag Hari, Shimbhu, Laxmiram S/O Sundarlal S/O Ramsvarup Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Ratilal, Chhotelal S/O Ramsvarup Har Do Sambhag 1/15 Bhag Dadaka Wd/O Ramchandra S/O Ramlal 1/30 Bhag Laxminarayan, Sitaram, Manphul S/O Joharilal S/O Ramdayal Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Savatri Wd/O व Ramautar S/O व Shakuntala, Vidha D/O Badariprasad S/O Ramnarayan Har Char Sambhag 1/30 Bhag Hardvarilal S/O Banshidhar S/O Ramnath 1/30 Bhag Kailashchand S/O व Vimla D/O Dhisaram S/O Mahadevprasad Har Do Sambhag 1/30 Bhag Mamraj Singh, Mansingh S/O Vijaypal Singh S/O Anji Singh Har Do Sambhag 3/50 Bhag Revati Bai D/O Sarupchand 3/50 Bhag Maheshchand S/O व Pushpa, Premlata, Lali D/O व Ganga Wd/O Omprakash S/O Savarupchand Har Panch Sambhag 1/25 Bhag Ramautar, Ramgopal, Ramtirth, Trilokchand, Ganeshilal, Yogeshchand S/O व Tarbai, Vimla, Manju Devi D/O Kisturilal S/O Svarupchand Har 9 Sambhag 1/25</p>
--	--	--	--	--	--

					Bhag Sachin, Uatsav S/O व Smt.Renu Wd/O Ashavani Kumar S/O Rajendra Prasad Har Teen Sambhag 1/1350 Bhag Manohar S/O व Kanta Devi D/O Basantibai D/O Shreeram Har Do Sambhag 1/60 Bhag Shilichana, Taramani, Indra, Krishan D/O Satyanarayan S/O Har Char Sambhag 1/90 Bhag Kanta Wd/O Gopiram S/O Satyanarayan 1/360 Bhag Suman, Vinni, Annu D/O व Madhubala Wd/O Harishankar S/O Satyanarayan Har Char Sambhag 1/360 Bhag Vasideh 34/19/2
65	34/2/1	Government	Canal	0.0506	Haryana Govt. 34/2/1
66	34/2/2	Private	Agriculture	0.1695	Hawa Singh, Ram Singh, Omprakash, Mahendra Singh S/O Surajram S/O Chetram Har Char Sambhag 4/125 Bhag Rajbala D/O Harphul Singh S/O Shyonath Singh 1/30 Bhag Shyoratan Singh S/O Sadhu Singh 361/5000 Bhag Norag Singh S/O Sadhu Singh 107/5000 Bhag Sunil S/O Omkar 19/3000 Bhag Tejpal S/O Sadhu Singh 29/1250 Bhag Dharmveer S/O Ramsvarup S/O Chhajjuram 27/5000 Bhag Smt. Jagan Devi Wd/O Pratap Singh S/O Shyonath Singh 1/20 Bhag Udaypal Singh, Krishan Singh, Mahendra Singh S/O Ompal Singh S/O Pratap Singh Har Teen Sambhag 3/20 Bhag Vijay Laxmi, Savatri D/O Harphul Singh S/O Shyonath Singh Har Do Sambhag 22/375 Bhag Manju D/O व Vimala Wd/O Ravindar Singh Hr Do Sambhag 23/1000 Bhag Ashok S/O Ravindar Singh 23/2000 Bhag Somveer S/O Tejpal S/O Sadhu Singh 83/5000 Bhag Samandar Pal Singh S/O Chandan Singh 167/3000 Bhag Shyambai, Vimala D/O Chandan Singh Har Do Sambhag 667/7500 Bhag Guddi Anita D/O Ratipal Singh S/O Chandan Singh Har Do Sambhag 117/12500 Bhag Satyaveer S/O व Suman D/O 7 Ramveti Wd/O Ratipal Singh S/O Chandan Singh Har Teen Sambhag 191/25000 Bhag Suman Devi W/O Rajkumar S/O Dharmveer 4/625 Bhag Jaipal Singhs/O Rughnath Singh S/O Phool Singh 76/5013 Bhag Bhag Punam D/O Ravindar Singh Smt.Kanta Devi W/O Ramnivas S/O Bhavar Singh 1/125 Bhag Braham Jeet, Rajkumar S/O Omkar Har Do Sambhag 4/375 Bhag Smt.Bhagal

					<p>W/O Shyoratan S/O Sadhu Singh 1/500 Bhag Natthu Singh S/O Sadhu Singh 101261/12532500 Bhag Vasideh Puja D/O Bhanu S/O Javahar Singh 154/5013 Bhag Vasi Vas Khusala Teh. ँ Dist. Gudgaon Ramnivas, Shyopal Singh S/O Bhavar Singh S/O Makatul Singh Har Do Sambhag 1/10 Bhag Gheesa Singh, Gurdayal Singh, Hansraj Singh S/O ँ Prita Devi , Babita Devi D/O Badari Singh S/O Makatul Singh Har Panch Sambhag 1/10 Bhag Pavan Kumar, Rajesh Kumar S/O ँ Anitabai D/O ँ Aashadevi Wd/O Surendra Singh S/O Harphul Har Char Sambhag 251/5000 Bhag Vasideh 34/2/2</p>
67	34/20	Private	Agriculture	0.2504	<p>Shivlal, Chhotelal S/O Thakuram Har Do Sambhag 1/5 Bhag Tarachand, Harishchand S/O Lalchand S/O Chiranji Har Do Sambhag 2/135 Bhag Mahaveer S/O Salagram S/O Chiranji 1/45 Bhag Sadhu, Kainhaya, Gajanand S/O Har Teen Sambhag 1/135 Bhag Paras, Moti, Deepak Kumar S/O ँ Kusum, Sushila D/O Mulchand S/O Hardvari Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Maidhan S/O Maturam S/O Ganeshilal 1/45 Bhag Nareshchand, Rameshchand, Vedprakash, Brajmohan S/O ँ Taramani, Kusamlata D/O ँ Mishri Wd/O Amar Singh Har Saat Sambhag 1/45 Bhag Norang, Khushiram S/O Mathuraprasad S/O Ganeshi Har Do Sambhag 1/45 Bhag Aanad Kumar S/O Bhuramal S/O Murarilal 1/75 Bhag Umarav S/O Ganapatram S/O Lakhiram 1/75 Bhag Rupram S/O Tokhram 1/75 Bhag Shakuntala, Sheela D/O Jyotiprasad S/O Lakhiram Har Do Sambhag 2/225 Bhag Mithalesh, Kamalesh, Suresh D/O ँ Pavan Kumar S/O ँ Sharada Wd/O Rajendraprasad Har Panch Sambhag 1/270 Bhag Bhagamal, Roshanlal, Madanlal, Satyanarayan S/O Pyorelal S/O Likhram Har Char Sambhag 1/75 Bhag Munaram S/O Lalaram Govindaram 1/10 Bhag Hari, Shimbhu, Laxmiram S/O Sundarlal S/O Ramsvarup Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Ratilal, Chhotelal S/O Ramsvarup Har Do Sambhag 1/15 Bhag Dadaka Wd/O Ramchandra S/O Ram Lal 1/30 Bhag Laxminarayan,</p>

					<p>Sitaram, Manphul S/O Joharilal S/O Ramdayal Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Savatri Wd/O व Ramautar S/O व Shakuntala, Vidha D/O Badariprasad S/O Ramnarayan Har Char Sambhag 1/30 Bhag Hardvarilal S/O Banshidhar S/O Ramnath 1/30 Bhag Kailashchand S/O व Vimla D/O Dhisaram S/O Mahadevprasad Har Do Sambhag 1/30 Bhag Mamraj Singh, Mansingh S/O Vijaypal Singh S/O Anji Singh Har Do Sambhag 3/50 Bhag Revati Bai D/O Sarupchand 3/50 Bhag Maheshchand S/O व Pushpa, Premlata, Lali D/O व Ganga Wd/O Omprakash S/O Savarupchand Har Panch Sambhag 1/25 Bhag Ramautar, Ramgopal, Ramtirth , Trilokchand, Ganeshilal, Yogeshchand S/O व Tarbai, Vimla , Manju Devi D/O Kisturilal S/O Svarupchand Har 9 Sambhag 1/25 Bhag Sachin, Uatsav S/O व Smt.Renu Wd/O Ashavani Kumar S/O Rajendra Prasad Har Teen Sambhag 1/1350 Bhag Manohar S/O व Kanta Devi D/O Basantibai D/O Shreeram Har Do Sambhag 1/60 Bhag Shilichana, Taramani, Indra, Krishan D/O Satyanarayan S/O Har Chaar Sambhag 1/90 Bhag Kanta Wd/O Gopiram S/O Satyanarayan 1/360 Bhag Suman, Vinni, Annu D/O व Madhubala Wd/O Harishankar S/O Satyanarayan Har Char Sambhag 1/360 Bhag Vasideh 34//20</p>
68	34//21	Private	Agriculture	0.3035	<p>Smt.Anara Wd/O Gokalsingh S/O Bahadar Singh 69/1244 Bhag Jahar Singh, Samundarpal Singh , Ramesh S/O व Smt.Kanhabai Wd/O व Smt.Kela, Sahodara, Vimla, Magana D/O Saval Singh S/O Bahadar Singh Har 8 Sambhag 207/622 Bhag Ramkavar Singh S/O व Smt.Murtibai, Ghoghadi Bai, Uarmila, Nirmila D/O व Smt. Saravati Wd/O Richhpal Singh S/O Bahadar Singh Har 6 Sambhag 69/311 Bhag Jagat Singh, Prakash S/O व Smt.Shakuntala D/O Richhpal Singh S/O Bahadar Singh Har Teen Sambhag 11/622 Bhag Vasideh Ramveer Singh, Indrajeet Singh S/O Nihalsingh S/O Hajarilal Singh Har Do Sambhag 117/1244 Bhag Vasi Sehlang Smt.Kamla Devi, Sunita Devi, Resham Devi, Manju Devi Ramrati Devi,</p>

					Sunnubai, Sumanbai D/O ँ Smt. Anguri Devi Wd/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh Har 8 Sambhag 61/1244 Bhag Savai Singh S/O Gokul Singh S/O Bahadar Singh 41/311 Bhag Rajendra Singh S/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh 86157/2932108 Bhag Smt. Chandaro Devi W/O Manphul Singh S/O Bakhtavar 160/2357 Bhag Vasideh 34/21
69	34/22/1	Private	Agriculture	0.0809	Atar Singh, Matu Singh, Satpal Singh S/O ँ Phulbai, Santra D/O Rohatash Singh S/O Gahad Singh Har Panch Sambhag 5/8 Bhag Suresh S/O ँ Shakuntala Wd/O Manphul Singh S/O Rohtash Har Do Sambhag 1/8 Bhag Ompal Singh, Aanand Singh, Mukesh Singh S/O ँ Sushil D/O ँ Phulbai Wd/O Gajraj S/O Rohatash Har Panch Sambhag 1/8 Bhag Naresh Singh, Shivkumar S/O ँ Sunita D/O ँ Chando Devi Wd/O Rajveer Singh S/O Rohtash Har Char Sambhag 1/8 Bhag Vasideh 34/22/1
70	34/22/2	Private	Agriculture	0.0404	Smt. Sushama Devi W/O Ashvani Kumar S/O Chandagiram 1/2 Bhag Kanta Devi W/O Rajpal Chandagiram 1/2 Bhag Vasideh 34/22/2
71	34/22/3	Private	Agriculture	0.0152	Makatul Singh, Sadhu Singh, Amar Singh, Chitarayuj Singh, Shyoratan Singh S/O ँ Amarbai D/O ँ Manbai Wd/O Banisingh S/O Gahad Singh Har Saat Sambhag Vasideh 34/22/3
72	34/9	Private	Agriculture	0.2023	Samandrapal S/O Chandan Singh Shyonath Singh 1/72 Bhag Ashok S/O ँ Anju, Punam D/O ँ Vimala Wd/O Ravindra Singh S/O Harphul Singh Har Chaar Sambhag 1/20 Bhag Vijaylaxmi, Savatri, Rajbala D/O Harphul Har Teen Sambhag 1/10 Bhag Shyoratan S/O Sadhu Singh S/O Shyonath Singh 19/480 Bhag Natthu Singh S/O Sadhu Singh S/O Shyonath Singh 1/60 Bhag Norag Singh S/O Sadhu Singh S/O Shyonath Singh 107/960 Bhag Brahamjeet Singh, Rajkumar, Sunil S/O Omkar Singh S/O Sadhu Singh Har Teen Sambhag 1/64 Bhag Smt. Jagana Devi Wd/O Pratap Singh S/O Shyonath Singh 11/120 Bhag Udaypal Singh, Krishan Singh, Mahendra Singh S/O Ompal

					Singh S/O Pratap Singh Har Teen Sambhag 11/40 Bhag Satyaveer S/O व Guddi, Suman, Anita D/O व Ramvati Wd/O Ratipal Singh S/O Chandan Singh Har Panch Sambhag 1/72 Bhag Shyambai, Vimala D/O Chandan Singh Har Do Sambhag 1/180 Bhag Ramnivas, Shyopal Singh S/O Bhavar Singh S/O Makatul Singh Har Do Sambhag 1/10 Bhaah Ghisa Singh, Guradayal Singh, Hansaraj Singh S/O व Prita Devi, Babita Devi D/O Badari Singh S/O Makatul Singh Har Panch Sambhag 1/10 Bhag Pavan Kumar, Rajesh Kumar S/O व Anitabai D/O व Aashadevi Wd/O Surendra Singh Harphul Har Chaar Sambhag 1/20 Bhag Vasideh 34/9
73	46/25	Private	Agriculture	0.0025	Sharavati, Murti D/O Jhutha Singh S/O Sher Singh Har Do Sambhag 2/3 Bhag Baljeet Dattak S/O व Shreepal Dattak Rajendra Dattak S/O Manphul Singh S/O Bakhtavar Singh Har Teen Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 46/25
74	47/1	Private	Agriculture	0.3238	Setharam, Ramanand S/O व Rambai Vidha, Anguri, Savita D/O Phuliya S/O Jairam Har 6 Sambhag 3/14 Bhag Kela D/O Phuliya Jairam 1/224 Bhag Vasideh Sitaram S/O व Smt.Kanta, Mamata, Rajbala, Aasha , Punam D/O Smt.Kela Devi S/O Phool Singh Har 6 Sambhag 1/32 Bhag Vasi Vasi Bhooras Jhajjar Narendra, Sundar, Naresh S/O व Ramesh D/O व Chandro Wd/O Mahaveer S/O Jayram Har Panch Sambhag 5/24 Bhag Ramkumar S/O Jayram 67/24648 Bhag Vasideh Smt.Lado Devi W/O Surendra S/O 40/1027 Bhag Vasi Karol Dis.Revadi Sushama Devi W/O Ashvani S/O Chandagiram 1/8 Bhag Vasi Chakrapur Kanta Devi W/O Rajpal S/O Chandagiram 1/8 Bhag Vasi Chakrapur 47/1
75	47/10	Private	Agriculture	0.344	Jaybai D/O Chandar S/O Ramu Singh 261/1565 Bhag Satyapal S/O Amar Singh S/O Chandar Singh 52/1565 Bhag Bijendra Kumar, Suresh Kumar S/O Chhailuram S/O Shyoprasad Har Do Sambhag 156/1565 Bhag Gajraj Singh S/O Rohatash Singh 52/1565 Bhag Roshanlal S/O Khubiram S/O Parashram 81/3130 Bhag Ramkavar

					<p>Singh, Omprakash Singh S/O Richhpal Singh S/O Bahadur Singh Har Do Sambhag 87/1565 Bhag Smt.Sukhada Kumari W/O Mamraj Singh S/O Rohatash Singh87/1565 Bhag Baljeet S/O Amarsingh S/O 17/1565 Bhag Jagat Singh S/O Richhpal Singh S/O 77/1565 Bhag Shakuntala Devi W/O Bahadar Singh S/O Gopiram 74/1567 Bhag Sushil Devi W/O Shivkumar S/O Bishmabardayal 37/1567 Bhag Smt.Sajana Devi W/O Shishpal Singh S/O Chandra Singh 261/3130 Bhag Padam Singh S/O Shishpal Singh S/O Chandar Singh 491063/4904710 Bhag Pradeep Kumar S/O ँ Smt.Shakuntala Wd/O Ratan Singh S/O Shishpal Singh Har Do Sambhag 87/3130 Bhag Bhavar Singh , Sarjeet Singh S/O Shishpal Chandra Singh Har Teen Sambhag 261/3130 Bhag Smt.Rajesh Devi W/O Satyapal Singh S/O Amar Singh 86/1565 Bhag Vasideh Shadi S/O Amichand S/O Gangaram 81/3130 Bhag Vasi Baskusala Teh. Gudgaon 47//10</p>
76	47//11	Private	Agriculture	0.3642	<p>Jaybai D/O Chandar S/O Ramu Singh 261/1565 Bhag Satyapal S/O Amar Singh S/O Chandar Singh 52/1565 Bhag Bijendra Kumar, Suresh Kumar S/O Chhailuram S/O Shyoprasad Har Do Sambhag 156/1565 Bhag Gajraj Singh S/O Rohatash Singh 52/1565 Bhag Roshanlal S/O Khubiram S/O Parashram 81/3130 Bhag Ramkavar Singh, Omprakash Singh S/O Richhpal Singh S/O Bahadur Singh Har Do Sambhag 87/1565 Bhag Smt.Sukhada Kumari W/O Mamraj Singh S/O Rohatash Singh87/1565 Bhag Baljeet S/O Amarsingh S/O 17/1565 Bhag Jagat Singh S/O Richhpal Singh S/O 77/1565 Bhag Shakuntala Devi W/O Bahadar Singh S/O Gopiram 74/1567 Bhag Sushil Devi W/O Shivkumar S/O Bishmabardayal 37/1567 Bhag Smt.Sajana Devi W/O Shishpal Singh S/O Chandra Singh 261/3130 Bhag Padam Singh S/O Shishpal Singh S/O Chandar Singh 491063/4904710 Bhag Pradeep Kumar S/O ँ Smt.Shakuntala Wd/O Ratan Singh S/O Shishpal Singh Har Do Sambhag 87/3130 Bhag Bhavar Singh , Sarjeet Singh S/O Shishpal Chandra Singh Har Teen Sambhag 261/3130 Bhag Smt.Rajesh Devi W/O Satyapal Singh S/O Amar Singh 86/1565 Bhag Vasideh Shadi S/O Amichand S/O Gangaram</p>

					81/3130 Bhag Vasi Baskusala Teh. Gudgaon 47//11
77	47//12	Private	Agriculture	0.0708	Ramnarayan Singh, Jaynarayan Singh, Amar Singh, Chhatrapal Singh S/O व Smt.Santra Bai, Agibai D/O व Smt.Sarbai Wd/O Matusingh S/O Ramratan Har Saat Sambhag 428/611 Bhag Shyopal Singh S/O Matusingh S/O Ramratan 20/611 Bhag Gangapal Singh S/O Matusingh S/O Ramratan 41/611 Bhag Laxman Singh, Pradeep Kumar S/O व Pista Devi Wd/O Shyonarayan S/O Matu Har Teen Sambhag 81/611 Bhag Smt.Sushama Devi W/O Ashvani Kumar S/O Chnadagiram 1/1222 Bhag Kanta Devi W/O Rajpal S/O Chandagiram 1/1222 Bhag Vasideh Jagdeesh S/O Samay Singh S/O Goradhan 40/611 Bhag Vasi Kasan Teh.Manesar 47//12
78	47//19	Private	Agriculture	0.0506	Jagadeesh Singh, Sarjeet Singh, S/O व Smt.Kirana, Uarmila D/O Ruda S/O Ramratan Har Char Sambhag 4/5 Bhag Devendra, Laleet, Dharmendra S/O Smt.Chitara D/O Ruda Har Teen Sambhag 1/5 Bhag Vasideh 47//19
79	47//2	Private	Agriculture	0.1113	Setharam, Ramanand S/O व Rambai Vidha, Anguri, Savita D/O Phuliya S/O Jairam Har 6 Sambhag 3/14 Bhag Kela D/O Phuliya Jairam 1/224 Bhag Vasideh Sitaram S/O व Smt.Kanta, Mamata, Rajbala, Aasha , Punam D/O Smt.Kela Devi S/O Phool Singh Har 6 Sambhag 1/32 Bhag Vasi Vasi Bhooras Jhajjar Narendra, Sundar, Naresh S/O व Ramesh D/O व Chandro Wd/O Mahaveer S/O Jayram Har Panch Sambhag 5/24 Bhag Ramkumar S/O Jayram 67/24648 Bhag Vasideh Smt.Lado Devi W/O Surendra S/O 40/1027 Bhag Vasi Karol Dis.Revadi Sushama Devi W/O Ashvani S/O Chandagiram 1/8 Bhag Vasi Chakrapur Kanta Devi W/O Rajpal S/O Chandagiram 1/8 Bhag Vasi Chakrapur 47//2
80	47//20	Private	Agriculture	0.3845	Satpal S/O Surajbhan S/O Chandar Singh 1/6 Bhag Mahesh Kumar S/O Krishan Kumar S/O Chandar Singh 1/6 Bhag Omprakash S/O Gheesa Singh S/O Ishvar Singh 1/6 Bhag

					Matadin S/O Ishvar 1/3 Bhag Smt.Sushama Devi W/O Ashvani Kumar S/O Chandagiram 1/30 Bhag Kanta Devi W/O Rajpal S/O Chandagiram 1/30 Bhag Narendra Singh S/O Meghraj S/O Sardumal Singh 27/4670 Bhag Vasideh Sunil Kumar S/O Surajbhan Singh S/O Bidada Singh 44/467 Bhag Vasi Nahad Teh.Kohali 47/20
81	47/21	Private	Agriculture	0.3693	Hanuman Prasad S/O Tilokram S/O Mohan 1/2 Bhag Kashi Devi, Munnidevi D/O Tilokram Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 47/21
82	47/22	Private	Agriculture	0.0278	Jagadeesh Singh, Sarjeet Singh, S/O ँ Smt.Kirana, Uarmila D/O Ruda S/O Ramratan Har Char Sambhag 4/5 Bhag Devendra, Laleet, Dharmendra S/O Smt.Chitara D/O Ruda Har Teen Sambhag 1/5 Bhag Vasideh 47/22
83	47/9	Private	Agriculture	0.0911	Setharam, Ramanand S/O ँ Rambai Vidha, Anguri, Savita D/O Phuliya S/O Jairam Har 6 Sambhag 3/14 Bhag Kela D/O Phuliya Jairam 1/224 Bhag Vasideh Sitaram S/O ँ Smt.Kanta, Mamata, Rajbala, Aasha , Punam D/O Smt.Kela Devi S/O Phool Singh Har 6 Sambhag 1/32 Bhag Vasi Vasi Bhooras Jhajjar Narendra, Sundar, Naresh S/O ँ Ramesh D/O ँ Chandro Wd/O Mahaveer S/O Jayram Har Panch Sambhag 5/24 Bhag Ramkumar S/O Jayram 67/24648 Bhag Vasideh Smt.Lado Devi W/O Surendra S/O 40/1027 Bhag Vasi Karol Dis.Revadi Sushama Devi W/O Ashvani S/O Chandagiram 1/8 Bhag Vasi Chakrapur Kanta Devi W/O Rajpal S/O Chandagiram 1/8 Bhag Vasi Chakrapur 47/9
84	52/1	Private	Agriculture	0.404688	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O ँ Jeeva

					Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 52//1
85	52//10	Private	Agriculture	0.3946	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har

					<p>Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh, Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt. Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt. Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt. Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh. Nirmana Smt. Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt. Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh. Nirmana Smt. Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 52/110</p>
86	52/11	Private	Agriculture	0.3743	<p>Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Char Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O ॐ Jeeva Devi W/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt. Muni Devi W/O Jaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/O Makatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh, Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt. Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt. Sunita W/O Omveer Singh</p>

					S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 52/11
87	52/20	Private	Agriculture	0.3541	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Char Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi W/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/O Jaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/O Makatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh, Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj

					Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhagg Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Niramana Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 52/20
88	52/21	Private	Agriculture	0.3339	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Char Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O ३ Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirmana Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhagg Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Niramana Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 52/21
89	53/15/1	Private	Agriculture	0.0202	Sharavati, Murti D/O Jhutha Singh S/O Sher Singh Har Do Sambhag 2/3

					Bhag Baljeet Dattak S/O व Shreepal Dattak Rajendra Dattak S/O Manphul Singh S/O Bakhtavar Singh Har Teen Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 53//15/1
90	53//15/2	Private	Agriculture	0.043	Chhatarpal Singh S/O Ganapat Singh S/O Sher Singh 1/4 Bhag Ramehar, Rajendra Singh, Sunil S/O Kaluram S/O Bhairu Har Teen Sambhag 1/4 Bhag Ramautar Singh, Rajendra Singh S/O Vachan Singh S/O Ganapat Har Do Sambhag 1/4 Bhag Nirmala Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 1/8 Bhag Suman Devi W/O Subhash Kumar S/O Hardvarilal 1/8 Bhag Vasideh 53//15/2
91	53//16	Private	Agriculture	0.0809	Hanuman Prasad S/O Tilokram S/O Mohan 1/2 Bhag Kashi Devi, Munnidevi D/O Tilokram Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 53//16
92	53//25	Private	Agriculture	0.1012	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu

					Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhagg Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 71117/5986584 Bhag Vasideh 53//25
93	53//5	Private	Agriculture	0.0202	Bharat Bhushan, Dinesh Kumar S/O ँ Smt.Maya Wd/O Ramnivas S/O Mahadev Har Teen Sambhag 1015/6316 Bhag Smt.Devi W/O Madanlal S/O Dharmchand 139/3158 Bhag Smt.Rekha W/O Kamal Singh S/O Dharmchand 139/3158 Bhag Jagveer Singh S/O Meghsingh S/O Rajusingh 18/1579 Bhag Suresh, Madan Lal, Manoj Kumar, Kamal S/O Dharmchand S/O Mahadev Prasad Har Char Sambhag 4673/6316 Bhag Vasideh 53//5
94	53//6	Private	Agriculture	0.0405	Sharavati, Murti D/O Jhutha Singh S/O Sher Singh Har Do Sambhag 2/3 Bhag Baljeet Dattak S/O ँ Shreepal Dattak Rajendra Dattak S/O Manphul Singh S/O Bakhtavar Singh Har Teen Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 53//6
95	64//14	Private	Agriculture	0.2175	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Char Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O ँ Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/O Jaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/O Makatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har

					<p>Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh, Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt. Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt. Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt. Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh. Nirmana Smt. Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt. Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh. Nirmana Smt. Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 71117/5986584 Bhag Vasideh 64/14</p>
96	64/15	Private	Agriculture	0.2959	<p>Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Char Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi W/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt. Munni Devi W/O Jaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/O Makatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh, Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt. Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt. Sunita W/O Omveer Singh</p>

					S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhagg Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 64//15
97	64//16	Private	Agriculture	0.404688	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Char Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O ँ Jeeva Devi W/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/O Jaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/O Makatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh, Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj

					Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Niramana Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 64//16
98	64//17	Private	Agriculture	0.3743	Ramchander. Sumer Singh ,Suresh Kumar, Madan Singh S/O Harnarayan S/O Mularam har chaar sam bhag vasi sayana 64//17
99	64//24	Private	Agriculture	0.3946	Ramchander. Sumer Singh ,Suresh Kumar, Madan Singh S/O Harnarayan S/O Mularam har chaar sam bhag vasi sayana 64//24
100	64//5	Private	Agriculture	0.1214	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirmana Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584

					Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhagg Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Niramana Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 64/5
101	64/6	Private	Agriculture	0.1416	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirmana Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhagg Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Niramana Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 64/6
102	65/1	Private	Agriculture	0.3136	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan

					<p>S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 65//1</p>
103	65//10	Private	Agriculture	0.2934	<p>Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh</p>

					306/4891 Bhag Nar Singh S/O ँ Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 65//10
104	65//12	Private	Agriculture	0.1695	Chhatrapal, Gangapal, Krishanpal, Deshraj S/O Natthu S/O Lalsingh Har Char Sambhag 5008/11595 Bhag Ombai Vidha, Kamla D/O Natthu S/O Lalsingh Har Teen Sambhag 1855/6957 Bhag Asharaphi Wd/O Natthu 595/6957 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O ँ Smt.Kusum D/O ँ Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 404/3865 Bhag Dharpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Sing S/O Natthu Har Do Sambhag 727/6957 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do Sambhag 16/2319 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Dist.Gudgaon 65//12
105	65//20	Private	Agriculture	0.404688	Chandravati Wd/O Veh ajay Singh, Ajeet Singh, Sunil Singh S/O ँ

					Santosh, Sudha D/O Omprakash S/O Phakir Singh Har 6 Sambhag 1552/4319 Bhag Paras, Resham D/O Phakir Singh Bahadur Singh Har Do Sambhag 237/4319 Bhag Krishan D/O Phakir Singh S/O Bahadur Singh 178/4319 Bhag Saroj D/O Phakir Singh S/O Badur Singh 320/4319 Bhag Sodanbai D/O Bahadur Singh S/O Shyolal Singh 480/4319 Bhag Somdat Singh Urf Somveer S/O Phakir Singh S/O Bahdur Singh 1392/4319 Bhag Smt.Puja W/O Rakesh S/O Omkar Singh 160/4319 Bhag Vasideh 65//20
106	65//21	Private	Agriculture	0.404688	Chhatrapal, Gangapal, Krishanpal, Deshraj S/O Natthu S/O Lalsingh Har Char Sambhag 5008/11595 Bhag Ombai Vidha, Kamla D/O Natthu S/O Lalsingh Har Teen Sambhag 1855/6957 Bhag Asharaphi Wd/O Natthu 595/6957 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O व Smt.Kusum D/O व Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 404/3865 Bhag Dharpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Sing S/O Natthu Har Do Sambhag 727/6957 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do Sambhag 16/2319 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Dist.Gudgaon 65//21
107	68//1	Private	Agriculture	0.3794	Smt. Mukesh W/O Brhampal S/O Vedram 68//1
108	68//10/1	Private	Agriculture	0.0986	Smt. Mukesh W/O Brhampal S/O Vedram 68//10/1
109	68//10/2	Private	Agriculture	0.0936	Smt.Ombai D/O Bachchan Singh 61/607 Bhag Kanvar Bai D/O Bachchan Singhs/O 1/607 Bhag Ompal Singh S/O Bachan Singh S/O Jhutha Singh 3/1214 Bhag Minabai, Krishnabai D/O व Shakuntala Wd/O Aasha Singh S/O Bachan Singh Har Teen Sambhag 6/607 Bhag Vasideh Smt.Chandro Devi W/O Kanvarlal S/O Patram 536/607 Bhag Vasi Molaheda Dist.Gudgaon Ransingh S/O Biraju S/O Bachan Singh 3/1214 Bhag Vasideh 68//10/2
110	68//11	Private	Agriculture	0.172	Smt.Ombai D/O Bachchan Singh 61/607 Bhag Kanvar Bai D/O Bachchan Singhs/O 1/607 Bhag

					Ompal Singh S/O Bachan Singh S/O Jhutha Singh 3/1214 Bhag Minabai, Krishnabai D/O ँ Shakuntala Wd/O Aasha Singh S/O Bachan Singh Har Teen Sambhag 6/607 Bhag Vasideh Smt.Chandro Devi W/O Kanvarlal S/O Patram 536/607 Bhag Vasi Molaheda Dist.Gudgaon Ransingh S/O Biraju S/O Bachan Singh 3/1214 Bhag Vasideh 68//11
111	68//20	Private	Agriculture	0.1518	Chhatrapal, Gangapal, Krishanpal, Deshraj S/O Natthu S/O Lalsingh Har Char Sambhag 5008/11595 Bhag Ombai Vidha, Kamla D/O Natthu S/O Lalsingh Har Teen Sambhag 1855/6957 Bhag Asharaphi Wd/O Natthu 595/6957 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O ँ Smt.Kusum D/O ँ Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 404/3865 Bhag Dharpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Sing S/O Natthu Har Do Sambhag 727/6957 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do Sambhag 16/2319 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Dist.Gudgaon 68//20
112	68//21	Private	Agriculture	0.1214	Chhatrapal, Gangapal, Krishanpal, Deshraj S/O Natthu S/O Lalsingh Har Char Sambhag 5008/11595 Bhag Ombai Vidha, Kamla D/O Natthu S/O Lalsingh Har Teen Sambhag 1855/6957 Bhag Asharaphi Wd/O Natthu 595/6957 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O ँ Smt.Kusum D/O ँ Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 404/3865 Bhag Dharpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Sing S/O Natthu Har Do Sambhag 727/6957 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do Sambhag 16/2319 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Dist.Gudgaon 68//21
113	69//15	Private	Agriculture	0.2327	Smt.Ombai D/O Bachchan Singh 61/607 Bhag Kanvar Bai D/O Bachchan Singhs/O 1/607 Bhag Ompal Singh S/O Bachan Singh S/O Jhutha Singh 3/1214 Bhag Minabai, Krishnabai D/O ँ Shakuntala Wd/O Aasha Singh S/O Bachan Singh Har Teen Sambhag 6/607 Bhag Vasideh 69//15

114	69//16	Private	Agriculture	0.258	Chhatrapal, Gangapal, Krishanpal, Deshraj S/O Natthu S/O Lalsingh Har Char Sambhag 5008/11595 Bhag Ombai Vidha, Kamla D/O Natthu S/O Lalsingh Har Teen Sambhag 1855/6957 Bhag Asharaphi Wd/O Natthu 595/6957 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O व Smt.Kusum D/O व Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 404/3865 Bhag Dharpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Sing S/O Natthu Har Do Sambhag 727/6957 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do Sambhag 16/2319 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Dist.Gudgaon 69//16
115	69//25	Private	Agriculture	0.2555	Chhatrapal, Gangapal, Krishanpal, Deshraj S/O Natthu S/O Lalsingh Har Char Sambhag 5008/11595 Bhag Ombai Vidha, Kamla D/O Natthu S/O Lalsingh Har Teen Sambhag 1855/6957 Bhag Asharaphi Wd/O Natthu 595/6957 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O व Smt.Kusum D/O व Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 404/3865 Bhag Dharpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Sing S/O Natthu Har Do Sambhag 727/6957 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do Sambhag 16/2319 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Dist.Gudgaon 69//25
116	69//3	Private	Agriculture	0.0076	Ramchander. Sumer Singh ,Suresh Kumar, Madan Singh S/O Harnarayan S/O Mularam har char sam bhag vasi sayana 69//3
117	69//4	Private	Agriculture	0.2858	Ramchander. Sumer Singh ,Suresh Kumar, Madan Singh S/O Harnarayan S/O Mularam har char sam bhag vasi sayana 69//4
118	69//5	Private	Agriculture	0.3288	Chhatrapal, Gangapal, Krishanpal, Deshraj S/O Natthu S/O Lalsingh Har Char Sambhag 5008/11595 Bhag Ombai Vidha, Kamla D/O Natthu S/O Lalsingh Har Teen Sambhag 1855/6957 Bhag Asharaphi Wd/O Natthu 595/6957 Bhag Ravindra Singh, Manoj S/O व Smt.Kusum D/O व Smt.Barphi Wd/O Rajpal S/O Natthu Har Char Sambhag 404/3865

					Bhag Dharmpal Singh, Mahaveer Singh S/O Uday Sing S/O Natthu Har Do Sambhag 727/6957 Bhag Vasideh Veerpal, Brahampal S/O Vedram S/O Ramchandra Har Do Sambhag 16/2319 Bhag Vasi Mohammadpur Jhadasa Dist.Gudgaon 69//5
119	69//6	Private	Agriculture	0.2125	Smt.Ombai D/O Bachchan Singh 61/607 Bhag Kanvar Bai D/O Bachchan Singhs/O 1/607 Bhag Ompal Singh S/O Bachan Singh S/O Jhutha Singh 3/1214 Bhag Minabai, Krishnabai D/O ँ Shakuntala Wd/O Aasha Singh S/O Bachan Singh Har Teen Sambhag 6/607 Bhag Vasideh 69//6
120	7//12	Private	Agriculture	0.2479	Smt.Kamla Devi, Sunita Devi, Resham Devi, Manjudevi, Ramvati Devi, Sunjubai, Sumanbai S/O ँSmt.Anguri Devi Wd/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh Har 8 Sambhag 8/1881 Bhag Anara Wd/O Gokal Singh S/O Bahadur Singh 4/1045 Bhag Jasasusingh, Samundaepalsingh, Ramesh S/O ँ Smt.Kela, Sahodra, Vimla, Magana D/O Savatsingh S/O Badur Singh Har 7 Sambhag 348/1045 Bhag Ramkavar Singh S/O ँ Smt.Munnibai, Ghughadi , Urmila, Nirabha D/O ँ Smt.Satvati Wd/O Richhpal Singh Har 6 Sambhag 234/1045 Bhag Jagat Singh, Prakash Singh S/O ँ Smt.Shakuntala D/O Richhpal Singh S/O Bahadur Singh Har Teen Sambhag 17/1045 Bhag Vasideh Ramveer Singh, Indrajeet Singh S/O Nihal Singh S/O Hajari Singh Har Do Sambhag 98/1045 Bhag Vasi Sehalang Jilesingh, Palsingh, Mahaveer Singh S/O Jhabar Singh S/O Kundansingh Har Teen Sambhag 16/209 Bhag Badaloram S/O Kaluram S/O Kundanram 16/209 Bhag Vasideh Dharmpal, Ramulal, Banshilal S/O Prabhuram S/O Kaluram Har Teen Sambhag 11/95 Bhag Vasi Baghot Savai Singh S/O Gokalsingh S/O Bahadar Singh 26/1045 Bhag Rajendra Singh S/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh 293/9405 Bhag Vasideh 7//12
121	7//13	Private	Agriculture	0.1619	Ravindar Singh S/O Mamchand S/O 1/2 Bhag Vasi Sehlag Anil S/O ँ Uma, Kamalesh Urf Pinki D/O ँ Santra Devi Wd/O Balveer S/O

					Mamchand Har Char Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 7//13
122	7//18	Private	Agriculture	0.1366	Dharma Devi W/O Dharpal S/O Tarachand 89/713 Bhag Sarati Devi Wd/O व Surasti, Narayani, Dhapa Suhagavati D/O Ramsvarup S/O Ruda Har Fevi Sambhag 356/713 Bhag Samakushal D/O Phulchand S/O Panjee 34/713 Bhag Ravidatt, Surendra, Rajkumar, Amit Kumar S/O व Rita Devi D/O Surajbhan S/O Kuradaram Har Panch Sambhag 234/713 Bhag Vasideh 7//18
123	7//19	Private	Agriculture	0.2732	Smt.Kamla Devi, Sunita Devi, Resham Devi, Manjudevi, Ramvati Devi, Sunjubai, Sumanbai S/O वSmt.Anguri Devi Wd/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh Har 8 Sambhag 8/1881 Bhag Anara Wd/O Gokal Singh S/O Bahadur Singh 4/1045 Bhag Jasasusingh, Samundaepalsingh, Ramesh S/O व Smt.Kela, Sahodra, Vimla, Magana D/O Savatsingh S/O Badur Singh Har 7 Sambhag 348/1045 Bhag Ramkavar Singh S/O व Smt.Munnibai, Ghughadi , Urmila, Nirabha D/O व Smt.Satvati Wd/O Richhpal Singh Har 6 Sambhag 234/1045 Bhag Jagat Singh, Prakash Singh S/O व Smt.Shakuntala D/O Richhpal Singh S/O Bahadur Singh Har Teen Sambhag 17/1045 Bhag Vasideh Ramveer Singh, Indrajeet Singh S/O Nihal Singh S/O Hajari Singh Har Do Sambhag 98/1045 Bhag Vasi Sehalang Jilesingh, Palsingh, Mahaveer Singh S/O Jhabar Singh S/O Kundansingh Har Teen Sambhag 16/209 Bhag Badaluram S/O Kaluram S/O Kundanram 16/209 Bhag Vasideh Dharpal, Ramulal, Banshilal S/O Prabhuram S/O Kaluram Har Teen Sambhag 11/95 Bhag Vasi Baghot Savai Singh S/O Gokalsingh S/O Bahadar Singh 26/1045 Bhag Rajendra Singh S/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh 293/9405 Bhag Vasideh 7//19
124	7//2	Private	Agriculture	0.2023	Smt.Kamla Devi, Sunita Devi, Resham Devi, Manjudevi, Ramvati Devi, Sunjubai, Sumanbai S/O वSmt.Anguri Devi Wd/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh Har 8 Sambhag 8/1881 Bhag Anara Wd/O Gokal Singh S/O

					Bahadur Singh 4/1045 Bhag Jasasusingh, Samundaepalsingh, Ramesh S/O ँ Smt.Kela, Sahodra, Vimla, Magana D/O Savatsingh S/O Badur Singh Har 7 Sambhag 348/1045 Bhag Ramkavar Singh S/O ँ Smt.Munnibai, Ghughadi , Urmila, Nirabha D/O ँ Smt.Satvati Wd/O Richhpal Singh Har 6 Sambhag 234/1045 Bhag Jagat Singh, Prakash Singh S/O ँ Smt.Shakuntala D/O Richhpal Singh S/O Bahadur Singh Har Teen Sambhag 17/1045 Bhag Vasideh Ramveer Singh, Indrajeet Singh S/O Nihal Singh S/O Hajari Singh Har Do Sambhag 98/1045 Bhag Vasi Sehalang Jilesingh, Palsingh, Mahaveer Singh S/O Jhabar Singh S/O Kundansingh Har Teen Sambhag 16/209 Bhag Badaluram S/O Kaluram S/O Kundanram 16/209 Bhag Vasideh Dharpal, Ramulal, Banshilal S/O Prabhuram S/O Kaluram Har Teen Sambhag 11/95 Bhag Vasi Baghot Savai Singh S/O Gokalsingh S/O Bahadar Singh 26/1045 Bhag Rajendra Singh S/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh 293/9405 Bhag Vasideh 7/12
125	7/12	Private	Agriculture	0.2934	Omveer S/O Sohanlal 1/2 Bhag Vasi Sehalang Rishiraj S/O Jagdeesh S/O Sultan 1/2 Bhag Vasi Sehalang 7/12
126	7/13	Private	Agriculture	0.129	Jeyalal, Devdatt S/O ँ Narayani, Chameli Bai, Okaurbai D/O Bashee Har Panch Sambhag Vasideh 7/13
127	7/3	Private	Agriculture	0.2327	Smt.Saravati, Sohanbai D/O Jhuthasingh S/O Sher Singh Har Do Sambhag 2/3 Bhag Vasideh Jagpal Singh, Surendrapal Singh S/O Rajpal Singh S/O Mahasingh Har Do Sambhag 1/6 Bhag Vasi Neerpur Teh.Atelee Jagdeesh Singh S/O Mahasingh 1/6 Bhag Vasi Nirapur Teh.Atelee 7/3
128	7/8	Private	Agriculture	0.1821	Krishan Kumar, Virendra Kumar S/O Aganaram S/O Chetram Har Do Sambhag Vasideh 7/8
129	7/9	Private	Agriculture	0.2226	Smt.Kamla Devi, Sunita Devi, Resham Devi, Manjudevi, Ramvati Devi, Sunjubai, Sumanbai S/O ँSmt.Anguri Devi Wd/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh Har 8 Sambhag 8/1881

					Bhag Anara Wd/O Gokal Singh S/O Bahadur Singh 4/1045 Bhag Jasasusingh, Samundaepalsingh, Ramesh S/O व Smt.Kela, Sahodra, Vimla, Magana D/O Savatsingh S/O Badur Singh Har 7 Sambhag 348/1045 Bhag Ramkavar Singh S/O व Smt.Munnibai, Ghughadi , Urmila, Nirabha D/O व Smt.Satvati Wd/O Richhpal Singh Har 6 Sambhag 234/1045 Bhag Jagat Singh, Prakash Singh S/O व Smt.Shakuntala D/O Richhpal Singh S/O Bahadur Singh Har Teen Sambhag 17/1045 Bhag Vasideh Ramveer Singh, Indrajeet Singh S/O Nihal Singh S/O Hajari Singh Har Do Sambhag 98/1045 Bhag Vasi Sehalang Jilesingh, Palsingh, Mahaveer Singh S/O Jhabar Singh S/O Kundansingh Har Teen Sambhag 16/209 Bhag Badaluram S/O Kaluram S/O Kundanram 16/209 Bhag Vasideh Dharmpal, Ramulal, Banshilal S/O Prabhuram S/O Kaluram Har Teen Sambhag 11/95 Bhag Vasi Baghot Savai Singh S/O Gokalsingh S/O Bahadar Singh 26/1045 Bhag Rajendra Singh S/O Ramnarayan Singh S/O Gokal Singh 293/9405 Bhag Vasideh 7//9
130	748	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.1037	Nagar Panchyat 748
131	762	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0354	Nagar Panchyat 762
132	763	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0455	Nagar Panchyat 763
133	80//15	Private	Agriculture	0.3743	Satpal S/O Surajbhan S/O Chandar 1/6 Bhag Mahesh Kumar S/O Krishanpal S/O 1/6 Bhag Ghisaram Ramkavar, Sher Singh, Balveer Singh, Rajveer Singh S/O Bhan Singh S/O Lekhrum Har Panch Sambhag 5/18 Bhag Mahaveer Singh, Satyaveer Singh, Uadaybhan Singh, Ashok Kumar , Suresh Kumar S/O Harpal Singh S/O Mamaj Singh Har Panch Sambhag 1/3 Bhag Mahesh Kumar S/O Ramkumar S/O Ganpat 1/18 Bhag Vasideh 80//15
134	80//16	Private	Agriculture	0.3996	Satyapal S/O Surajbhaan S/O Chandar 1/6 Bhag Naresh Kumar S/O Krishanpal S/O Chandar 1/6 Bhag Omprakash Dheesa Singh S/O Ishvar Singh 1/6 Bhag Smt.Sushama Devi W/O Ashavni Kumar S/O Chandagiram 13/6336 Bhag Kanta

					Devi W/O Rajpal Chandagiram 13/6336 Bhag Vasideh Jagdeesh S/O Samaysingh S/O Goradhan 1/32 Bhag Vasi Kasan Teh. Manesar Prashotam, Pradeep S/O ँ Smt.Rajkumari Wd/O Prem Singh S/O Gheesasingh Har Teen Sambhag 3071/31680 Bhag Smt.Sunita W/O Sukhpal S/O Jagrup Singh 11/960 Bhag Smt.Shakuntala W/O Shivkumar Jagrup Singh 11/960 Bhag Mahaveer Singh S/O Harpal Singh S/O Maamraj Singh 1/96 Bhag , Satyaveer Singh, Uadaybhan Singh , Ashok Kumar, Suresh Kumar S/O Harpal Singh S/O Mamraj Singh Har Chaar Sambhag 4/15 Bhag Smt. Sunita W/O Kailash Chand S/O Sawan Ram 9/320 Bhga St. Suman W/O Dharam Singh S/O Sawan Ram 9/320 Bhag Vasideh 80//16
135	80//17	Private	Agriculture	0.0025	Satpal S/O Surajbhan S/O Chandar 1/6 Bhag Mahesh Kumar S/O Krishanpal S/O 1/6 Bhag Ghisaram Ramkavar, Sher Singh, Balveer Singh, Rajveer Singh S/O Bhan Singh S/O Lekhram Har Panch Sambhag 5/18 Bhag Mahaveer Singh, Satyaveer Singh, Uadaybhan Singh, Ashok Kumar , Suresh Kumar S/O Harpal Singh S/O Mamaj Singh Har Panch Sambhag 1/3 Bhagmahesh Kumar S/O Ramkumar S/O Ganpat 1/18 Bhag Vasideh 80//17
136	80//24	Private	Agriculture	0.0354	Satyapal S/O Surajbhaan S/O Chandar 1/6 Bhag Naresh Kumar S/O Krishanpal S/O Chandar 1/6 Bhag Omprakash Dheesa Singh S/O Ishvar Singh 1/6 Bhag Smt.Sushama Devi W/O Ashavni Kumar S/O Chandagiram 13/6336 Bhag Kanta Devi W/O Rajpal Chandagiram 13/6336 Bhag Vasideh Jagdeesh S/O Samaysingh S/O Goradhan 1/32 Bhag Vasi Kasan Teh. Manesar Prashotam, Pradeep S/O ँ Smt.Rajkumari Wd/O Prem Singh S/O Gheesasingh Har Teen Sambhag 3071/31680 Bhag Smt.Sunita W/O Sukhpal S/O Jagrup Singh 11/960 Bhag Smt.Shakuntala W/O Shivkumar Jagrup Singh 11/960 Bhag Mahaveer Singh S/O Harpal Singh S/O Maamraj Singh 1/96 Bhag , Satyaveer Singh, Uadaybhan Singh , Ashok Kumar, Suresh Kumar S/O Harpal Singh S/O Mamraj Singh Har Chaar Sambhag 4/15 Bhag Smt. Sunita W/O Kailash Chand S/O Sawan Ram 9/320 Bhga St. Suman W/O Dharam

					Singh S/O Sawan Ram 9/320 Bhag Vasideh 80/24
137	80/25	Private	Agriculture	0.3996	Satyapal S/O Surajbhaan S/O Chandar 1/8 Bhag Naresh Kumar S/O Krishanpal S/O Chandar 1/18 Bhag Chhatrapal S/O Ganpat S/O Sher Singh 5/36 Bhag Rateepal Ganpat S/O Sher Singh 1/12 Bhag Kalu Singh, Balveer Singh S/O Mamraj S/O Sher Singh Har Do Sambhag 2/9 Bhag Omprakash S/O Gheesa S/O Ishvar Singh 1/18 Bhag Ramautar Singh, Rajendra Singh S/O Bachan Singh S/O Ganpat Har Do Sambhag 1/12 Bhag Narendra Singh S/O Meghraj S/O Sardul Singh 1/30 Bhag Surendra Singh, Mahsh Kumar S/O Ramkuvar S/O Ganpat Har Do Sambhag 5/36 Bhag Vasideh Jagdeesh S/O Samay Singh S/O Goradhan 1/45 Bhag Vasi Kasan Teh.Manesar Mahaveer Singh, Satyaveer Singh, Udaybhan Singh, Ashok Kumar Suresh Kumar S/O Harpal Singh S/O Mamraj Singh Har Panch Sambhag 1/9 Bhag Vasideh 80/25
138	80/5	Private	Agriculture	0.3339	Ghisaram, Ramkavar, Sher Singh, Randheer, Meer Singh, S/O Bhatarm S/O Tirakharam Har 5 Sambhag 645/588 Bhag Smt. Sunil W/O Ajit Singh S/O Ramkumar 129/5888 Bhag Rajbala D/O Rameshvar S/O Prabhu 1/368 Bhag Smt.Aasha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 59/8832 Bhag Omprakash S/O Chandagiram S/O Gangaram S/O 49/1472 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 59/1472 Bhag Shreepal, Jaynarayan, Shyoprasad S/O व Phulbai, Meva D/O Bishmar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 245/1472 Bhag Smt.Santosh Devi W/O Aanadprakash S/O Chandagiram 59/736 Bhag Uarmila W/O Bahadar Singh S/O Jagrup Singh 3889/26496 Bhag Sunita W/O Sukhpal 3889/26496 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash Ajaysingh S/O व Smt.Aasha, Uasha D/O व Smt.Ban Devi Wd/O Shreepal Singh S/O Ramnarayan Har Saat Sambhag 1/46 Bhag Pradeep, Anil S/O व Babita D/O व Vimala Devi Wd/O Balveer S/O Bhatram Har Chaar Sambhag 129/5888 Bhag Smt.Ratan Devi W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 49/1472 Bhag Mahesh Kumar S/O

					Ramkumar S/O Ganpat 129/5888 Bhag Vasideh 80//5
139	80//6	Private	Agriculture	0.3541	Ghisaram, Ramkavar, Sher Singh, Randheer, Meer Singh, S/O Bhatarm S/O Tirakharam Har 5 Sambhag 645/588 Bhag Smt. Sunil W/O Ajit Singh S/O Ramkumar 129/5888 Bhag Rajbala D/O Rameshvar S/O Prabhu 1/368 Bhag Smt.Aasha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 59/8832 Bhag Omprakash S/O Chandagiram S/O Gangaram S/O 49/1472 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 59/1472 Bhag Shreepal, Jaynarayan, Shyoprasad S/O ँ Phulbai, Meva D/O Bishmar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 245/1472 Bhag Smt.Santosh Devi W/O Aanadprakash S/O Chandagiram 59/736 Bhag Uarmila W/O Bahadar Singh S/O Jagrup Singh 3889/26496 Bhag Sunita W/O Sukhpal 3889/26496 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash Ajaysingh S/O ँ Smt.Aasha, Uasha D/O ँ Smt.Ban Devi Wd/O Shreepal Singh S/O Ramnarayan Har Saat Sambhag 1/46 Bhag Pradeep, Anil S/O ँ Babita D/O ँ Vimala Devi Wd/O Balveer S/O Bhatram Har Char Sambhag 129/5888 Bhag Smt.Ratan Devi W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 49/1472 Bhag Mahesh Kumar S/O Ramkumar S/O Ganpat 129/5888 Bhag Vasideh 80//6
140	81//1	Private	Agriculture	0.1012	Ghisaram, Ramkavar, Sher Singh, Randheer, Meer Singh, S/O Bhatarm S/O Tirakharam Har 5 Sambhag 645/588 Bhag Smt. Sunil W/O Ajit Singh S/O Ramkumar 129/5888 Bhag Rajbala D/O Rameshvar S/O Prabhu 1/368 Bhag Smt.Aasha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 59/8832 Bhag Omprakash S/O Chandagiram S/O Gangaram S/O 49/1472 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 59/1472 Bhag Shreepal, Jaynarayan, Shyoprasad S/O ँ Phulbai, Meva D/O Bishmar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 245/1472 Bhag Smt.Santosh Devi W/O Aanadprakash S/O Chandagiram 59/736 Bhag Uarmila W/O Bahadar Singh S/O Jagrup Singh 3889/26496 Bhag Sunita W/O Sukhpal 3889/26496 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash Ajaysingh S/O ँ

					Smt.Aasha, Uasha D/O व Smt.Ban Devi Wd/O Shreepal Singh S/O Ramnarayan Har Saat Sambhag 1/46 Bhag Pradeep, Anil S/O व Babita D/O व Vimala Devi Wd/O Balveer S/O Bhatram Har Chaar Sambhag 129/5888 Bhag Smt.Ratan Devi W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 49/1472 Bhag Mahesh Kumar S/O Ramkumar S/O Ganpat 129/5888 Bhag Vasideh 81//1
141	81//10/2	Private	Agriculture	0.0809	Ghisaram, Ramkavar, Sher Singh, Randheer, Meer Singh, S/O Bhatarm S/O Tirakharam Har 5 Sambhag 645/588 Bhag Smt. Sunil W/O Ajit Singh S/O Ramkumar 129/5888 Bhag Rajbala D/O Rameshvar S/O Prabhu 1/368 Bhag Smt.Aasha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 59/8832 Bhag Omprakash S/O Chandagiram S/O Gangaram S/O 49/1472 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 59/1472 Bhag Shreepal, Jaynarayan, Shyoprasad S/O व Phulbai, Meva D/O Bishmar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 245/1472 Bhag Smt.Santosh Devi W/O Aanadprakash S/O Chandagiram 59/736 Bhag Uarmila W/O Bahadar Singh S/O Jagrup Singh 3889/26496 Bhag Sunita W/O Sukhpal 3889/26496 Bhag Vinod, Bhushan, Vedprakash Ajaysingh S/O व Smt.Aasha, Uasha D/O व Smt.Ban Devi Wd/O Shreepal Singh S/O Ramnarayan Har Saat Sambhag 1/46 Bhag Pradeep, Anil S/O व Babita D/O व Vimala Devi Wd/O Balveer S/O Bhatram Har Chaar Sambhag 129/5888 Bhag Smt.Ratan Devi W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 49/1472 Bhag Mahesh Kumar S/O Ramkumar S/O Ganpat 129/5888 Bhag Vasideh 81//10/2
142	81//11	Private	Agriculture	0.0607	Satyapal S/O Surajbhaan S/O Chandar 1/6 Bhag Naresh Kumar S/O Krishanpal S/O Chandar 1/6 Bhag Omprakash Dheesa Singh S/O Ishvar Singh 1/6 Bhag Smt.Sushama Devi W/O Ashavni Kumar S/O Chandagiram 13/6336 Bhag Kanta Devi W/O Rajpal Chandagiram 13/6336 Bhag Vasideh Jagdeesh S/O Samaysingh S/O Goradhan 1/32 Bhag Vasi Kasan Teh. Manesar Prashotam,

					Pradeep S/O व Smt.Rajkumari Wd/O Prem Singh S/O Gheesasingh Har Teen Sambhag 3071/31680 Bhag Smt.Sunita W/O Sukhpal S/O Jagrup Singh 11/960 Bhag Smt.Shakuntala W/O Shivkumar Jagrup Singh 11/960 Bhag Mahaveer Singh, Satyaveer Singh, Udaybhan Singh , Ashok Kumar, Suresh Kumar S/O Harpal Singh S/O Mamraj Singh Har Panch Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 81//11
143	81//21	Private	Agriculture	0.0051	Satyapal S/O Surajbhan S/O Chandar 1/18 Bhag Naresh Kumar S/O Krishanpal S/O Chandar 1/18 Bhag Ratipal Singh S/O Ganapat Singh S/O Jara Singh 1/12 Bhag Chhatarpal S/O Ganapat Singh S/O Sher Singh 5/36 Bhag Hardayal Singh S/O Mamraj S/O Sher Singh 1/9 Bhag Kalu Singh S/O Mamraj Singh S/O Sher Singh 31/1179 Bhag Ramotar Singh Bachan Singh S/O Ganapat Singh 100/1179 Bhag Omprakash Gheesa Devi S/O Ishvar Singh 1/18 Bhag Ramautar Singh, Rajendra Singh S/O Vachan Singh S/O Ganapat Har Do Sambhag 1/12 Bhag Somdatt, Sanjay Kumar S/O व Sangeeta D/O व Omvati Wd/O Balveer Singh S/O Mamraj Har Char Sambhag 1/9 Bhag Surendra Singh, Mahesh Kumar S/O Ganapat Singh Har Do Sambhag 5/36 Bhag Prashotam, Pradeep S/O व Smt.Rajkumari Wd/O Prem Singh S/O Gheesa Singh Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Smt.Sunita W/O Sukhpal S/O Jagrup Singh 1/135 Bhag Smt.Shakuntala W/O Shivkumar S/O Jagrup Singh 1/135 Bhag Govind Singh S/O Jagrup Singh 1/135 Bhag Vasideh 81//21
144	83//14/1	Private	Agriculture	0.0708	Amar Singh, Nihal Singh S/O Sahiram S/O Har Do Sambhag 69/572 Bhag Surendar Singh, Mahesh Kumar S/O Ramkuvar Singh S/O Ganapat Singh Har Do Sambhag 89/572 Bhag Sajjan Singh , Babu Singh S/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh Har Do Sambhag 31/1716 Bhag Nirmala Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 40/143 Bhag Suman Devi W/O Subhash Kumar S/O Hardvarilal 40/143 Bhag Hanumati D/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh 69/1144 Bhag Ranjeet Singh S/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh 3/143 Bhag Bal Singh S/O Ramsvarup

					Singh S/O Man Singh 4/143 Bhag Sayar Singh S/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh 127/3432 Bhag Vasideh 83//14/1
145	83//14/2	Private	Agriculture	0.1062	Chandravati Wd/O व Sajay Singh, Ajeet Singh, Sunil Singh S/O व Santosh, Sudha D/O Omprakash S/O Phakir Singh Har 6 Sambhag 1552/4319 Bhag Paras, Resham D/O Phakir Singh Bahadur Singh Har Do Sambhag 237/4319 Bhag Krishan D/O Phakir Singh S/O Bahadur Singh 178/4319 Bhag Saroj D/O Phakir Singh S/O Badur Singh 320/4319 Bhag Sodanbai D/O Bahadur Singh S/O Shyolal Singh 480/4319 Bhag Somdat Singh Urf Somveer S/O Phakir Singh S/O Bahdur Singh 1392/4319 Bhag Smt.Puja W/O Rakesh S/O Omkar Singh 160/4319 Bhag Vasideh 83//14/2
146	83//15	Private	Agriculture	0.2378	Hawa Singh, Ram Singh, Omprakash, Mahendra Singh S/O Surajram S/O Chetram Har Char Sambhag 4/125 Bhag Rajbala D/O Harphul Singh S/O Shyonath Singh 1/30 Bhag Shyoratan Singh S/O Sadhu Singh 361/5000 Bhag Norag Singh S/O Sadhu Singh 107/5000 Bhag Sunil S/O Omkar 19/3000 Bhag Tejpal S/O Sadhu Singh 29/1250 Bhag Dharmveer S/O Ramsvarup S/O Chhajjuram 27/5000 Bhag Smt. Jagan Devi Wd/O Pratap Singh S/O Shyonath Singh 1/20 Bhag Udaypal Singh, Krishan Singh, Mahendra Singh S/O Ompal Singh S/O Pratap Singh Har Teen Sambhag 3/20 Bhag Vijay Laxmi, Savatri D/O Harphul Singh S/O Shyonath Singh Har Do Sambhag 22/375 Bhag Manju D/O व Vimala Wd/O Ravindar Singh Hr Do Sambhag 23/1000 Bhag Ashok S/O Ravindar Singh 23/2000 Bhag Somveer S/O Tejpal S/O Sadhu Singh 83/5000 Bhag Samandar Pal Singh S/O Chandan Singh 167/3000 Bhag Shyambai, Vimala D/O Chandan Singh Har Do Sambhag 667/7500 Bhag Guddi Anita D/O Ratipal Singh S/O Chandan Singh Har Do Sambhag 117/12500 Bhag Satyaveer S/O व Suman D/O 7 Ramveti Wd/O Ratipal Singh S/O Chandan Singh Har Teen Sambhag 191/25000 Bhag Suman Devi W/O Rajkumar S/O Dharmveer 4/625 Bhag Smt.Sushama Devi W/O

					<p>Ashvani Kumar S/O Chandagiram 19/2500 Bhag Kanta Devi W/O Rajpal S/O Chandagiram 19/2500 Bhag Punam D/O Ravindar Singh Smt.Kanta Devi W/O Ramnivas S/O Bhavar Singh 1/125 Bhag Braham Jeet, Rajkumar S/O Omkar Har Do Sambhag 4/375 Bhag Smt.Bhagal W/O Shyoratan S/O Sadhu Singh 1/500 Bhag Natthu Singh S/O Sadhu Singh 101261/12532500 Bhag Vasideh Puja D/O Bhanu S/O Javahar Singh 154/5013 Bhag Vasi Vas Khusala Teh. ँ Dist. Gudgaon Ramnivas, Shyopal Singh S/O Bhavar Singh S/O Makatul Singh Har Do Sambhag 1/10 Bhag Gheesa Singh, Gurdayal Singh, Hansraj Singh S/O ँ Prita Devi , Babita Devi D/O Badari Singh S/O Makatul Singh Har Panch Sambhag 1/10 Bhag Pavan Kumar, Rajesh Kumar S/O ँ Anitabai D/O ँ Aashadevi Wd/O Surendra Singh S/O Harphul Har Char Sambhag 251/5000 Bhag Vasideh 83//15</p>
147	83//16	Private	Agriculture	0.1669	<p>Nattu Singh, Amar Singh S/O ँ Jeevani , Vidha D/O ँ Gumana Wd/O Gugan Singh S/O Oamarav Singh Har Panch Sambhag 5/36 Bhag Mohar Singh S/O Umarav Singh S/O Shyoji 1/6 Bhag Chatarpal Singh, Bahadar Singh, Rup Singh , Vasant Singh, Sarjeet Singh S/O ँ Kamala D/O ँ Kiran Devi Wd/O Munshi Singh S/O Umarav Singh Har Saat Sambhag 1/6 Bhag Rohatash Singh, Rampal Singh, Ramautar Singh, Tarachand, Mukesh, Jagmohan, Naresh S/O ँ Muniya D/O ँ Anguri Wd/O Har 9 Sambhag 1/6 Bhag Ramesh Urph , Bajarang Singh, Randheer Singh Rakesh, Mahesh S/O ँ Rajavanti, Lalita D/O Malkhan Singh S/O Umarav Singh Har Saat Sambhag 1/6 Bhag Smt.Krishna, Bina, Monika D/O ँ Ravindra, Vishanu, Satendra S/O Jeet Singh S/O Gugan Singh Har 6 Sambhag 1/48 Bhag Smt.Kanta Devi Wd/O ँ Vinod S/O Jeet Singh S/O Gugan Singh Har Do Sambhag 1/20880 Bhag Smt.Pushpa Devi W/O Sajjan Singh S/O Dhansingh 1/145 Bhag Padam Singh, Sukhpal Singh Babudan Singh S/O ँ Vimala Devi, Pingala Devi D/O ँ</p>

					Brahama Devi Wd/O Ramkumar S/O Uamrav Singh Har 6 Sambhag 1/16 Bhag Vasideh 83//16
148	83//17/1	Private	Agriculture	0.1593	Chandravati Wd/O व Sajay Singh, Ajeet Singh, Sunil Singh S/O व Santosh, Sudha D/O Omprakash S/O Phakir Singh Har 6 Sambhag 1552/4319 Bhag Paras, Resham D/O Phakir Singh Bahadur Singh Har Do Sambhag 237/4319 Bhag Krishan D/O Phakir Singh S/O Bahadur Singh 178/4319 Bhag Saroj D/O Phakir Singh S/O Badur Singh 320/4319 Bhag Sodianbai D/O Bahadur Singh S/O Shyolal Singh 480/4319 Bhag Somdat Singh Urf Somveer S/O Phakir Singh S/O Bahdur Singh 1392/4319 Bhag Smt.Puja W/O Rakesh S/O Omkar Singh 160/4319 Bhag Vasideh 83//17/1
149	83//17/2/1	Private	Agriculture	0.0531	Smt.Nirmala W/O Suresh Kumar S/O Matu Singh Vasideh 83//17/2/1
150	83//17/2/2	Private	Agriculture	0.0379	Ramchandra S/O Harphul S/Oo Dhokal Vasideh 83//17/2/2
151	83//24/1/3	Private	Agriculture	0.0101172	Smt.Nirmala W/O Suresh Kumar S/O Matu Singh Vasideh 83//24/1/3
152	83//24/1/4	Private	Rasta	0.0177	Ramchandar, Rajendar S/O Harphul S/O Dhokal Har Do Sambhag 1/3 Bhag Ratipal D/O व Bhagavani, Chandrabai, Aanbai, Amarbai, Vidha, Bhavarbai D/O Bhurabai Har Saat Sambhag 1/6 Bhag Purn S/O Chandan Singhbs/O Pratap Singh 1/6 Bhag Kabul Singh, Bharat Singh, Rajkumar S/O व Santosh D/O व Hardeva Har Panch Sambhag 1/6 Bhag Dharpal, Dharmveer S/O व Manju, Santosh, Shakuntala, Kamala D/O Tarachand S/O Hardeva Har 6 Sambhag 1/6 Bhag Vasideh 83//24/1/4
153	83//24/2	Private	Agriculture	0.2479	Saroj Wd/O Bhavarbai , Bhatari D/O Matu Singh S/O Gokal Har Teen Sambhag 1/40 Bhag Sohanbai, Antarbai, Saravati D/O Gokal S/O Uamed Singh Har Teen Sambhaaag 3/40 Bhag Rampal Singh, Ramveer Singh , Rajveer Singh S/O Raj Singh S/O Chhajju Singh Har Teen Sambhag 3/32 Bhag Ramchandra Singh S/O

					<p>Mahiapal Singh S/O Chhajju Singh 188/4405 Bhag Girdhari Singh, Krishanpal Singh, Virendra Singh S/O ₪ Santosh Bai D/O ₹ Sumanta Devi Wd/O Mahipal Singh S/O Har Panch Sambhag 276/4405 Bhag Rekha, Sushila, Manoj D/O ₹ Munni Wd/O Krishan Singh S/O Umarav Singh 1/100 Bhag Smt.Sugan Bai Wd/O ₹ Smt.Kusum Bai , Pushpa Bai, Aasha Bai, Usha Bai,D/O Raghupal Singh S/O Ganapat Singh Har Panch Sambhag 1/28 Bhag Smt.Urmiladevi W/O Virendra Singh S/O Mahipal 69/4405 Bhag Krishna, Parvati, Laxmi, Vijay D/O ₹ Smt.Revati Devi Wd/O Harpal Singh S/O Chhajju Singh Har Panch Sambhag 293/4405 Bhag Satyaveer Singh, Satyapal S/O Manphul Singh S/O Pratap Singh Har Do Sambhag 1/8 Bhag Mahendra Singh S/O Ganapat Singh S/O Prem Singh 1/8 Bhag Surendra Singh, Ramkumar Singh S/O Raghupal Singh S/O Ganapat Singh Har Do Sambhag 5/56 Bhag Shyonarayan S/O Umarav Singh S/O Bahadar Singh 25547/140960 Bhag Ishvar Singh S/O Krushan Singh S/O Umarav Singh 3/200 Bhag Ratipal S/O Umaravsingh S/O Bahadur Singh 1/80 Bhag Vasideh Smt.Aasha Devi W/O Mal Singh Urph Malaram S/O Ramsingh 1/40 Bhag Vasi Dhanaunda 83/24/2</p>
154	83//25	Private	Agriculture	0.0733	<p>Dataram S/O Mamchand S/O Chunnilal S/O 1/60/1803 Bhag Karan Singh, Krishan Singh S/O Rupram S/O Dhhannaram Har Do Sambhag 148/1803 Bhag Sheela Wd/O ₹ Kamalesh, Laxmi, Rajbala D/O Jagrup Singh S/O Shahajad Singh Har Char Sambhag 69/601 Bhag Hemlatabai, Tarunbai, Bachhantabai D/O ₹ Jasavanti Wd/O Jagmal Singh S/O Jagruo Singh Har Char Sambhag 14/601 Bhag Om Singh S/O Munsi Singh S/O Shahajad 24/601 Bhag Aanand Singh, Suresh S/O Shahajad Singh Har Do Sambhag 317/3606 Bhag Ramkavar Singh S/O Shahajad Singh S/Oo Gopal Singh 242/1803 Bhag Chandagi S/O Kraparam S/O Mangal Singh 148/1803 Bhag Aakash S/O Jagmal Singh S/O Jagrup 20/1803 Bhag Kuldeep Singh, Anil S/O Jagrup Singh S/O Shahajad Singh Har Do Sambhag 122/1803 Bhag Naresh S/O</p>

					Munshi Singh S/O Shahajad Singh 29/7212 Bhag Mahesh Urph Rajendra Kumar S/O Munshi Singh S/O Shahajad Singh 605/721 Bhag Rajesh Kumar, Jasamer Singh S/O व Smt.Suman D/O Ramusingh S/O Shahajad Singh Har Teen Sambhag 112/1803 Bhag Kishor Singh, Jagdeesh Singh, Manoj Singh S/O Uamedbai D/O Jagat Singh Har Teen Sambhag 71/601 Bhag Vasideh 83/25
155	83//4	Private	Agriculture	0.1189	Krishan Singh, Ranjeet Singh, Mahaveer Singh, Bikram Singh S/O Amar Singh S/O Chandu Singh Har Char Sambhag Vasideh 83//4
156	83//5/1	Private	Agriculture	0.0531	Satyapal S/O Surajbhan S/O Chandar 1/18 Bhag Naresh Kumar S/O Krishanpal S/O Chandar 1/18 Bhag Ratipal Singh S/O Ganapat Singh S/O Jara Singh 1/12 Bhag Chhatarpal S/O Ganapat Singh S/O Sher Singh 5/36 Bhag Hardayal Singh S/O Mamraj S/O Sher Singh 1/9 Bhag Kalu Singh S/O Mamraj Singh S/O Sher Singh 31/1179 Bhag Ramotar Singh Bachan Singh S/O Ganapat Singh 100/1179 Bhag Omprakash Gheesa Devi S/O Ishvar Singh 1/18 Bhag Ramautar Singh, Rajendra Singh S/O Vachan Singh S/O Ganapat Har Do Sambhag 1/12 Bhag Somdatt, Sanjay Kumar S/O व Sangeeta D/O व Omvati Wd/O Balveer Singh S/O Mamraj Har Char Sambhag 1/9 Bhag Surendra Singh, Mahesh Kumar S/O Ganapat Singh Har Do Sambhag 5/36 Bhag Prashotam, Pradeep S/O व Smt.Rajkumari Wd/O Prem Singh S/O Gheesa Singh Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Smt.Sunita W/O Sukhpal S/O Jagrup Singh 1/135 Bhag Smt.Shakuntala W/O Shivkumar S/O Jagrup Singh 1/135 Bhag Govind Singh S/O Jagrup Singh 1/135 Bhag Vasideh 83//5/1
157	83//5/2	Private	Agriculture	0.0304	Vasant Kumar S/O Rudaram S/O Lekhram Vasideh 83//5/2
158	83//5/3	Private	Agriculture	0.101172	Vasant Kumar S/O Rudaram S/O Lekhram Vasideh 83//5/3
159	83//5/4	Private	Agriculture	0.172	Vasant Kumar S/O Rudaram S/O Lekhram Vasideh 83//5/4

160	83//6/1	Private	Agriculture	0.1239	Vasant Kumar S/O Rudaram S/O Lekhrum Vasideh 83//6/1
161	83//6/2	Private	Agriculture	0.1518	Hawa Singh, Ram Singh, Omprakash, Mahendra Singh S/O Surajram S/O Chetram Har Char Sambhag 4/125 Bhag Rajbala D/O Harphul Singh S/O Shyonath Singh 1/30 Bhag Shyoratan Singh S/O Sadhu Singh 361/5000 Bhag Norag Singh S/O Sadhu Singh 107/5000 Bhag Sunil S/O Omkar 19/3000 Bhag Tejpal S/O Sadhu Singh 29/1250 Bhag Dharmveer S/O Ramsvarup S/O Chhajjoram 27/5000 Bhag Smt. Jagan Devi Wd/O Pratap Singh S/O Shyonath Singh 1/20 Bhag Udaypal Singh, Krishan Singh, Mahendra Singh S/O Ompal Singh S/O Pratap Singh Har Teen Sambhag 3/20 Bhag Vijay Laxmi, Savatri D/O Harphul Singh S/O Shyonath Singh Har Do Sambhag 22/375 Bhag Manju D/O ँ Vimala Wd/O Ravindar Singh Hr Do Sambhag 23/1000 Bhag Ashok S/O Ravindar Singh 23/2000 Bhag Somveer S/O Tejpal S/O Sadhu Singh 83/5000 Bhag Samandar Pal Singh S/O Chandan Singh 167/3000 Bhag Shyambai, Vimala D/O Chandan Singh Har Do Sambhag 667/7500 Bhag Guddi Anita D/O Ratipal Singh S/O Chandan Singh Har Do Sambhag 117/12500 Bhag Satyaveer S/O ँ Suman D/O 7 Ramveti Wd/O Ratipal Singh S/O Chandan Singh Har Teen Sambhag 191/25000 Bhag Suman Devi W/O Rajkumar S/O Dharmveer 4/625 Bhag Jaipal Singhs/O Rughnath Singh S/O Phool Singh 76/5013 Bhag Bhag Punam D/O Ravindar Singh Smt.Kanta Devi W/O Ramnivas S/O Bhavar Singh 1/125 Bhag Braham Jeet, Rajkumar S/O Omkar Har Do Sambhag 4/375 Bhag Smt.Bhagal W/O Shyoratan S/O Sadhu Singh 1/500 Bhag Natthu Singh S/O Sadhu Singh 101261/12532500 Bhag Vasideh Puja D/O Bhanu S/O Javahar Singh 154/5013 Bhag Vasi Vas Khusala Teh. ँ Dist. Gudgaon Ramnivas, Shyopal Singh S/O Bhavar Singh S/O Makatul Singh Har Do Sambhag 1/10 Bhag Gheesa Singh, Gurdayal Singh, Hansraj Singh S/O ँ Prita Devi , Babita Devi D/O Badari Singh S/O Makatul Singh Har Panch Sambhag 1/10 Bhag Pavan Kumar, Rajesh Kumar S/O ँ Anitabai D/O ँ

					Aashadevi Wd/O Surendra Singh S/O Harphul Har Char Sambhag 251/5000 Bhag Vasideh 83//6/2
162	83//7	Private	Agriculture	0.0733	Amar Singh, Nihal Singh S/O Sahiram S/O Har Do Sambhag 69/572 Bhag Surendar Singh, Mahesh Kumar S/O Ramkuvar Singh S/O Ganapat Singh Har Do Sambhag 89/572 Bhag Sajjan Singh , Babu Singh S/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh Har Do Sambhag 31/1716 Bhag Nirmala Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 40/143 Bhag Suman Devi W/O Subhash Kumar S/O Hardvarilal 40/143 Bhag Hanumati D/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh 69/1144 Bhag Ranjeet Singh S/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh 3/143 Bhag Bal Singh S/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh 4/143 Bhag Sayar Singh S/O Ramsvarup Singh S/O Man Singh 127/3432 Bhag Vasideh 83//7
163	98//13/1	Private	Agriculture	0.0177	Krishanpal Singh S/O Phul Singh S/O Bakhtavr Singh 5/24 Bhag Uadam D/O Ramsvarup S/O Khadag Singh 1/24 Bhag Malakhan Singh S/O व Kamali, Asaraphi, Sharabati D/O व Barphi Wd/O Ramjeelal S/O Ujal Singh Har Panch Sambhag 1/4 Bhag Phul Singh, Amar Singh, Shreeram S/O व Bholi, Santara, Sohanbai D/O Bakhtavar Singh S/O Ujal Singh Har 6 Sambhag 1/4 Bhag 1/4 Bhag Savatri Wd/O व Mukesh Singh Urph Babalu S/O Manphul Singh S/O Prabhu Singh Har Do Sambhag 1/8 Bhag Bachan Singh S/O Prem Singh S/O Ujal Singh 1/8 Bhag Vasideh 98//13/1
164	98//13/2	Private	Agriculture	0.1442	Ramchandar Singh, Risal Singh S/O व Atarbai D/O Bihari S/O Kanha Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Jagmohan, Ramkavar, Surendra, Ramesh S/O व Guddi Shila, Sunita D/O व Smt.Shanti Wd/O Aalha Singh S/O Bihari Har 8 Sambhag 1/6 Bhag Ripudaman S/O व Vimal, Nirmal, Ravita, Devaki D/O व Surajbai Wd/O Shimbhusingh S/O Bihari Har 6 Sambhag 1/6 Bhag Karn Singh S/O व Smt.Kailash, Rajvati, Saroj D/O Matu Singh S/O Bihari Har Char Sambhag 1/6 Bhag Vasideh

					98//13/2
165	98//14/1	Private	Agriculture	0.0202	<p>Bhagavani Wd/O Manphul Ramjilal 42/2099 Bhag Ramotar, Vedprakash S/O Manphul S/O Ramjilal Har Teen Sambhag 42/2099 Bhag Lali, Prembai D/O Manphul Ramjilal Har Do Sambhag 42/2099 Bhag Meva Wd/O ँ Ashok S/O Gujari Lal S/O Ramjilal Har Do Sambhag 15/2099 Bhag Hansraj, Radheshyam S/O ँ Vimala, Papu , Urmila, Nirmla D/O Guljari S/O Ramjilal Har 6 Sambhag 112/2099 Bhag Maniram S/O Ramjilal S/O Ganeshi 127/2099 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jayram 28/2099 Bhag Ramesh Singh, Ajay Singh, Vijay Singh, Prakash Singh S/O Amar Singh S/O Ramlal Har Char Sambhag 110/2099 Bhag Kamla, Guntanti, Bala, Rajesh, Sharada D/O Jagdeesh S/O Ramjeelal Har Panch Sambhag 215/4198 Bhag Vijay S/O Shivcharan S/O Ramjilal 12/2099 Bhag Smt. Sumitra Devi W/O Hansraj S/O Guljarilal S/O 298/2099 Bhag Devdat S/O Banvarilal S/O Ramjilal 4/2099 Bhag Manoj, Ishvar S/O Ravidat S/O Banvari Har Do Sambhag 4/2099 Bhag Dipanshu S/O Ravikumar S/O Ratan Singh 120/2099 Bhag Nirmla Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 68/2099 Bhag Balram, Naresh, Manish S/O ँ Saroj D/O ँ Koshalya Wd/O ँ Murati Devi Mata Babulal S/O Jagdeesh Har 6 Sambhag 43/4198 Bhag Krishan, Devendra S/O ँ Munni, Ramesh, Ombai, Suman D/O ँ Santra Wd/O Munshiram S/O Ramjilal Har Saat Sambhag 127/2099 Bhag Smt.Bhagvani Devi W/O Manphul 226/10495 Bhag Devdatt S/O Banvasilal 226/10495 Bhag Smt. Murti Devi W/O Jagdeesh Sharma 226/10495 Bhag Munshiram, Maniram Sharma S/O Ramjilal Sharma Har Do Sambhag 452/10495 Bhag Ramautar, Krishnasharma S/O ँ Premlata, Krishan D/O ँ Champa Devi Wd/O Surajbhan S/O Amichand Har Panch Sambhag 525/2099 Bhag Vasideh 98//14/1</p>
166	98//14/2	Private	Agriculture	0.1366	<p>Satyaveer S/O Rameshvar S/O Prabhu 1/40 Bhag Shreechand S/O Sanval Ram S/O Gangaram 7/40 Bhag Smt.Aasha D/O Bhanaram S/O Sanvalram 1/150 Bhag Shuvbhagavan</p>

					, Omprakash S/O Chandagiram S/O Gangaram Har Do Sambhag 1/15 Bhag Santosh Devi D/O Indralal S/O Gangaram 1/25 Bhag Vasideh Devendra S/O Naresh Kumarns/O Bharat Singh Vasi Manesar Shreegopal, Shyoprasad S/O व Phulbai, Meva D/O Bishambar S/O Gangaram Har Panch Sambhag 1/6 Bhag Vasideh Ajeet Singh S/O Dhumiram S/O Matadeen 9049/116700 Bhag Vasi Manesar Ji. Gudgaon Ishvar Singh S/O Kehar Singh S/O Ranchandra 3329/19450 Bhag Smt.Santosh Devi W/O Aanand Prakash S/O Chandagiram 1828/9725 Bhag Smt. Ratani Devi W/O Mahendra Singh S/O Ramsvarup 1/30 Bhag Vasideh 98//14/2
167	98//17	Private	Agriculture	0.1012	Amar Singh, Chhatar Singh S/O Ramlal S/O Jairam Har Do Sambhag 1/3 Bhag Kartar Singh Smt. Anuradha W/O Jasbir Singh S/O Jeet Singh 1/4 Bhag Kuldeep Singh, Mahesh Singh S/O Ratipal Singh S/O Ramlal Singh Har Do Sambhag 1/6 Bhag Vasideh 98//17
168	98//18/1	Private	Agriculture	0.043	Ramchandar Singh, Risal Singh S/O व Atarbai D/O Bihari S/O Kanha Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Jagmohan, Ramkavar, Surendra, Ramesh S/O व Guddi Shila, Sunita D/O व Smt.Shanti Wd/O Aalha Singh S/O Bihari Har 8 Sambhag 1/6 Bhag Ripudaman S/O व Vimal, Nirmal, Ravita, Devaki D/O व Surajbai Wd/O Shimbhusingh S/O Bihari Har 6 Sambhag 1/6 Bhag Karn Singh S/O व Smt.Kailash, Rajvati, Saroj D/O Matu Singh S/O Bihari Har Char Sambhag 1/6 Bhag Vasideh 98//18/1
169	98//18/2	Private	Agriculture	0.306	Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Char Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har

					Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh,Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 98//18/2
170	98//22/1	Private	Agriculture	0.0202	Amar Singh, Chhatar Singh S/O Ramlal S/O Jairam Har Do Sambhag 1/3 Bhag Kartar Singh Rajveer Singh S/O Musadi Singh Har Do Sambhag 1/2 Kuldeep Singh, Mahesh Singh S/O Ratipal Singh S/O Ramlal Singh Har Do Sambhag 1/6 Bhag Vasideh 98//22/1
171	98//22/2	Private	Agriculture	0.0177	Champa Wd/O ँ Ramsingh Ajeet Singh, S/O ँ Chitarbai D/O Prabhu S/O Ramlal Har 5 Sambhag 175/1469 Bhag Kartar Singh S/O Prabhu S/O Ramlal 231/11756 Bhag Smt. Suman W/O Suresh Chand S/O Shrichand Urf Chanderbhan 67/5878 Bhag Megh Singh S/O Prabhu S/O Ramlal 29/2938 Bhag Omprakash S/O Bhagat Singh S/O Shahajad Singh 265/2938 Bhag Ratan Bai , Gindodi D/O Bhavar Singh S/O Shahajad Har Do Sambhag 41/2938 Bhag Ramshverup , Amar , Shan, Mangej S/O ँ Kirani, Murti D/O Sarasvati D/O Shahajad Har 6

					<p>Sambhag 11/226 Bhag Anil S/O व Shila D/O Ratipal S/O Kalu Singh Har Do Samb Haag 122/1469 Bhag Rajbai Wd/O Ratipal Singh S/O Kalu Singh 57/2938 Bhag Vijay Singh S/O Megh Singh S/O Raj Singh 17/2938 Bhag Hanuman Singh S/O Jagmal Singh S/O Raj Singh 9/2938 Bhag Uaday Singh Dattak S/O Mahipal Singh S/O Bhura Singh 9/2938 Bhag Munshi Singh S/O व Sharani D/O Shahajad Har Do Sambhag 21/2938 Bhag Rampal S/O Mangalram S/O Phusaram 63/5876 Bhag Bobadi W/O Harlal S/O Sitaram 307/2938 Bhag Ramkumar, Kavar Singh, Karn Singh S/O Shreechand S/O Kishansahay Har Teen Sambhag 66/1469 Smt. Kamlesh Devi W/O Ompal Singh S/O Surajbhan Singh 122/1469 Bhag Bhag Rampal S/O व Smt.Urmila, Vimala D/O Kiran D/O Mangatu Har Char Sambhag 142/4345 Bhagsmt. Pooja D/O Bhanu Urf Bhan Singh 41/10283 Bhag Anil Kumar , Sunil Kumar, Ravindra Singh S/O व Smt. Savita D/O Mahaveer Singh S/O Ramnarayan Singh Har Char Sambhag 10/1469 Bhag Okar Singh S/O Matu Singh S/O Pralhad Singh 37/1469 Bhag Smt.Lata Devi W/O Sundar Singh S/O Haranam 10/1469 Bhag Smt.Monika W/O Vijay Kumar S/O Vinay Kumar 17/1469 Bhag Smt.Premlata W/O Vedprakash S/O Shubhram 71/2938 Bhag Vasi Payaga Pista Devi W/O Rohatash S/O Ganapat 659/11752 Bhag Nathu S/O व Geeta, Sunita D/O Rohatash S/O Ganapat Har Teen Sambhag 537/11752 Bhag Subhashsingh, Rajkumar, Jagpal Singh , Rakesh Singh S/O व Savita Devi Wd/O Harisingh S/O Kallusingh Har 6 Sambhag 301/2938 Bhag Bhanti Devi Mata Vedpal S/O Mangal 63/5876 Bhag Jitendra Singh, Jogendra Singh Jasamer Singh, Jagmohan Singh S/O व Suresh Devi D/O व Chandravati Wd/O Jagmal Singh S/O Jayram Har 6 Sambhag 35/2938 Bhagsmt. Bimla Devi W/O Ramchander S/O Jagmal Singh 71/7345 Bhag 98/22/2</p>
172	98/23/1	Private	Agriculture	0.301	<p>Rajpal Singh Dattak S/O Madu S/O Shahajad 4107/9782 Bhag Jaynarayan S/O Matu Singh S/O Ramratan 187/9782 Bhag Madan Singh, Jagpal</p>

					<p>Singh, Omprakash, Tejpal Singh S/O Sagan Singh S/O Kanha Singh Har Chaar Sambhag 38/4891 Bhag Krishan Singh S/O Jagmal Singh S/O Shersingh 130/4891 Bhag Sonbai D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 181/9782 Bhag Natthu Singh S/O Makatul Singh S/O Shersingh 306/4891 Bhag Nar Singh S/O व Jeeva Devi Wd/O Makatul Singh S/O Har Do Sambhag 203/4891 Bhag Rajesh S/O Jaynarayan S/O Matusingh 189/9782 Bhag Smt.Munni Devi W/Ojaypal Singh 20/4891 Bhag Sitaram S/Omakatul Singh S/O Shar Singh 92/4891 Bhag Munshi Singh S/O Makatul Singh S/O 100/4891 Bhag Tarabai, Ombai, Bhagavanti D/O Jagmal Singh S/O Sher Singh Har Teen Sambhag 124207/5321408 Bhag Jaypal Singh, Shreebhagavan S/O Jagmal Singh S/O Har Do Sambhag 466577/7982112 Bhag Hariom Singh S/O Jagmal Singh S/O Sher Singh 402929/15964224 Bhag Ompal Singh S/O Tota Singh S/O Bholu Singh 33665/1995528 Bhag Smt.Bina Devi W/O Ompal S/O Tota Singh 5/1224 Bhag Smt.Sunita W/O Omveer Singh S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Smt.Sumitra W/O Omprakash S/O Ramnarayan 40/4891 Bhag Babu Singh S/O Jay Chand S/O Sher Singh 43/2127/2993292 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/306 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Aasha Devi W/O Omprakash S/O Babulal 25/5986584 Bhag Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal Singh 5/408 Bhag Vasideh Ranveer S/O Ranjeet Singh S/O Devi Singh 5/408 Bhag Vasi Kolila Sanga Teh.Nirman Smt.Nisha Devi W/O Lekhraj Singh S/O Jaypal 71117/5986584 Bhag Vasideh 98/23/1</p>
173	98/23/2	Private	Agriculture	0.0936	<p>Shyobai, Ratani Bai, Surajee Bai D/O Maladu Singh S/O Prahalad Singh Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Okar Singh S/O Maladu Singh S/O Prahalad Singh 23/60 Bhag Ratipal Singh S/O Maladu Singh S/O Prahalad Singh 1/20 Bhag Ajay Kumar, Pavan Kumar S/O व Shakuntala, Nisha D/O व Santara Devi Wd/O Jaykaran Singh S/O Maladu Singh Har Panch Sambhag 1/20 Bhag Uagam Bai D/O Madho Singh S/O Pralhad Singh 1/15 Bhag Antar Singh, Purn Singh, Giravar Singh S/O</p>

					Ramnarayan S/O Mula Har Teen Sambhag 17/100 Bhag Kiran, Sharada S/O व Sugama Wd/O Ramnarayan S/O Mulla Har Teen Sambhag 13/1209 Bhag Chatarbai D/O Mula S/O Sher Singh 1/20 Bhag Ganapat, Jay Singh S/O व Shanti D/O Bhavarbai D/O Maladu Singh Har Teen Sambhag 1/200 Bhag Chhatarpal Singh Harnam Singh S/O Prahaladsingh 1/45 Bhag Manoj Kumar, Manjeet Singh S/O Chhatrapal S/O Haranam Har Do Sambhag 1/300 Bhag Ramotar Singh, Sundar Singh S/O Haranam Singh S/O Prahalad Singh Har Do Sambhag 13/225 Bhag Vasideh 98/23/2
174	98/24/1	Private	Agriculture	0.0152	Shyobai, Ratani Bai, Surajee Bai D/O Maladu Singh S/O Prahalad Singh Har Teen Sambhag 1/30 Bhag Okar Singh S/O Maladu Singh S/O Prahalad Singh 23/60 Bhag Ratipal Singh S/O Maladu Singh S/O Prahalad Singh 1/20 Bhag Ajay Kumar, Pavan Kumar S/O व Shakuntala, Nisha D/O व Santara Devi Wd/O Jaykaran Singh S/O Maladu Singh Har Panch Sambhag 1/20 Bhag Uagam Bai D/O Madho Singh S/O Prahalad Singh 1/15 Bhag Antar Singh, Purn Singh, Giravar Singh S/O Ramnarayan S/O Mula Har Teen Sambhag 17/100 Bhag Kiran, Sharada S/O व Sugama Wd/O Ramnarayan S/O Mulla Har Teen Sambhag 13/1209 Bhag Chatarbai D/O Mula S/O Sher Singh 1/20 Bhag Ganapat, Jay Singh S/O व Shanti D/O Bhavarbai D/O Maladu Singh Har Teen Sambhag 1/200 Bhag Chhatarpal Singh Harnam Singh S/O Prahaladsingh 1/45 Bhag Manoj Kumar, Manjeet Singh S/O Chhatrapal S/O Haranam Har Do Sambhag 1/300 Bhag Ramotar Singh, Sundar Singh S/O Haranam Singh S/O Prahalad Singh Har Do Sambhag 13/225 Bhag Vasideh 98/24/1
175	98/3/1	Private	Agriculture	0.0025	Manphul Singh S/O Matu Singh S/O Seva Singh Vasideh 98/3/1
176	98/7/1	Private	Agriculture	0.0582	Dhum Singh, Uaday Singh S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh Har Do Sambhag 387/1195 Bhag Rajesh Kumar, Rakesh Kumar S/O Richhpal Singh Har Do Sambhag 387/2390 Bhag Ombai D/O व Omprakash S/O

					<p>Richhpal Singh S/O Indar Singh Har Do Sambhag 68/1195 Bhag Antar Devi Wd/O Dharm Singh S/O Richhpal Singh 166/1195 Bhag Sube Singh, Kamal Singh, Madan Singh, Sureesh S/O Dharpal Singh S/O Richhpal Singh Har Chaar Sambhag 11/478 Bhag Aajad Devi W/O ँ Vinod Kumar S/O Omprakash Richhpal Har Do Sambhag 319/2390 Bhag Hem Singh, Khem Singh S/O ँ Smt.Krishna, Vinod D/O Bhanvar Singh S/O Richhpal Har Chaar Sambhag 774/5975 Bhag Phate Singh, Ram Singh, Santu Singh, Inmarat Singh S/O ँ Ekata D/O ँ Smt.Binesh Devi Wd/O Jay Singh S/O Bhanvar Singh Har 6 Ssambhag 387/11950 Bhag Vasedeh 98/7/1</p>
177	98/7/2	Private	Agriculture	0.2453	<p>Bhagavani Wd/O Manphul Ramjilal 42/2099 Bhag Ramotar, Vedprakash S/O Manphul S/O Ramjilal Har Teen Sambhag 42/2099 Bhag Lali, Prembai D/O Manphul Ramjilal Har Do Sambhag 42/2099 Bhag Meva Wd/O ँ Ashok S/O Gujari Lal S/O Ramjilal Har Do Sambhag 15/2099 Bhag Hansraj, Radheshyam S/O ँ Vimala, Papu , Urmila, Nirmla D/O Guljari S/O Ramjilal Har 6 Sambhag 112/2099 Bhag Maniram S/O Ramjilal S/O Ganeshi 127/2099 Bhag Amar Singh S/O Ramlal S/O Jayram 28/2099 Bhag Ramesh Singh, Ajay Singh, Vijay Singh, Prakash Singh S/O Amar Singh S/O Ramlal Har Char Sambhag 110/2099 Bhag Kamla, Gunvanti, Bala, Rajesh, Sharada D/O Jagdeesh S/O Ramjeelal Har Panch Sambhag 215/4198 Bhag Vijay S/O Shivcharan S/O Ramjilal 12/2099 Bhag Smt. Sumitra Devi W/O Hansraj S/O Guljarilal S/O 298/2099 Bhag Devdat S/O Banvarilal S/O Ramjilal 4/2099 Bhag Manoj, Ishvar S/O Ravidat S/O Banvari Har Do Sambhag 4/2099 Bhag Dipanshu S/O Ravikumar S/O Ratan Singh 120/2099 Bhag Nirmla Devi W/O Sushil Kumar S/O Hardvarilal 68/2099 Bhag Balram, Naresh, Manish S/O ँ Saroj D/O ँ Koshalya Wd/O ँ Murati Devi Mata Babulal S/O Jagdeesh Har 6 Sambhag 43/4198 Bhag Krishan, Devendra S/O ँ Munni, Ramesh, Ombai, Suman D/O</p>

					<p>व Santra Wd/O Munshiram S/O Ramjilal Har Saat Sambhag 127/2099 Bhag Smt.Bhagvani Devi W/O Manphul 226/10495 Bhag Devdatt S/O Banvasilal 226/10495 Bhag Smt. Murti Devi W/O Jagdeesh Sharma 226/10495 Bhag Munshiram, Maniram Sharma S/O Ramjilal Sharma Har Do Sambhag 452/10495 Bhag Ramautar, Krishnasharma S/O व Premlata, Krishan D/O व Champa Devi Wd/O Surajbhan S/O Amichand Har Panch Sambhag 525/2099 Bhag Vasideh 98/7/2</p>
178	98/8/1	Private	Agriculture	0.0632	<p>Hanuman Prasad S/O Tilokram S/O Mohan 1/2 Bhag Kashi Devi, Munnidevi D/O Tilokram Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 98/8/1</p>
179	98/8/2	Private	Agriculture	0.0885	<p>Krishanpal Singh S/O Phul Singh S/O Bakhtavr Singh 5/24 Bhag Uadam D/O Ramsvarup S/O Khadag Singh 1/24 Bhag Malakhan Singh S/O व Kamali, Asaraphi, Sharabati D/O व Barphi Wd/O Ramjeelal S/O Ujal Singh Har Panch Sambhag 1/4 Bhag Phul Singh, Amar Singh, Shreeram S/O व Bholi, Santara, Sohanbai D/O Bakhtavar Singh S/O Ujal Singh Har 6 Sambhag 1/4 Bhag 1/4 Bhag Savatri Wd/O व Mukesh Singh Urph Babalu S/O Manphul Singh S/O Prabhu Singh Har Do Sambhag 1/8 Bhag Bachan Singh S/O Prem Singh S/O Ujal Singh 1/8 Bhag Vasideh 98/8/2</p>
180	98/3/2	Private	Agriculture	0.0531	<p>Hanuman Prasad S/O Tilokram S/O Mohan 1/2 Bhag Kashi Devi, Munnidevi D/O Tilokram Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 98/3/2</p>
181	98/4	Private	Agriculture	0.3718	<p>Dhum Singh, Uaday Singh S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh Har Do Sambhag 387/1195 Bhag Rajesh Kumar, Rakesh Kumar S/O Richhpal Singh Har Do Sambhag 387/2390 Bhag Ombai D/O व Omprakash S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh Har Do Sambhag 68/1195 Bhag Antar Devi Wd/O Dharm Singh S/O Richhpal Singh 166/1195 Bhag Sube Singh, Kamal Singh, Madan Singh, Sureesh S/O Dharpal Singh S/O Richhpal Singh Har Char Sambhag 11/478 Bhag Aajad Devi W/O व</p>

					Vinod Kumar S/O Omprakash Richhpal Har Do Sambhag 319/2390 Bhag Hem Singh, Khem Singh S/O व Smt.Krishna, Vinod D/O Bhanvar Singh S/O Richhpal Har Chaar Sambhag 774/5975 Bhag Phate Singh, Ram Singh, Santu Singh, Inmarat Singh S/O व Ekata D/O व Smt.Binesh Devi Wd/O Jay Singh S/O Bhanvar Singh Har 6 Ssambhag 387/11950 Bhag Vasedeh 98//4
182	98/5	Private	Agriculture	0.0101	Dhum Singh, Uaday Singh S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh Har Do Sambhag 387/1195 Bhag Rajesh Kumar, Rakesh Kumar S/O Richhpal Singh Har Do Sambhag 387/2390 Bhag Ombai D/O व Omprakash S/O Richhpal Singh S/O Indar Singh Har Do Sambhag 68/1195 Bhag Antar Devi Wd/O Dharm Singh S/O Richhpal Singh 166/1195 Bhag Sube Singh, Kamal Singh, Madan Singh, Sureesh S/O Dharpal Singh S/O Richhapal Singh Har Chaar Sambhag 11/478 Bhag Aajad Devi W/O व Vinod Kumar S/O Omprakash Richhpal Har Do Sambhag 319/2390 Bhag Hem Singh, Khem Singh S/O व Smt.Krishna, Vinod D/O Bhanvar Singh S/O Richhpal Har Chaar Sambhag 774/5975 Bhag Phate Singh, Ram Singh, Santu Singh, Inmarat Singh S/O व Ekata D/O व Smt.Binesh Devi Wd/O Jay Singh S/O Bhanvar Singh Har 6 Ssambhag 387/11950 Bhag Vasedeh 98//5
Taluk: Mahendergarh					
Viilage: Bhuchawas					
1	105//13/1	Private	Agriculture	0.0354	Chand Singh, Abhya Singh Jagdish S/O, Hetram Har Do Sqambhag 2/3 Wasideh Sachin, Sahil S/O Vijay Singh S/O Jagdish Har Do Sambhag 1/3 Bhag Vasi Akbarpur Nangal 105//13/1
2	105//13/3	Private	Agriculture	0.2681	Ramanand S/O Narsingh S/O, Purn Singh 1/3 Bhag Wasi Akabar Nangal Santosh D/O, & Chameli Wd/O Maniram S/O, Narsingh Har Do Sambhag 1/3 Bhag Wasideh Subhe Singh S/O Balwant S/O Nar Singh 1/3 Bhag Vasi Akbarpur Nangal 105//13/3
3	105//17	Private	Agriculture	0.0177	Ramanand S/O Narsingh S/O, Purn

					Singh 1/9 Bhag Sawant Singh, Roshanlal S/O, Bhup Singh S/O, Puran Har Do Sambhag 2/9 Bhag Chand Singh, Abhya Singh S/O, Jagdish S/O, Hetram Har Do Sambhag, 1/9 Bhag Sachin Sahil S/O, Vijay Singh S/O, Jagdish Singh Har Do Sambhag 1/18 Bhag Balwant Singh S/O, Narsingh S/O, Puran Singh 1/9 Bhag Vasideh Subhe Singh S/O Balwant S/O Nar Singh 1/9 Bhag Vasi Akbarpur Nangal Manish Kumar, Dipesh Kumar S/O Ramesh Kumar S/O Dulichand Har Do Sambhag 1/9 Bhag Hazarilal S/O Hetram S/O Puran Singh 1/24 Bhag Sribhagwan, Jile Singh, Umed Singh S/O Hazarilal S/O Hetram Har 3 Sambhag 1/8 Bhag Vasideh 105//17
4	105//18/1	Private	Agriculture	0.0885	Ramanand S/O Narsingh S/O, Purn Singh 1/3 Bhag Wasi Akabar Nangal Santosh D/O, & Chameli Wd/O Maniram S/O, Narsingh Har Do Sambhag 1/3 Bhag Wasideh. 105//18/1
5	105//18/2	Private	Agriculture	0.043	Ramanand S/O Narsingh S/O, Purn Singh 1/3 Bhag Wasi Akabar Nangal Santosh D/O, & Chameli Wd/O Maniram S/O, Narsingh Har Do Sambhag 1/3 Bhag Wasideh Subhe Singh S/O Balwant S/O Nar Singh 1/3 Bhag Vasi Akbarpur Nangal 105//18/2
6	105//19/1	Private	Agriculture	0.0025	Resham Devi W/O Ravidatte S/O Bhuparam Vasideh 105//19/1
7	105//3	Private	Agriculture	0.0076	Raejsha S/O Nityaram S/O Ganeshi 13/295 Bhag Jaydayal S/O Nitanande S/O Ganeshi 1/15 Bhag Atar Singh S/O Nityanande S/O Ganeshi 1283/7080 Bhag Saurabh, Mann S/O Jaydayal Singh S/O Nityanande Hae Do Sambhag 811/7080 Bhag Surendra Singh, Rakesh, Ramesh Kumar S/O Sulatan Singh S/O Ganeshi Har Teen Sambhag 7/12 Bhag Mahndre Singh S/O Chtarpal S/O Nityaram 3/295 Bhag Vasideh 105//3
8	105//4	Private	Agriculture	0.3895	Balbir Singh, Vijaypal S/O Chander S/O Ramnarayan Har Do Sambhag 1/2 Bhag Manoj Kumar, Sunil Kumar S/O & Ramadevi Wd/O Ramanand S/O Chander Singh S/O Ramnarayan Har 3 Sambhag 1/4 Bhag Smt. Ashabai D/O & Lali Wd/O Sher Singh S/O Chander Singh Har Do Samb 105//4

9	105//5	Private	Agriculture	0.0354	Roshanlal S/O, Bhup Singh S/O, Purn 1/9 Bhag Subesingh S/O, Balwant Singh S/O, Narsingh 11/48 Bhag Ramanand S/O, Narsingh S/O, Purn 5/48 Mbhag Chandsingh, Abhya Singh S/O, Jagdish Singh Hetram Har Do Sambhag 1/9 Sachin, Sahil S/O, Vijay Singh S/O, Jagdish Singh Har Do Sambhag, 1/18 Bhag Manish Kumar, Dipesh Kumar S/O, Ramesh Kumar S/O, Dulichand Har Do Sambhag 1/9 Bhag Sawat Singh S/O, Bhup Singh S/O, Purn 29/666 Bhag Wasideh Mukesh Kumar S/O Sawat Singh S/O Bhup Singh 5/74 Bhag Vasi Akbarpur Nangal Hazarilal S/O Hetram S//O Puran 1/24 Bhag Sribhagwan, Jilesingh, Umed Singh S/O Hazarilal S/O Hetram Har 3 Sambhag 1/8 Bhag Vasideh 105//5
10	105//7/1	Private	Agriculture	0.2023	Balbir Singh, Vijaypal S/O Chander S/O Ramnarayan Har Do Sambhag 1/2 Bhag Manoj Kumar, Sunil Kumar S/O & Ramadevi Wd/O Ramanand S/O Chander Singh S/O Ramnarayan Har 3 Sambhag 1/4 Bhag Smt. Ashabai D/O & Lali Wd/O Sher Singh S/O Chander Singh Har Do Samb 105//7/1
11	105//7/2	Private	Agriculture	0.129	Ramanand S/O Narsingh S/O, Purn Singh 1/9 Bhag Sawant Singh, Roshanlal S/O, Bhup Singh S/O, Puran Har Do Sambhag 2/9 Bhag Chand Singh, Abhya Singh S/O, Jagdish S/O, Hetram Har Do Sambhag, 1/9 Bhag Sachin Sahil S/O, Vijay Singh S/O, Jagdish Singh Har Do Sambhag 1/18 Bhag Balwant Singh S/O, Narsingh S/O, Puran Singh 1/9 Bhag Vasideh Subhe Singh S//O Balwant S/O Nar Singh 1/9 Bhag Vasi Akbarpur Nangal Manish Kumar, Dipesh Kumar S/O Ramesh Kumar S/O Dulichand Har Do Sambhag 1/9 Bhag Hazarilal S/O Hetram S/O Puran Singh 1/24 Bhag Sribhagwan, Jile Singh, Umed Singh S/O Hazarilal S/O Hetram Har 3 Sambhag 1/8 Bhag Vasideh 105//7/2
12	15//13	Private	Agriculture	0.3288	Jagdish Singh S/O, Ragbeer Singh S/O, Kanha Singh 250/2247 Bhag, Dharmdevi Wd/O, Ragbeer S/O, Kanha 20/749 Bhag Vijay Singh, Ratan Singh S/O Ram Singh S/O Gom Singh Har Do Sambhag 229/749 Bhag Shyam Singh S/O & Sunitabai D/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/247 Bhag Vasideh Mhabir Singh S/O Shyolal S/O Baldev

					160/749 Bhag Vasi Gudha Hukum Singh, Anup Singh S/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/2247 Bhag Santosh Devi W/O Mahabir Singh S/O Shyolal 160/749 Bhag Pawan, Ravikumar S/O & Kantabai D/O Man Singh S/O Raghbir Singh Har 3 Sambhag 250/2247 Bhag Vasideh 15//13
13	15//14/1	Private	Agriculture	0.0936	Jagdish Singh S/O, Ragbeer Singh S/O, Kanha Singh 250/2247 Bhag,Dharmdevi Wd/O, Ragbeer S/O, Kanha 20/749 Bhag Vijay Singh , Ratan Singh S/O Ram Singh S/O Gom Singh Har Do Sambhag 229/749 Bhag Shyam Singh S/O & Sunitabai D/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/247 Bhag Vasideh Mhabir Singh S/O Shyolal S/O Baldev 160/749 Bhag Vasi Gudha Hukum Singh, Anup Singh S/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/2247 Bhag Santosh Devi W/O Mahabir Singh S/O Shyolal 160/749 Bhag Pawan, Ravikumar S/O & Kantabai D/O Man Singh S/O Raghbir Singh Har 3 Sambhag 250/2247 Bhag Vasideh 15//14/1
14	15//14/2	Private	Agriculture	0.0051	Shyam Singh, Jagdish Singh, Hukum Singh, Anup Singh S/O & Shakuntlabai, Sarojbai, Sunitabai D/O & Dharm Devi Wd/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har 8 Sambhag Rahan Hisa 8/9 Bhag Pawan, Ravikumar S/O & Kantabai D/O Mansingh S/O Ragbir Singh Har 3 Sambhag Rahan Hisa 1/9 Bhag Vasideh Jainarayan S/O Juwahara S/O Maharam Vasi Sigda Murathan 15//14/2
15	15//17	Private	Agriculture	0.0126	Kuldep Singh, Ravindra Singh, Jitendra Singh S/O & Santosh Devi W/O Dharmber S/O Chetaram Har Char Sambhag, 16/39 Bhag , Washideh , Srimati Lata Yadav W/O, Chalurvindra Yadav S/O, Dharmber Singh Yadav, 31/312 Bahg Washi Narnol , Srimati Jinat Yadav W/, Jitendra Singh S/O, Dharmber Singh Yadav , 31/312 Bhag Washi Dadri Road, Mahendragad , Dharmber S/O, Chetaram S/O, Tund, 61/156 Bhag, Washi, Mahendergarh. 15//17
16	15//18	Private	Agriculture	0.392	Mahaber S/O,Shayolal S/O, Baldev, Washi Gura. 15//18

17	15//19/1	Private	Agriculture	0.0025	Mahaber S/O,Shayolal S/O, Baldev, Washi Gura. 15//19/1
18	15//19/2	Private	Agriculture	0.0025	Rambhagat S/O-Mahipaal Singh S/O, Kanaha 26/2229Bhag, Soranbai Shikorwarbai, Bhagotibai,Kawarbai,Dularibai D/O, Mahipaal Singh S/O, Kanha Singh Har 5 Sambhag 269/4458 Bhag Man Singh, Shyamsingh, Jagdish Singh, Hukum Singh, Anup Singh S/O & Shakuntlabai, Sarojbai, Sunitbai D/O & Dharmdevi Wd/O Ragbir Singh S/O Kanha Har 9 Sambhag 1115/4458 Bhag Bahadar Singh S/O Ramchander Singh S/O Ramnath 8/743 Bhag Guman Singh, Amar Singh S/O Hardhan Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 1/6 Bhag Baghsingh S/O Hardhan Singh S/O Kanha 75/743 Bhag Sukan Singh, Sundar Singh, Satish Singh, Omkar S/O Hardev Singh S/O Kanha Singh Har 4 Sambhag 285/1486 Bhag Vasideh Swami Sri Jyotigiri Maharaj Chela Sri Mahant Parmeshwargiri Chela Sri Mhant Narbadgiri 37/4458 Bhag Vasi Prachani Hanuman Mandir Bhadokala Smt. Sahrvan Devi W/O Sriram S/O Surajbhan 20/2229 Bhag Vasi Padheda Jaisingh, Bijender Singh, Ravinder Singh S/O Ramavtar S/O Hardeva Har 3 Sambhag37/743 Bhag Rajender Singh S/O Maghsingha S/O Mahipal Singh 89/11145 Bhag Munni D/O & Shakuntla Devi Wd/O Meghsingh S/O Mahipal Har Do Sambhag 26/3715 Bhag Dinesh S/O & Sanju, Sema D/O Krishan Kumar S/O Mahipal Singh Har 3 Sambhag 169/4458 Bhag Ravinder Singh S/O Meghsingh S/O Mahipal Singh 89/11145 Bhag Vasideh Yogesh Kumar S/O Mahabir Singh S/O Shyolal 20/743 Bhag Vasi Gudha Ta. Kanina Sharmila W/O Yogesh S/O Mahavir Singh 40/2229 Bhag Vasideh 15//19/2
19	15//22	Private	Agriculture	0.0556	Rambhagat S/O-Mahipaal Singh S/O, Kanaha 26/2229Bhag, Soranbai Shikorwarbai, Bhagotibai,Kawarbai,Dularibai D/O, Mahipaal Singh S/O, Kanha Singh Har 5 Sambhag 269/4458 Bhag Man Singh, Shyamsingh, Jagdish Singh, Hukum Singh, Anup Singh S/O & Shakuntlabai, Sarojbai, Sunitbai D/O & Dharmdevi Wd/O Ragbir Singh S/O Kanha Har 9 Sambhag 1115/4458 Bhag Bahadar Singh S/O Ramchander

					<p>Singh S/O Ramnath 8/743 Bhag Guman Singh, Amar Singh S/O Hardhan Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 1/6 Bhag Baghsingh S/O Hardhan Singh S/O Kanha 75/743 Bhag Sukan Singh, Sundar Singh, Satish Singh, Omkar S/O Hardev Singh S/O Kanha Singh Har 4 Sambhag 285/1486 Bhag Vasideh Swami Sri Jyotigiri Maharaj Chela Sri Mahant Parmeshwargiri Chela Sri Mhant Narbadgiri 37/4458 Bhag Vasi Prachani Hanuman Mandir Bhadokala Smt. Sahrvan Devi W/O Sriram S/O Surajbhan 20/2229 Bhag Vasi Padheda Jaisingh, Bijender Singh, Ravinder Singh S/O Ramavtar S/O Hardeva Har 3 Sambhag 37/743 Bhag Rajender Singh S/O Maghsingha S/O Mahipal Singh 89/11145 Bhag Munni D/O & Shakuntla Devi W/O Meghsingh S/O Mahipal Har Do Sambhag 26/3715 Bhag Dinesh S/O & Sanju, Sema D/O Krishan Kumar S/O Mahipal Singh Har 3 Sambhag 169/4458 Bhag Ravinder Singh S/O Meghsingh S/O Mahipal Singh 89/11145 Bhag Vasideh Yogesh Kumar S/O Mahabir Singh S/O Shyolal 20/743 Bhag Vasi Gudha Ta. Kanina Sharmila W/O Yogesh S/O Mahavir Singh 40/2229 Bhag Vasideh 15/22</p>
20	15/7	Private	Agriculture	0.0809	<p>Jagdish Singh S/O, Ragbeer Singh S/O, Kanha Singh 250/2247 Bhag, Dharmdevi W/O, Ragbeer S/O, Kanha 20/749 Bhag Vijay Singh, Ratan Singh S/O Ram Singh S/O Gom Singh Har Do Sambhag 229/749 Bhag Shyam Singh S/O & Sunitabai D/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/247 Bhag Vasideh Mhabir Singh S/O Shyolal S/O Baldev 160/749 Bhag Vasi Gudha Hukum Singh, Anup Singh S/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/2247 Bhag Santosh Devi W/O Mahabir Singh S/O Shyolal 160/749 Bhag Pawan, Ravikumar S/O & Kantabai D/O Man Singh S/O Raghbir Singh Har 3 Sambhag 250/2247 Bhag Vasideh 15/7</p>
21	15/8	Private	Agriculture	0.1568	<p>Jagdish Singh S/O, Ragbeer Singh S/O, Kanha Singh 250/2247 Bhag, Dharmdevi W/O, Ragbeer S/O, Kanha 20/749 Bhag Vijay Singh, Ratan Singh S/O Ram Singh S/O Gom Singh Har Do Sambhag 229/749 Bhag Shyam Singh S/O & Sunitabai D/O</p>

					Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/247 Bhag Vasideh Mhabir Singh S/O Shyolal S/O Baldev 160/749 Bhag Vasi Gudha Hukum Singh, Anup Singh S/O Ragbir Singh S/O Kanha Singh Har Do Sambhag 20/2247 Bhag Santosh Devi W/O Mahabir Singh S/O Shyolal 160/749 Bhag Pawan, Ravikumar S/O & Kantabai D/O Man Singh S/O Raghbir Singh Har 3 Sambhag 250/2247 Bhag Vasideh 15//8
22	24//12	Private	Agriculture	0.2479	Bahadar Singh S/O, Ramchanra Singh S/O, Ramnath Singh 1/7 Bhag Maan Singh S/O Deshraj Singh S/O, Bahal Singh, 349/1141 Bhag Wasideh Smt. Santosh Devi W/O Mahabir Singh S/O Shyolal 20/163 Bhag Vasi Gudha Ta. Kanina Dharmpal S/O Kisan Singh S/O Bhiva 3/7 Bhag Vasideh 24//12
23	24//13	Private	Agriculture	0.1821	Bahadar Singh , Shersingh, Sunandra Singh, Jemlal Singh S/O, Ramchand S/O, Ramnath Har 4 Sambhag Wasideh, 24//13
24	24//18	Private	Agriculture	0.1163	Bahadar Singh , Shersingh, Sunandra Singh, Jemlal Singh S/O, Ramchand S/O, Ramnath Har 4 Sambhag Wasideh, 24//18
25	24//19	Private	Agriculture	0.3136	Bahadar Singh , Shersingh, Sunandra Singh, Jemlal Singh S/O, Ramchand S/O, Ramnath Har 4 Sambhag Wasideh, 24//19
26	24//2	Private	Agriculture	0.1214	Rambhagat S/O, Mahipal Singh S/O Kanha 26/2229 Bhag Soranbai, Sirekwarbai, Bhagotibai, Kawarbai, Dularibai D/O, Mahipal Singh S/O, Kanha Singh Har Paanch Sambhag 269/ 4458 Bhag Maansingh, Shyamsingh, Jagdish Singh, Hukam Singh, Anup Singh S/O & Sakuntala Bai, Sarojbai, Sunitabai D/O, & Dharamdev Wd/O,Ragbeer Singh S/O, Kanaha Har Nau Sambhag 1115/4458 Bhag, Bahadar Singh S/O, Raamnaath 8/743 Bhag Gumaan Singh, Amar Singh S/O Hardhan Singh S/O, Kanha Singh Har Do Sambhag 1/6 Bhag Baghj Singh S/O, Hardhan Singh S/O, Kanha 75/743 Bhag Sukan Singh, Sundar Singh Satish Singh, Omkaar Singh S/O, Hardev Singh S/O, Kanha Singh Har 4 Sambhag 285/1486 Bhag Wasideh Swami Sri Jyotigiri Maharaj Chela Sri Mhant Parmeshwargiri

					Chela Sri Mhant Narbadagiri 37/4458 Bhag Vasi Parchani Hanuman Mandir Bhadokala Smt. Sarvan Devi W/O Sriram S/O Surajbhan 20/2229 Bhag Vasi Patheda Jai Singh, Bijender Singh, Ravinder Singh S/O Ramavtar S/O Hardeva Har 3 Sambhag 37/743 Bhag Rajender Singh S/O Meghsingh S/O Mahipal Singh 89/11145 Bhag Muni D/O & Shakuntla Devi Wd/O Megh Singh S/O Mahipal Har Do Sambhag 26/3715 Bhag Dinesh S/O & Sanju, Sema D/O & Krishan Kumar S/O Mahipal Singh Har 3 Sambhag 169/4458 Bhag Ravinder Singh S/O Megh Singh S/O Mahipal Singh 89/11145 Bhag Vasideh Yogesh Kumar S/O Mahabir Singh S/O Shyolal 20/743 Bhag Vasi Gudha Ta. Kanina Sharmila W/O Yogesh S/O Mahavir Singh 40/2229 Bhag Vasideh 24/2
27	24/21/2	Private	Agriculture	0.0025	Pahllad Singh Pratap Singh S/O, Mohar Singh S/O, Chhaju Har Do Sanbhag71/240 Bhag Vijay Singh S/O, Mohar Singh S/O, Chhaju 49/720 Bhag Ajit Singh S/O, Bharat S/O, Dalip Singh 229/720 Bhag Wasideh Dinesh S/O Bhartu S/O Dalipsingh 229/720 Bhag Vasi Bas Kushla, Gurgaon 24/21/2
28	24/22/1	Private	Agriculture	0.0885	Bahadar Singh , Shersingh, Sunandra Singh, Jemlal Singh S/O, Ramchand S/O, Ramnath Har 4 Sambhag Wasideh, 24/22/1
29	24/22/2	Private	Agriculture	0.2909	Pahllad Singh Pratap Singh S/O, Mohar Singh S/O, Chhaju Har Do Sanbhag71/240 Bhag Vijay Singh S/O, Mohar Singh S/O, Chhaju 49/720 Bhag Ajit Singh S/O, Bharat S/O, Dalip Singh 229/720 Bhag Wasideh Dinesh S/O Bhartu S/O Dalipsingh 229/720 Bhag Vasi Bas Kushla, Gurgaon 24/22/2
30	24/23	Private	Agriculture	0.0506	Bahadar Singh , Shersingh, Sunandra Singh, Jemlal Singh S/O, Ramchand S/O, Ramnath Har 4 Sambhag Wasideh, 24/23
31	24/3	Private	Agriculture	0.3086	Mahabir S/O Shyolal S/O Baldev Vasi Gudha 24/3
32	24/8	Private	Agriculture	0.2428	Bahadar Singh S/O, Ramchanra Singh S/O, Ramnath Singh 1/7 Bhag Maan Singh S/O Deshraj Singh S/O, Bahal

					Singh, 349/1141 Bhag Wasideh Smt. Santosh Devi W/O Mahabir Singh S/O Shyolal 20/163 Bhag Vasi Gudha Ta. Kanina Dharmpal S/O Kisan Singh S/O Bhiva 3/7 Bhag Vasideh 24/8
33	24/9/1	Private	Agriculture	0.05058	Bahadar Singh S/O, Ramchanra Singh S/O, Ramnath Singh 1/7 Bhag Maan Singh S/O Deshraj Singh S/O, Bahal Singh, 349/1141 Bhag Wasideh Smt. Santosh Devi W/O Mahabir Singh S/O Shyolal 20/163 Bhag Vasi Gudha Ta. Kanina Dharmpal S/O Kisan Singh S/O Bhiva 3/7 Bhag Vasideh 24/9/1
34	24/9/2	Private	Agriculture	0.1315	Mansingh, Shyamsingh, Jagdish Singh, Hukam Singh Anup Singh S/O, & Sakuntalabai, Sarojbai, Sunita Bai D/O, & Dharamdevi Wd/O, Ragber Singh S/O, Kanha Har 9 Sambhag, Wasideh Hisedaran Byan Ramchander S/O Ramnathsingh S/O Kanha Singh Vasideh 24/9/2
35	33//1	Private	Agriculture	0.0405	Kartar Singh S/O, Rajpal Singh S/O Sahajad Singh Wasideh. 33//1
36	33//10	Private	Agriculture	0.1062	Madan Singh, S/O, Munshi Singh Mangu Singh, 1/2 Bhag Wasideh Getanand, Surender Singh, Devender Kumar S/O Amilal S/O Balbir Singh Har 3 Sambhag 1/2 Bhag Vasi Sikohar Pur Jila 33//10
37	33//11	Private	Agriculture	0.172	Krishna Singh S/O, Munshi Singh S/O, Mangu Singh 1/2 Bhag Ajit Singh S/O, Bhartu S/O, Dalip Singh 1/4 Bhag Wasideh Dinesh S/O Bhartu S/O Dalip Singh 1/4 Bhag Vasi Bas Kushla Gurgaon 33//11
38	33//12	Private	Agriculture	0.258	Krishna Singh S/O, Munshi Singh S/O, Mangu Singh 1/2 Bhag Ajit Singh S/O, Bhartu S/O, Dalip Singh 1/4 Bhag Wasideh Dinesh S/O Bhartu S/O Dalip Singh 1/4 Bhag Vasi Bas Kushla Gurgaon 33//12
39	33//19	Private	Agriculture	0.1922	Madan Singh, Iswar Singh S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh Har Do Sambhag 12/35 Mbhag, Rajsingh S/O, Jagdish S/O Gangu Singh 1/7 Bhag, Nitubai, Pujabai, D/O 7 Smt. Sakuntala Devi, Wd/O, Bhagwatsingh S/O, Papusingh Har 3 Sambhag 6/35, Bhagkrishna Singh S/O Munshisingh S/O, Gangu Singh

					17/140 Bhag, Dharampal S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh 31/140 Bhag Wasideh. 33/19
40	33/2	Private	Agriculture	0.3895	Pahalad Singh, Pratap Singh S/O, Mohar Singh S/O, Chhaju Har Do Sambhag 71/240 Bhag Vijay Singh S/O, Mohar Singh S/O, Chaju 49/720 Bhag Ajit Singh S/O, Bhartu S/O, Dalip Singh 229/720 Bhag Wasideh Dinesh S/O Bhartu S/O Dalip Singh 229/720 Bhag Vasi Bas Kushala, Gurgaon. 33/2
41	33/20	Private	Agriculture	0.2327	Madan Singh, Iswar Singh S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh Har Do Sambhag 12/35 Mbhag, Rajsingh S/O, Jagdish S/O Gangu Singh 1/7 Bhag, Nitubai, Pujabai, D/O 7 Smt. Sakuntala Devi, Wd/O, Bhagwatsingh S/O, Papusingh Har 3 Sambhag 6/35, Bhagkrishna Singh S/O Munshisingh S/O, Gangu Singh 17/140 Bhag, Dharampal S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh 31/140 Bhag Wasideh. 33/20
42	33/21	Private	Agriculture	0.2985	Madan Singh, Iswar Singh S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh Har Do Sambhag 12/35 Mbhag, Rajsingh S/O, Jagdish S/O Gangu Singh 1/7 Bhag, Nitubai, Pujabai, D/O 7 Smt. Sakuntala Devi, Wd/O, Bhagwatsingh S/O, Papusingh Har 3 Sambhag 6/35, Bhagkrishna Singh S/O Munshisingh S/O, Gangu Singh 17/140 Bhag, Dharampal S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh 31/140 Bhag Wasideh. 33/21
43	33/22	Private	Agriculture	0.1315	Madan Singh, Iswar Singh S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh Har Do Sambhag 12/35 Mbhag, Rajsingh S/O, Jagdish S/O Gangu Singh 1/7 Bhag, Nitubai, Pujabai, D/O 7 Smt. Sakuntala Devi, Wd/O, Bhagwatsingh S/O, Papusingh Har 3 Sambhag 6/35, Bhagkrishna Singh S/O Munshisingh S/O, Gangu Singh 17/140 Bhag, Dharampal S/O, Munshi Singh S/O, Gangu Singh 31/140 Bhag Wasideh. 33/22
44	33/3	Private	Agriculture	0.0025	Chandrapal, Chatrapal S/O, Maharam Singh S/O, Shankar Har Do Sambhag 159/944 Bhag, Gugansingh, Vijay Singh, Dinesh Singh S/O, Sureshbai, Manjubai, Bablibai, D/O & Kirini

					Wd/O, Medh Singh S/O, Shankar Singh Har Saat Sambhag 119/472 Bhag Ajit S/O, & Sumati D/O, Bani Singh S/O, Kanaha Har Do Sambhag 69/944 Bhag Mohar Singh, Tejpal Singh, Chandra Singh, Captan Singh S/O, & Bhawardevi S/O, Srawandevi S/O, Shankar Har Paanch Sambhag 239/944 Bhag Dhija Singh, Lila Singh, Pawan Singh S/O & Sumerbai, Magan Bai, Balabai Ladhkar, Sunitabai D/O, Ratanbai S/O, Shankar Har 9 Sambhag, 239/944 Bhag Wasideh. 33/3
45	33/9	Private	Agriculture	0.3288	Madan Singh, S/O, Munshi Singh Mangu Singh, 1/2 Bhag Wasideh Getanand, Surender Singh, Devender Kumar S/O Amilal S/O Balbir Singh Har 3 Sambhag 1/2 Bhag Vasi Sikohar Pur Jila 33/9
46	41//16	Private	Agriculture	0.2099	Dharmbir S/O Prabhatilal S/O Bidad Singh 1599/1679 Bhag Vasideh Rakesh S/O Rajender Singh S/O Manbir Singh 80/1679 Bhag Vasi Bas Kushla Ji. Gurgaon 41//16
47	41//25	Private	Agriculture	0.2226	Dharmbir S/O Prabhatilal S/O Bidad Singh 1599/1679 Bhag Vasideh Rakesh S/O Rajender Singh S/O Manbir Singh 80/1679 Bhag Vasi Bas Kushla Ji. Gurgaon 41//25
48	41//6/1	Private	Agriculture	0.0304	Murarilal S/O, Sayolal S/O, Baldeva Wasideh. 41//6/1
49	42//10/1	Private	Agriculture	0.2504	Sriram S/O, Sayolal S/O, Baldeva Wasideh. 42//10/1
50	42//10/2	Private	Agriculture	0.03035	Murarilal S/O, Sayolal S/O, Baldeva Wasideh. 42//10/2
51	42//11	Private	Agriculture	0.2808	Rajan Singh S/O, Hajari S/O, Ramsahaya 1/2 Bhag, Wasideh Bina Devi W/O Sanjiv Kumar S/O Srikisan 1/2 Bhag Vasi Mahendergarh 42//11
52	42//2/1	Private	Agriculture	0.0708	Sriram S/O, Sayolal S/O, Baldeva Wasideh. 42//2/1
53	42//20/2	Private	Agriculture	0.2732	Dharmbir S/O Prabhatilal S/O Bidad Singh 1599/1679 Bhag Vasideh Rakesh S/O Rajender Singh S/O Manbir Singh 80/1679 Bhag Vasi Bas Kushla Ji. Gurgaon

					42/20/2
54	42/21/1	Private	Agriculture	0.2074	Dharmbir S/O Prabhatilal S/O Bidad Singh 1599/1679 Bhag Vasideh Rakesh S/O Rajender Singh S/O Manbir Singh 80/1679 Bhag Vasi Bas Kushla Ji. Gurgaon 42/21/1
55	52//1	Private	Agriculture	0.129	Srikrishan, Rajender, Omprakash, Ravinder Kumar S/O Smt. Pista Bai , Geta Bai, Mewa Bai, Shashibai D/O & Smt. Banarsi Devi Wd/O Bhanisahai S/O Joharmal Har 9 Sambhag 79/499 Bhag Rajenderparsad S/O Jainarayan S/O Johrimal 35/499 Bhag Smt. Sushila Devi W/O Bijender Kumar S/O Jainarayan 70/499 Bhag Nathuram, Naresh Kumar S/O & Ponam D/O & Savitri Devi Wd/O Jairamdas S/O Madhoparsad Har 4 Sambhag 35/998 Bhag Anil Kumar S/O & Nelam, Saroj, Manoj D/O Jairamdas S/O Madhoparsad Har 4 Sambhag 1/998 Bhag Sandep Bansal S/O Ghisaram S/O Jainarayan 227/499 Bhag Vasideh 52//1
56	52//10	Private	Agriculture	0.0809	Ramkuwar, Ghisaram, Omprakash, Rajendra Prashad, Madanlala, Bisambardayal S/O& Anguribai, Ramkalibai, Savitribai. Nirmalabai D/O, & Binidevi Wd/O, Jainarayan Joharimal Har Gyahra Sambhag 11/12 Bhag Vicky S/O, & Sushila Devi Wd/O Bijendra Kumar S/O, Jainarayan Har Do Sambhag 1/12 Bhag Wasideh. 52//10
57	52//11	Private	Agriculture	0.0177	Balbair Singh, Vijaypal S/O Chander S/O Ramnarayan Har Do Sambhag 1/2 Bhag Manoj Kumar, Sunil Kumar S/O & Ramadevi Wd/O Ramanand S/O Chander Singh S/O Ramnarayan Har 3 Sambhag 1/4 Bhag Smt. Ashabai D/O & Lali Wd/O Sher Singh S/O Chander Singh Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasideh 52//11
58	53//14	Private	Agriculture	0.0126	Lakhirma S/O Patram S/O Rudharam 324/1295 Bhag Dolatram S/O Parbhatilal S/O Patram 9/2590 Bhag Ratiram, Ramotar, Radheshyam, Mahender Kumar S/O Har 4 Sambhag 4/259 Bhag Satish Kumar, Naresh Kumar S/O Dharmchand S/O Patram Har Do Sambhag 11/1295 Bhag Kamla Devi, Bimla Devi, Sumitra Devi D/O, Dhramchand S/O, Patram Har 3 Sambhag 29/2590 Bhag

					<p>Mahaveer S/O,Tirkharam S/O Ganga Bishan 219/2590 Bhag Satbeer S/O, Subhaschand S/O Manduram6/259 Bhag Sondra S/O, Dayaram S/O, Subhas Chandra 6/259 Bhag Bijendra, Vikaram Singh S/O,Rangrao S/O, Subhas Chand Har Do Sambhag 4/259 Bhag Rohtash Kumar S/O, Norag S/O, Maaman 2/259 Bhag Jagdish Prashad, Kailash Chand, Ramkishan, Vijay Kumar, Rabindra Kumar, Suman Kumar, Anil Kumar, Subhaschand, Harikishna S/O, Ramjilal S/O, Patram Har Nau Sambhag713/2590 Bhag Bisamber Dayal, Satish Kumar, Balkishan, Babulal, Pradeep Kumar S/O& Sombati S/O, Prabhatilal S/O,Patram Har Chha Sambhag 39/1295 Bhag Premlata D/O, Prabhatilal S/O, Patram 13/ 2590 Bhag Wasideh Vijaypal S/O Malkhan Singh S/O Raghunath Singh 47/259 Bhag Vasibas Kushla Ji- Gurgaon Smt. Salochna W/O Dharmbir S/O Mohar Singh 11/259 Bhag Vasideh 53//14</p>
59	53//15	Private	Agriculture	0.3996	<p>Lakhirma S/O Patram S/O Rudharam 324/1295 Bhag Dolatram S/O Parbhatilal S/O Patram 9/2590 Bhag Ratiram, Ramotar, Radheshyam, Mahender Kumar S/O Har 4 Sambhag 4/259 Bhag Satish Kumar, Naresh Kumar S/O Dharmchand S/O Patram Har Do Sambhag 11/1295 Bhag Kamla Devi, Bimla Devi, Sumitra Devi D/O, Dhramchand S/O, Patram Har 3 Sambhag 29/2590 Bhag Mahaveer S/O,Tirkharam S/O Ganga Bishan 219/2590 Bhag Satbeer S/O, Subhaschand S/O Manduram6/259 Bhag Sondra S/O, Dayaram S/O, Subhas Chandra 6/259 Bhag Bijendra, Vikaram Singh S/O,Rangrao S/O, Subhas Chand Har Do Sambhag 4/259 Bhag Rohtash Kumar S/O, Norag S/O, Maaman 2/259 Bhag Jagdish Prashad, Kailash Chand, Ramkishan, Vijay Kumar, Rabindra Kumar, Suman Kumar, Anil Kumar, Subhaschand, Harikishna S/O, Ramjilal S/O, Patram Har Nau Sambhag713/2590 Bhag Bisamber Dayal, Satish Kumar, Balkishan, Babulal, Pradeep Kumar S/O& Sombati S/O, Prabhatilal S/O,Patram Har Chha Sambhag 39/1295 Bhag Premlata D/O, Prabhatilal S/O, Patram 13/ 2590 Bhag Wasideh Vijaypal S/O Malkhan Singh S/O Raghunath Singh 47/259 Bhag Vasibas Kushla Ji- Gurgaon Smt. Salochna W/O Dharmbir S/O Mohar</p>

					Singh 11/259 Bhag Vasideh 53//15
60	53//16	Private	Agriculture	0.3541	Vikram Singh, Subhash S/O, Rajapal S/O, Jokhram Har Do Sambhag 97/270 Bhag Wasi Nangal Harnath, Vinodilal Manoj, Sunil S/O & Manjubasi D/O, Ramadevi Wd/O, Ramanand S/O, Chandra Singh Har 4 Sambhag 3016 Bhag Balbeer, Vijaypaal S/O, Chandar Singh S/O, Ramnarayan Har Do Sambhag 3/8 Bhag Rajendra S/O, Jainarayan S/O, Joharimal 1/48 Bhag Sushila Devi W/O, Bijendra Singh S/O, Jai Narayan 1/48 Bhag Surendra, Rajendra S/O, Manoharlal S/O, Laxminarayan Har Do Sambhag, 1/36 Bhag Smt, Urmila Devi W/O, Rajendra Prashad S/O, Satyanarayan 1/12 Bhag Vikaram S/O, Bijendra S/O, Manoharlal 1/72 Bhag Smt, Asha Bai D/O, & Smt. Laali Wd/Oshersingh S/O, Chandra Singh Har Do Sambhag 3/16 Bhag Sandeep Bansal S/O, Ghisha Ram S/O, Jainarayan 1/12 Bhag Wasideh, 53//16
61	53//17	Private	Agriculture	0.0759	Manoj, Sunil S/O & Manjubai D/O, Ramadevi Wd/O, Ramanand S/O, Chandra Singh Har 4 Sambhag 3/16 Bhag Balbeer, Vijaypaal S/O, Chandar Singh S/O, Ramnarayan Har Do Sambhag 3/8 Bhag Rajendra S/O, Jainarayan S/O, Joharimal 1/48 Bhag Sushila Devi W/O, Bijendra Singh S/O, Jai Narayan 1/48 Bhag Surendra, Rajendra S/O, Manoharlal S/O, Laxminarayan Har Do Sambhag, 1/36 Bhag Smt, Urmila Devi W/O, Rajendra Prashad S/O, Satyanarayan 1/12 Bhag Vikaram S/O, Bijendra S/O, Manoharlal 1/72 Bhag Smt, Asha Bai D/O, & Smt. Laali Wd/Oshersingh S/O, Chandra Singh Har Do Sambhag 3/16 Bhag Sandeep Bansal S/O, Ghisha Ram S/O, Jainarayan 1/12 Bhag Wasideh, 53//17
62	53//24	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.1416	Nagar Panchayat 53//24
63	53//25	Private	Agriculture	0.2883	Manoharlal S/O Laxminarayan S/O Shankar 1/6 Bhag Surender Kumar, Rajender Kumar S/O Manoharlal S/O Laxminarayan Har Do Sambhag 1/9 Bhag Mahender Singh S/O Manoharlal S/O Laxminarayan 1/240 Bhag Urmila Devi W/O Rajender Parsad S/O Jainarayan 17/40 Bhag Vikram Singh S/O Bijender S/O Manoharlal 1/18 Bhag Sandep Bansal S/O Ghisaram

					S/O Jainrayan 19/80 Bhag Vasideh 53/25
64	53/5/1	Private	Agriculture	0.0126	Ramkuwar, Ghisaram, Omprakash, Rajendra Prashad, Madanlala, Bisambardayal S/O & Anguribai, Ramkalibai, Savitribai, Nirmalabai D/O, & Binidevi Wd/O, Jainarayan Joharimal Har Gyahra Sambhag 11/12 Bhag Vicky S/O, & Sushila Devi Wd/O Bijendra Kumar S/O, Jainarayan Har Do Sambhag 1/12 Bhag Wasideh 53/5/1
65	53/5/2	Private	Agriculture	0.2479	Srikrishan, Rajender, Omprakash, Ravinder Kumar S/O Smt. Pista Bai , Geta Bai, Mewa Bai, Shashibai D/O & Smt. Banarsi Devi Wd/O Bhanisahai S/O Joharmal Har 9 Sambhag 79/499 Bhag Rajenderparsad S/O Jainarayan S/O Johrimal 35/499 Bhag Smt. Sushila Devi W/O Bijender Kumar S/O Jainarayan 70/499 Bhag Nathuram, Naresh Kumar S/O & Ponam D/O & Savitri Devi Wd/O Jairamdas S/O Madhoparsad Har 4 Sambhag 35/998 Bhag Anil Kumar S/O & Nelam, Saroj, Manoj D/O Jairamdas S/O Madhoparsad Har 4 Sambhag 1/998 Bhag Sandep Bansal S/O Ghisaram S/O Jainarayan 227/499 Bhag Vasideh 53/5/2
66	53/6/1	Private	Agriculture	0.1366	Ramkuwar, Ghisaram, Omprakash, Rajendra Prashad, Madanlala, Bisambardayal S/O & Anguribai, Ramkalibai, Savitribai, Nirmalabai D/O, & Binidevi Wd/O, Jainarayan Joharimal Har Gyahra Sambhag 11/12 Bhag Vicky S/O, & Sushila Devi Wd/O Bijendra Kumar S/O, Jainarayan Har Do Sambhag 1/12 Bhag Wasideh 53/6/1
67	53/6/2	Private	Agriculture	0.0228	Lakhirma S/O Patram S/O Rudharam 324/1295 Bhag Dolatram S/O Parbhatilal S/O Patram 9/2590 Bhag Ratiram, Ramotar, Radheshyam, Mahender Kumar S/O Har 4 Sambhag 4/259 Bhag Satish Kumar, Naresh Kumar S/O Dharmchand S/O Patram Har Do Sambhag 11/1295 Bhag Kamla Devi, Bimla Devi, Sumitra Devi D/O, Dharmchand S/O, Patram Har 3 Sambhag 29/2590 Bhag Mahaveer S/O, Tirkharam S/O Ganga Bishan 219/2590 Bhag Satbeer S/O, Subhaschand S/O Manduram 6/259 Bhag Sondra S/O, Dayaram S/O, Subhas Chandra 6/259 Bhag Bijendra,

					Vikaram Singh S/O,Rangrao S/O, Subhas Chand Har Do Sambhag 4/259 Bhag Rohtash Kumar S/O, Norag S/O, Maaman 2/259 Bhag Jagdish Prashad, Kailash Chand, Ramkishan, Vijay Kumar, Rabindra Kumar, Suman Kumar, Anil Kumar, Subhaschand, Harikishna S/O, Ramjilal S/O, Patram Har Nau Sambhag713/2590 Bhag Bisamber Dayal, Satish Kumar, Balkishan, Babulal, Pradeep Kumar S/O& Sombati S/O, Prabhatilal S/O,Patram Har Chha Sambhag 39/1295 Bhag Premlata D/O, Prabhatilal S/O, Patram 13/ 2590 Bhag Wasideh Vijaypal S/O Malkhan Singh S/O Raghunath Singh 47/259 Bhag Vasibas Kushla Ji- Gurgaon Smt. Salochna W/O Dharmbir S/O Mohar Singh 11/259 Bhag Vasideh 53//6/2
68	61//14	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.1518	Nagar Panchayat 61//14
69	61//15	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.0632	Nagar Panchayat 61//15
70	61//16	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.0304	Nagar Panchayat 61//16
71	61//17	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.4553	Nagar Panchayat 61//17
72	61//18	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.0076	Nagar Panchayat 61//18
73	61//23/1	Private	Non-Agriculture	0.0025	Nagar Panchayat 61//23/1
74	61//23/10	Private	Non-Agriculture	0.0025	Lalaram S/O, Choturam Wasideh. 61//23/10
75	61//23/11	Private	Non-Agriculture	0.00758	Shersingh S/O, Choturam Wasideh. 61//23/11
76	61//23/12	Private	Non-Agriculture	0.0051	Lalaram S/o, Choturam Wasideh. 61//23/12
77	61//24	Private	BA.KA	0.2251	Nagar Panchayat 61//24
78	61//4	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.2074	Nagar Panchayat 61//4
79	61//5	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.2706	Nagar Panchayat 61//5
80	61//7	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.1872	Nagar Panchayat 61//7
81	76//13	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.3136	Nagar Panchayat 76//13
82	76//14	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.1214	Nagar Panchayat 76//14
83	76//17	Common(Gram	BA KA	0.0304	Nagar Panchayat

		Panchayat)			76//17
84	76//18	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.392	Nagar Panchayat 76//18
85	76//19	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.0202	Nagar Panchayat 76//19
86	76//22	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.0809	Nagar Panchayat 76//22
87	76//23	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.3136	Nagar Panchayat 76//23
88	76//3	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.1416	Nagar Panchayat 76//3
89	76//4	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.2833	Nagar Panchayat 76//4
90	76//7	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.2023	Nagar Panchayat 76//7
91	76//8	Common(Gram Panchayat)	BA.KA	0.2327	Nagar Panchayat 76//8
92	84//25	Private	Agriculture	0.0076	Abhey Singh S/O Sadiram S/O Dayaram 1/6 Bhag Bhura Singh, Lalsingh S/O Pahalvan Singh S/O Khemsingh Har Do Sambhag 1/3 Bhag Surendra Kumar, Narendar Kumar S/O & Krishan, Sushila D/O Herful Singh S/O Sadiram Har Char Sambhag 1/9 Bhag Alaka D/O & Gorav S/O & Sunita Wd/O Mahendra Singh Har Teen Sambhag 1/36 Champa Devi Wd/O Herful Singh S/O Sadiram 1/36 Pratap Sikramingh Chhailuram S/O Dhayaram 1/9 Bhag Dhrampal, Dhiraj Kumar S/O Natthuram S/O Chhailuram Hae Do Sambhag 1/9 Bhag Vasi Khda Hbasingh, Vikramsingh, Sumarsingh S/O & Lali Devi Wd/O Rajpalsingh S/O Chluram Har Char Sambhag 1/9 Bhag Vasideh 84//25
93	85//10/2	Private	Agriculture	0.0051	Nagar Panchayat 85//10/2
94	85//11	Private	Agriculture	0.1012	Rambati W/O, Tulsha Singh S/O, Kundan Singh Wasi Jhagdoli 85//11
95	85//12	Private	Agriculture	0.3516	Rambati W/O, Tulsha Singh S/O, Kundan Singh Wasi Jhagdoli 85//12
96	85//13	Private	Agriculture	0.0025	Rambati W/O, Tulsha Singh S/O, Kundan Singh Wasi Jhagdoli 85//13
97	85//19	Private	Agriculture	0.2125	Ramfal, Ram Singh S/O & Smt. Anokhi Devi Wd/O Deshraj S/O Harnand Har 3 Sambhag Vasideh 85//19
98	85//2/1	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.1821	Nagar Panchayat

		Panchayat)			85//2/1
99	85//2/2	Government	Canal	0.0632	Haryana Govt. 85//2/2
100	85//20	Private	Agriculture	0.2428	Kawarpaal Singh, Vijaypal Singh S/O, & Smt, Rambati Devi Wd/O, Tulshi Singh S/O, Kundan Singh Har 3 Sambhag, Wasideh, 85//20
101	85//21	Private	Agriculture	0.3743	Kawarpaal Singh, Vijaypal Singh S/O, & Smt, Rambati Devi Wd/O, Tulshi Singh S/O, Kundan Singh Har 3 Sambhag, Wasideh, 85//21
102	85//22/1	Private	Agriculture	0.007587	Ramfal, Ram Singh S/O & Smt. Anokhi Devi Wd/O Deshraj S/O Harnand Har 3 Sambhag Vasideh 85//22/1
103	85//3/1	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.1644	Nagar Panchayat 85//3/1
104	85//3/2	Government	Canal	0.0354	Haryana Govt. 85//3/2
105	85//8/1	Government	Canal	0.0354	Haryana Govt. 85//8/1
106	85//8/2	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.0481	Nagar Panchayat 85//8/2
107	85//9/1	Government	Canal	0.086	Haryana Govt. 85//9/1
108	85//9/2	Common(Gram Panchayat)	BA KA	0.2732	Nagar Panchayat 85//9/2
109	98//1	Private	Agriculture	0.301	Rewati Wd/O, & Krishna, Saroj, Sakuntal D/O,7 Pawan Kumar S/O, Srichand S/O, Harphool Har Paanch Sambhag 1/2 Bhag Wasi Kheda Ramesh Kumar S/O, Dulichand S/O,Bhup Singh 1/4 Bhag Wasideh Roshanlal S/O Bhup Singh S/O Puran Singh 1/4 Bhag Vasi Akbarpur Nangal 98//1
110	98//10	Private	Agriculture	0.1922	Rewati Wd/O, & Krishna, Saroj, Sakuntal D/O,7 Pawan Kumar S/O, Srichand S/O, Harphool Har Paanch Sambhag 1/2 Bhag Wasi Kheda Ramesh Kumar S/O, Dulichand S/O,Bhup Singh 1/4 Bhag Wasideh Roshanlal S/O Bhup Singh S/O Puran Singh 1/4 Bhag Vasi Akbarpur Nangal 98//10
111	98//11/1	Private	Agriculture	0.2479	Phoolchand, Rawt Singh, Dayanand S/O, Ranjeet Singh S/O, Devisahaya Har 3 Sambhag 3/5 Bhagwasideh Rajender Singh, Vijay Singh S/O Dalip Singh S/O Devisahai Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Nangal Harnath

					98/11/1
112	99//15	Private	Agriculture	0.3566	Rampratap.Pratap Singh S/O, Cheluram S/O, Dayaram 1/9 Bhag Wasideh Chanderkala W/O Chand Singh 1/18 Bhag Vasi Nangal Harnath Birmati W/O Abhay Singh 1/18 Bhag Vasi Nangal Harnath Anita W/O Vijay Singh S/O Jagdish Parsad 1/18 Bhag Vasi Meghnvas Smt. Rajni Yadav W/O Ravinder Kumar S/O Jagdish Parsad 110/349 Bhag Mukesh Devi W/O Satyapal S/O Bisamberdayal 43/698 Bhag Suman W/O Mahipal S/O Bishamberdayal 43/698 Bhag Vasideh Poja W/O Hariom S/O Bhup Singh 43/698 Bhag Vasi Kheda Dharpal, Dheraj Kumar S/O Nathuram S/O Cheluram Har Do Sambhag 1/9 Bhag Hawa Singh, Vikram Singh, Sumair Singh S/O & Lali Devi Wd/O Rajpal Singh S/O Cheluram Har 4 Sambhag 1/9 Bhag Vasideh 99//15
113	99//16	Private	Agriculture	0.1492	Satish S/O, Chatrapaal S/O, Nityanand 169/843 Bhag Antar Singh S/O, Nityanand S/O, Ganeshi 161/843 Bhag Sorav, Manna S/O Jaipal Singh S/O Nitya Nand Har Do Sambhag, 128/843, Bhag Surendra Singh, Rakesh, Ramesh Kumar S/O, Sultan Singh S/O Ganeshi Har 3 Sambhag 337/843 Bhag Rajendra Singh S/O, Nitanand S/O, Ganeshi 14/843 Bhag Jaipal S/O, Nityanand S/O, Ganeshi 34/843 Bhag Wasideh. 99//16
114	99//17	Private	Agriculture	0.1518	Urmila Devi W/O Surat Singh S/O Mamanram 1761/3752 Bhag Vasideh Sarbati Urf Lali W/O Satyapal S/O Mamanram 1761/3752 Bhag Vasi Payga Prempal S/O Khjan Singh S/O Munshi Singh 115/1876 Bhag Vasideh 99//17
115	99//24	Private	Agriculture	0.2833	Roshanlal S/O, Bhup Singh S/O, Purn 1/9 Bhag Subesingh S/O, Balwant Singh S/O, Narsingh 11/48 Bhag Ramanand S/O, Narsingh S/O, Purn 5/48 Mbhag Chandsingh, Abhya Singh S/O, Jagdish Singh Hetram Har Do Sambhag 1/9 Sachin, Sahil S/O, Vijay Singh S/O, Jagdish Singh Har Do Sambhag, 1/18 Bhag Manish Kumar, Dipesh Kumar S/O, Ramesh Kumar S/O, Dulichand Har Do Sambhag 1/9 Bhag Sawat Singh S/O, Bhup Singh S/O, Purn 29/666 Bhag Wasideh Mukesh Kumar S/O Sawat Singh S/O Bhup Singh 5/74 Bhag Vasi Akbarpur

					Nangal Hazarilal S/O Hetram S//O Puran 1/24 Bhag Sribhagwan, Jilesingh, Umed Singh S/O Hazarilal S/O Hetram Har 3 Sambhag 1/8 Bhag Vasideh 99//24
116	99//25	Private	Agriculture	0.1619	Roshanlal S/O, Bhup Singh S/O, Purn 1/9 Bhag Subesingh S/O, Balwant Singh S/O, Narsingh 11/48 Bhag Ramanand S/O, Narsingh S/O, Purn 5/48 Mbhag Chandsingh, Abhya Singh S/O, Jagdish Singh Hetram Har Do Sambhag 1/9 Sachin, Sahil S/O, Vijay Singh S/O, Jagdish Singh Har Do Sambhag, 1/18 Bhag Manish Kumar, Dipesh Kumar S/O, Ramesh Kumar S/O, Dulichand Har Do Sambhag 1/9 Bhag Sawat Singh S/O, Bhup Singh S/O, Purn 29/666 Bhag Wasideh Mukesh Kumar S/O Sawat Singh S/O Bhup Singh 5/74 Bhag Vasi Akbarpur Nangal Hazarilal S/O Hetram S//O Puran 1/24 Bhag Sribhagwan, Jilesingh, Umed Singh S/O Hazarilal S/O Hetram Har 3 Sambhag 1/8 Bhag Vasideh 99//25
117	99//5/1	Private	Agriculture	0.0708	Abhey Singh S/O Sadiram S/O Dayaram 1/6 Bhag Bhura Singh, Lalsingh S/O Pahalvan Singh S/O Khemsingh Har Do Sambhag 1/3 Bhag Surendra Kumar, Narendar Kumar S/O & Krishan, Sushila D/O Herful Singh S/O Sadiram Har Char Sambhag 1/9 Bhag Alaka D/O & Gorav S/O & Sunita Wd/O Mahendra Singh Har Teen Sambhag 1/36 Champa Devi Wd/O Herful Singh S/O Sadiram 1/36 Pratap Sikramingh Chhailuram S/O Dhayaram 1/9 Bhag Dhrampal, Dhiraj Kumar S/O Natthuram S/O Chhailuram Hae Do Sambhag 1/9 Bhag Vasi Khda Hbasingh, Vikramsingh, Sumarsingh S/O & Lali Devi Wd/O Rajpalsingh S/O Chluram Har Char Sambhag 1/9 Bhag Vasideh 99//5/1
118	99//5/2	Private	Agriculture	0.043	Ramprtap.Pratap Singh S/O, Cheluram S/O, Dayaram 1/9 Bhag Wasideh Chanderkala W/O Chand Singh 1/18 Bhag Vasi Nangal Harnath Birmati W/O Abhay Singh 1/18 Bhag Vasi Nangal Harnath Anita W/O Vijay Singh S/O Jagdish Parsad 1/18 Bhag Vasi Meghnvas Smt. Rajni Yadav W/O Ravinder Kumar S/O Jagdish Parsad 110/349 Bhag Mukesh Devi W/O Satyapal S/O Bisamberdayal 43/698 Bhag Suman W/O Mahipal

					S/O Bishamberdayal 43/698 Bhag Vasideh Poja W/O Hariom S/O Bhup Singh 43/698 Bhag Vasi Kheda Dharpal, Dheraj Kumar S/O Nathuram S/O Cheluram Har Do Sambhag 1/9 Bhag Hawa Singh, Vikram Singh, Sumair Singh S/O & Lali Devi Wd/O Rajpal Singh S/O Cheluram Har 4 Sambhag 1/9 Bhag Vasideh 99/5/2
119	99//6	Private	Agriculture	0.263	Rampatap.Pratap Singh S/O, Cheluram S/O, Dayaram 1/9 Bhag Wasideh Chanderkala W/O Chand Singh 1/18 Bhag Vasi Nangal Harnath Birmati W/O Abhay Singh 1/18 Bhag Vasi Nangal Harnath Anita W/O Vijay Singh S/O Jagdish Parsad 1/18 Bhag Vasi Meghnvas Smt. Rajni Yadav W/O Ravinder Kumar S/O Jagdish Parsad 110/349 Bhag Mukesh Devi W/O Satyapal S/O Bisamberdayal 43/698 Bhag Suman W/O Mahipal S/O Bishamberdayal 43/698 Bhag Vasideh Poja W/O Hariom S/O Bhup Singh 43/698 Bhag Vasi Kheda Dharpal, Dheraj Kumar S/O Nathuram S/O Cheluram Har Do Sambhag 1/9 Bhag Hawa Singh, Vikram Singh, Sumair Singh S/O & Lali Devi Wd/O Rajpal Singh S/O Cheluram Har 4 Sambhag 1/9 Bhag Vasideh 99//6
Taluk: Narnaul					
Viilage: Dublana(174)					
1	102	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0835	Gram Panchayat 102
2	42//12	Private	Agriculture	0.1214	Ramkumar S/o Manbhariya S/o Harkishan 1/2 Bhag Smt. Chameli Wd/o Yaadram S/o Manbhar 1/8 Bhag Devendra S/o Yaadram S/o Manbhar 17/88 Bhag Smt. Pyari Devi W/o Dhaniram S/o Bahadur Singh 2/11 Bhag Vasideh 42//12
3	42//13	Private	Agriculture	0.2276	Ramkumar S/o Manbhariya S/o Harkishan 1/2 Bhag Smt. Chameli Wd/o Yaadram S/o Manbhar 1/8 Bhag Devendra S/o Yaadram S/o Manbhar 17/88 Bhag Smt. Pyari Devi W/o Dhaniram S/o Bahadur Singh 2/11 Bhag Vasideh 42//13
4	42//18	Private	Agriculture	0.2378	Ramkumar S/o Manbhariya S/o Harkishan 1/2 Bhag Smt. Chameli Wd/o Yaadram S/o Manbhar 1/8 Bhag

					Devendra S/o Yaadram S/o Manbhar 17/88 Bhag Smt. Pyari Devi W/o Dhaniram S/o Bahadur Singh 2/11 Bhag Vasideh 42//18
5	42//19	Private	Agriculture	0.1973	Ramkumar S/o Manbhariya S/o Harkishan 1/2 Bhag Smt. Chameli Wd/o Yaadram S/o Manbhar 1/8 Bhag Devendra S/o Yaadram S/o Manbhar 17/88 Bhag Smt. Pyari Devi W/o Dhaniram S/o Bahadur Singh 2/11 Bhag Vasideh 42//19
6	42//2/2	Private	Agriculture	0.001	Manphul S/o Maan S/o Prema 1/6 Bhag Hawa Singh, Ajay Singh S/o Shimbhu Singh S/o Maan Har Do Sambhag 1/3 Bhag Fateh Singh, Sanjay S/o Manphul Singh S/o Maan Har Do Sambhag 1/6 Bhag Ashok Kumar S/o Subhash Chand S/o Maan 1/12 Bhag Uday Singh S/o Subhash Chand S/o Maan 1/4 Bhag Vasideh 42//2/2
7	42//22/1	Private	Agriculture	0.0101	Smt. Lali W/o Omprakash S/o Nityanand 51/196 Bhag Smt. Savita W/o Lalchand S/o Ramjilal 39/196 Bhag Subhashchand, Amar Singh S/o Prabhati Lal S/o Chiranji Lal Har Do Sambhag 53/294 Bhag Rajbala, Kamla D/o Bhima S/o Kaliya Har Do Sambhag 1/294 Bhag Jitendra, Naveen S/o va Nirmala Devi Wd/o va Smt. Jagni Devi Mata Vedprakash S/o Prabhati Lal Har Char Sambhag 53/588 Bhag Rajpal S/o Bhima S/o Kaliya 53/392 Bhag Satyaveer S/o Bhima S/o Kaliya 149/1176 Bhag Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya 1/196 Bhag Vasideh 42//22/1
8	42//22/2	Private	Agriculture	0.263	Purushottam S/o va Smt. Krishna, Bimla D/o Mohar Singh S/o Indraj Har Teen Sambhag 175/1051 Bhag Dinesh Kumar S/o S/o Omprakash S/o Nityanand 90/1051 Bhag Lalchand, Shimbhu Dayal, Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya Har Teen Sambhag 351/1051 Bhaag Omprakash, Indrajeet S/o va Ramesh Devi Wd/o Babulal S/o Sultan Har Teen Sambhag 260/1051 Bhag Smt. Maya Devi W/o Bastiram S/o Ganpat ram 40/1051 Bhag Smt. Manju Devi W/o Pradeep Kumar S/o Bastiram 320/9459 Bhag Ravindra Kumar S/o Pushkar urf Pushpat Kumar urf Pushp Kumar S/o 535/9459 Bhag Smt. Santsh Devi W/o Ramchandra S/o Chhajuram 40/1051 Bhag Vasideh

					42/22/2
9	42/23	Private	Agriculture	0.1619	Purushottam S/o va Smt. Krishna, Bimla D/o Mohar Singh S/o Indraj Har Teen Sambhag 175/1051 Bhag Dinesh Kumar S/o S/o Omprakash S/o Nityanand 90/1051 Bhag Lalchand, Shimbhu Dayal, Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya Har Teen Sambhag 351/1051 Bhaag Omprakash, Indrajeet S/o va Ramesh Devi Wd/o Babulal S/o Sultan Har Teen Sambhag 260/1051 Bhag Smt. Maya Devi W/o Bastiram S/o Ganpat ram 40/1051 Bhag Smt. Manju Devi W/o Pradeep Kumar S/o Bastiram 320/9459 Bhag Ravindra Kumar S/o Pushkar urf Pushpat Kumar urf Pushp Kumar S/o 535/9459 Bhag Smt. Santsh Devi W/o Ramchandra S/o Chhajuram 40/1051 Bhag Vasideh 42/23
10	42/9/1	Private	Agriculture	0.0683	Manphul S/o Maan S/o Prema 1/6 Bhag Hawa Singh, Ajay Singh S/o Shimbhu Singh S/o Maan Har Do Sambhag 1/3 Bhag Fateh Singh, Sanjay S/o Manphul Singh S/o Maan Har Do Sambhag 1/6 Bhag Ashok Kumar S/o Subhash Chand S/o Maan 1/12 Bhag Uday Singh S/o Subhash Chand S/o Maan 1/4 Bhag Vasideh 42/9/1
11	42/9/2	Private	Agriculture	0.0506	Manphul S/o Maan S/o Prema 1/6 Bhag Hawa Singh, Ajay Singh S/o Shimbhu Singh S/o Maan Har Do Sambhag 1/3 Bhag Fateh Singh, Sanjay S/o Manphul Singh S/o Maan Har Do Sambhag 1/6 Bhag Ashok Kumar S/o Subhash Chand S/o Maan 1/12 Bhag Uday Singh S/o Subhash Chand S/o Maan 1/4 Bhag Vasideh 42/9/2
12	43/10/2	Private	Agriculture	0.0228	Purushottam S/o va Smt. Krishna, Bimla D/o Mohar Singh S/o Indraj Har Teen Sambhag 175/1051 Bhag Dinesh Kumar S/o S/o Omprakash S/o Nityanand 90/1051 Bhag Lalchand, Shimbhu Dayal, Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya Har Teen Sambhag 351/1051 Bhaag Omprakash, Indrajeet S/o va Ramesh Devi Wd/o Babulal S/o Sultan Har Teen Sambhag 260/1051 Bhag Smt. Maya Devi W/o Bastiram S/o Ganpat ram 40/1051 Bhag Smt. Manju Devi W/o Pradeep Kumar S/o Bastiram 320/9459 Bhag Ravindra Kumar S/o Pushkar urf Pushpat Kumar urf Pushp Kumar S/o 535/9459 Bhag Smt. Santsh Devi W/o Ramchandra S/o Chhajuram 40/1051

					Bhag Vasideh 43//10/2
13	43//11	Private	Agriculture	0.0961	Sumer Singh, Shisram, Rajendra Singh S/o va Smt. Indro, Bhatari D/o va Smt Sarfi Wd/o Surja S/o Nanag Har 6 Sambhag 1/12 Bhag Bhanisahaye, Chandra S/o Nanag S/o Ramkaran Har Do Sambhag 1/16 Bhag Prahalad S/o Richhpal S/o Ramkaran 1/9 Bhag Smt. Bimla, Krishana D/o Chandra S/o Nanag Har Do Sambhag 1/12 Bhag Mishrilal, Mukhtayar Singh S/o Umrao Singh S/o Richhpal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Smt. Vidha Devi W/o Somdatt S/o Chhaju Ram 1/48 Bhag Somdatt S/o Chhaju Ram Partiya 7/48 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Parta 3866/33939 Bhag Vasideh Jagdish Prasad S/o Rangrao S/o Bihari LAL 4/419 Bhag Vasi Guvani Sunil Kumar S/o va Usha Devi, Omvati D/o va Santra Wd/o Manohar Lal S/o Dolat Ram Har Char Sambhag 4/45 Bhag Anish Kumar, Naresh Kumar S/o va Dipika D/o va Santosh Devi Wd/o va Santra Mata Surendra Kumar S/o Manohar Lal Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Nathiya, Risal S/o Hari Singh S/o Begraj Har Do Sambhag 1/27 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Begraj 1/162 Bhag Vasideh 43//11
14	43//12	Private	Agriculture	0.3389	Sumer Singh, Shisram, Rajendra Singh S/o va Smt. Indro, Bhatari D/o va Smt Sarfi Wd/o Surja S/o Nanag Har 6 Sambhag 1/12 Bhag Bhanisahaye, Chandra S/o Nanag S/o Ramkaran Har Do Sambhag 1/16 Bhag Prahalad S/o Richhpal S/o Ramkaran 1/9 Bhag Smt. Bimla, Krishana D/o Chandra S/o Nanag Har Do Sambhag 1/12 Bhag Mishrilal, Mukhtayar Singh S/o Umrao Singh S/o Richhpal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Smt. Vidha Devi W/o Somdatt S/o Chhaju Ram 1/48 Bhag Somdatt S/o Chhaju Ram Partiya 7/48 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Parta 3866/33939 Bhag Vasideh Jagdish Prasad S/o Rangrao S/o Bihari LAL 4/419 Bhag Vasi Guvani Sunil Kumar S/o va Usha Devi, Omvati D/o va Santra Wd/o Manohar Lal S/o Dolat Ram Har Char Sambhag 4/45 Bhag Anish Kumar, Naresh Kumar S/o va Dipika D/o va Santosh Devi Wd/o va Santra Mata Surendra Kumar S/o Manohar Lal Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Nathiya, Risal S/o Hari Singh S/o Begraj Har

					Do Sambhag 1/27 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Begraj 1/162 Bhag Vasideh 43//12
15	43//19	Private	Agriculture	0.263	Sumer Singh, Shisram, Rajendra Singh S/o va Smt. Indro, Bhatari D/o va Smt Sarfi Wd/o Surja S/o Nanag Har 6 Sambhag 1/12 Bhag Bhanisahaye, Chandra S/o Nanag S/o Ramkaran Har Do Sambhag 1/16 Bhag Prahalad S/o Richhpal S/o Ramkaran 1/9 Bhag Smt. Bimla, Krishana D/o Chandra S/o Nanag Har Do Sambhag 1/12 Bhag Mishrilal, Mukhtayar Singh S/o Umrao Singh S/o Richhpal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Smt. Vidha Devi W/o Somdatt S/o Chhaju Ram 1/48 Bhag Somdatt S/o Chhaju Ram Partiya 7/48 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Parta 3866/33939 Bhag Vasideh Jagdish Prasad S/o Rangrao S/o Bihari LAL 4/419 Bhag Vasi Guvani Sunil Kumar S/o va Usha Devi, Omvati D/o va Santra Wd/o Manohar Lal S/o Dolat Ram Har Char Sambhag 4/45 Bhag Anish Kumar, Naresh Kumar S/o va Dipika D/o va Santosh Devi Wd/o va Santra Mata Surendra Kumar S/o Manohar Lal Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Nathiya, Risal S/o Hari Singh S/o Begraj Har Do Sambhag 1/27 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Begraj 1/162 Bhag Vasideh 43//19
16	43//2/1/1	Private	Agriculture	0.0481	Smt. Lali W/o Omprakash S/o Nityanand 51/196 Bhag Smt. Savita W/o Lalchand S/o Ramjilal 39/196 Bhag Subhashchand, Amar Singh S/o Prabhati Lal S/o Chiranji Lal Har Do Sambhag 53/294 Bhag Rajbala, Kamla D/o Bhima S/o Kaliya Har Do Sambhag 1/294 Bhag Jitendra, Naveen S/o va Nirmala Devi Wd/o va Smt. Jagni Devi Mata Vedprakash S/o Prabhati Lal Har Char Sambhag 53/588 Bhag Rajpal S/o Bhima S/o Kaliya 53/392 Bhag Satyaveer S/o Bhima S/o Kaliya 149/1176 Bhag Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya 1/196 Bhag Vasideh 43//2/1/1
17	43//2/2/2	Government	Road	0.00759	Haryana Government 43//2/2/2
18	43//20	Private	Agriculture	0.1669	Sumer Singh, Shisram, Rajendra Singh S/o va Smt. Indro, Bhatari D/o va Smt Sarfi Wd/o Surja S/o Nanag Har 6 Sambhag 1/12 Bhag Bhanisahaye, Chandra S/o Nanag S/o Ramkaran Har

					Do Sambhag 1/16 Bhag Prahalad S/o Richhpal S/o Ramkaran 1/9 Bhag Smt. Bimla, Krishana D/o Chandra S/o Nanag Har Do Sambhag 1/12 Bhag Mishrilal, Mukhtayar Singh S/o Umrao Singh S/o Richhpal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Smt. Vidha Devi W/o Somdatt S/o Chhaju Ram 1/48 Bhag Somdatt S/o Chhaju Ram Partiya 7/48 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Parta 3866/33939 Bhag Vasideh Jagdish Prasad S/o Rangrao S/o Bihari LAL 4/419 Bhag Vasi Guvani Sunil Kumar S/o va Usha Devi, Omvati D/o va Santra Wd/o Manohar Lal S/o Dolat Ram Har Char Sambhag 4/45 Bhag Anish Kumar, Naresh Kumar S/o va Dipika D/o va Santosh Devi Wd/o va Santra Mata Surendra Kumar S/o Manohar Lal Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Nathiya, Risal S/o Hari Singh S/o Begraj Har Do Sambhag 1/27 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Begraj 1/162 Bhag Vasideh 43//20
19	43//21	Private	Agriculture	0.2352	Sumer Singh, Shisram, Rajendra Singh S/o va Smt. Indro, Bhatari D/o va Smt Sarfi Wd/o Surja S/o Nanag Har 6 Sambhag 1/12 Bhag Bhanisahaye, Chandra S/o Nanag S/o Ramkaran Har Do Sambhag 1/16 Bhag Prahalad S/o Richhpal S/o Ramkaran 1/9 Bhag Smt. Bimla, Krishana D/o Chandra S/o Nanag Har Do Sambhag 1/12 Bhag Mishrilal, Mukhtayar Singh S/o Umrao Singh S/o Richhpal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Smt. Vidha Devi W/o Somdatt S/o Chhaju Ram 1/48 Bhag Somdatt S/o Chhaju Ram Partiya 7/48 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Parta 3866/33939 Bhag Vasideh Jagdish Prasad S/o Rangrao S/o Bihari LAL 4/419 Bhag Vasi Guvani Sunil Kumar S/o va Usha Devi, Omvati D/o va Santra Wd/o Manohar Lal S/o Dolat Ram Har Char Sambhag 4/45 Bhag Anish Kumar, Naresh Kumar S/o va Dipika D/o va Santosh Devi Wd/o va Santra Mata Surendra Kumar S/o Manohar Lal Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Nathiya, Risal S/o Hari Singh S/o Begraj Har Do Sambhag 1/27 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Begraj 1/162 Bhag Vasideh 43//21
20	43//22	Private	Agriculture	0.1695	Sumer Singh, Shisram, Rajendra Singh S/o va Smt. Indro, Bhatari D/o va Smt Sarfi Wd/o Surja S/o Nanag Har 6

					Sambhag 1/12 Bhag Bhanisahaye, Chandra S/o Nanag S/o Ramkaran Har Do Sambhag 1/16 Bhag Prahalad S/o Richhpal S/o Ramkaran 1/9 Bhag Smt. Bimla, Krishana D/o Chandra S/o Nanag Har Do Sambhag 1/12 Bhag Mishrilal, Mukhtayar Singh S/o Umrao Singh S/o Richhpal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Smt. Vidha Devi W/o Somdatt S/o Chhaju Ram 1/48 Bhag Somdatt S/o Chhaju Ram Partiya 7/48 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Parta 3866/33939 Bhag Vasideh Jagdish Prasad S/o Rangrao S/o Bihari LAL 4/419 Bhag Vasi Guvani Sunil Kumar S/o va Usha Devi, Omvati D/o va Santra Wd/o Manohar Lal S/o Dolat Ram Har Char Sambhag 4/45 Bhag Anish Kumar, Naresh Kumar S/o va Dipika D/o va Santosh Devi Wd/o va Santra Mata Surendra Kumar S/o Manohar Lal Har Panch Sambhag 1/45 Bhag Nathiya, Risal S/o Hari Singh S/o Begraj Har Do Sambhag 1/27 Bhag Surendra Singh S/o Hari Singh S/o Begraj 1/162 Bhag Vasideh 43/22
21	43/3/1/1	Private	Agriculture	0.0556	Purushottam S/o va Smt. Krishna, Bimla D/o Mohar Singh S/o Indraj Har Teen Sambhag 175/1051 Bhag Dinesh Kumar S/o S/o Omprakash S/o Nityanand 90/1051 Bhag Lalchand, Shimbhu Dayal, Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya Har Teen Sambhag 351/1051 Bhaag Omprakash, Indrajeet S/o va Ramesh Devi Wd/o Babulal S/o Sultan Har Teen Sambhag 260/1051 Bhag Smt. Maya Devi W/o Bastiram S/o Ganpat ram 40/1051 Bhag Smt. Manju Devi W/o Pradeep Kumar S/o Bastiram 320/9459 Bhag Ravindra Kumar S/o Pushkar urf Pushpat Kumar urf Pushp Kumar S/o 535/9459 Bhag Smt. Santsh Devi W/o Ramchandra S/o Chhajuram 40/1051 Bhag Vasideh 43/3/1/1
22	43/3/1/2	Government	Road	0.001	Haryana Government 43/3/1/2
23	43/3/2/1	Government	Road	0.0025	Haryana Government 43/3/2/1
24	43/3/2/2	Private	Agriculture	0.0152	Purushottam S/o va Smt. Krishna, Bimla D/o Mohar Singh S/o Indraj Har Teen Sambhag 175/1051 Bhag Dinesh Kumar S/o S/o Omprakash S/o Nityanand 90/1051 Bhag Lalchand, Shimbhu Dayal, Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya Har Teen

					Sambhag 351/1051 Bhaag Omprakash, Indrajeet S/o va Ramesh Devi Wd/o Babulal S/o Sultan Har Teen Sambhag 260/1051 Bhag Smt. Maya Devi W/o Bastiram S/o Ganpat ram 40/1051 Bhag Smt. Manju Devi W/o Pradeep Kumar S/o Bastiram 320/9459 Bhag Ravindra Kumar S/o Pushkar urf Pushpat Kumar urf Pushp Kumar S/o 535/9459 Bhag Smt. Santsh Devi W/o Ramchandra S/o Chhajuram 40/1051 Bhag Vasideh 43/3/2/2
25	43/8	Private	Agriculture	0.0152	Purushottam S/o va Smt. Krishna, Bimla D/o Mohar Singh S/o Indraj Har Teen Sambhag 175/1051 Bhag Dinesh Kumar S/o S/o Omprakash S/o Nityanand 90/1051 Bhag Lalchand, Shimbhu Dayal, Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya Har Teen Sambhag 351/1051 Bhaag Omprakash, Indrajeet S/o va Ramesh Devi Wd/o Babulal S/o Sultan Har Teen Sambhag 260/1051 Bhag Smt. Maya Devi W/o Bastiram S/o Ganpat ram 40/1051 Bhag Smt. Manju Devi W/o Pradeep Kumar S/o Bastiram 320/9459 Bhag Ravindra Kumar S/o Pushkar urf Pushpat Kumar urf Pushp Kumar S/o 535/9459 Bhag Smt. Santsh Devi W/o Ramchandra S/o Chhajuram 40/1051 Bhag Vasideh 43/8
26	43/9/1	Government	Road	0.0101	Haryana Goverment 43/9/1
27	43/9/2	Private	Agriculture	0.349	Purushottam S/o va Smt. Krishna, Bimla D/o Mohar Singh S/o Indraj Har Teen Sambhag 175/1051 Bhag Dinesh Kumar S/o S/o Omprakash S/o Nityanand 90/1051 Bhag Lalchand, Shimbhu Dayal, Mahendra Singh S/o Ramjilal S/o Kaliya Har Teen Sambhag 351/1051 Bhaag Omprakash, Indrajeet S/o va Ramesh Devi Wd/o Babulal S/o Sultan Har Teen Sambhag 260/1051 Bhag Smt. Maya Devi W/o Bastiram S/o Ganpat ram 40/1051 Bhag Smt. Manju Devi W/o Pradeep Kumar S/o Bastiram 320/9459 Bhag Ravindra Kumar S/o Pushkar urf Pushpat Kumar urf Pushp Kumar S/o 535/9459 Bhag Smt. Santsh Devi W/o Ramchandra S/o Chhajuram 40/1051 Bhag Vasideh 43/9/2
28	55/24/1	Private	Agriculture	0.0126	Smt. Punam D/o Ramkala D/o Chhaju Ram 1/176 Bhag Ramkavar, Omprakash, Karan Singh, Ved Prakash S/o Khubchand S/o Kashiram

					<p>Har Char Sambhag 1/6 Bhag Dharambeer S/o Ganpat Ram S/o Kashiram 1/8 Bhag Chandra Kala W/o Hoshiyar Singh S/o Ramprasad 40/2677 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o va Smt/ Kirosta Wd/o va Parmeshwarri Mata Rajendra Singh S/o Ganpat Har Panch Sambhag 2357/21416 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Teckchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Hanuman Singh S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawar S/o Jagdish Prasad S/o Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chajuram 20/2677 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampa, Rampal S/o Chhajuram S/o Pirana Har Do Sambhag 21/176 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2357/21416 Bhag Santpal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirani Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 55/24/1</p>
29	55/24/2	Private	Agriculture	0.0101	<p>Ramkuwar, Vedprakash, Omprakash, Karan Singh S/o Khubchand S/o Kasiram Har Char Sambhag 1/6 Bhag Smt. Punam Devi D/o Ramkala D/o Chhajuram 1/110 Bhag Dharamveer S/o Ganpat S/o Kashiram 1/16 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o Rajendra Singh S/o Ganpat Har Teen Sambhag 3/80 Bhag Smt. Asha Rani W/o Satyaveer Singh S/o Ramjilal 1/264 Bhag Smt. Kirosta Devi Wd/o Rajendra Singh S/o Ganpat Ram 343/2640 Bhag Smt. Prem Devi W/o Naresh Kumar S/o Ramkumar 1/264 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Tekchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Parmeshwari Mata Rajendra Singh S/o Ganpat 1/80 Bhag Hanuman Singh S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawar S/o Jagdish Prasad S/o Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chhajuram 1/33 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 1/33 Bhag Smt. Shakina Devi W/o Dharambeer S/o Sher Singh 31/21330 Bhag Smt. Geeta Devi W/o Mahesh Kumar S/o Dharampal 41/21330 Smt. Madhu Sain W/o Sunil Kumar S/o Suresh Kumar Caste Nayi 1/474 Bhag Smt. Rajesh Devi W/o Omprakash S/o Ramsavrup 109/104280 Bhag Smt. Ramesh Devi</p>

					W/o Kailash Chand S/o Ramsavrup 109/104280 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampal, Rampal S/o Chhajuram urf Chhaju S/o Pransukh urf Pirana Har Do Sambhag 37/330 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2/33 Bhag Santlal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirana Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 55/24/2
30	55//6	Private	Agriculture	0.0835	Smt. Punam D/o Ramkala D/o Chhaju Ram 1/176 Bhag Ramkawar, Omprakash, Karan Singh, Ved Prakash S/o Khubchand S/o Kashiram Har Char Sambhag 1/6 Bhag Dharambeer S/o Ganpat Ram S/o Kashiram 1/8 Bhag Chandra Kala W/o Hoshiyar Singh S/o Ramprasad 40/2677 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o va Smt/ Kirosta Wd/o va Parmeshwarri Mata Rajendra Singh S/o Ganpat Har Panch Sambhag 2357/21416 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Teckchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Hanuman Singh S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawar S/o Jagdish Prasad S/o Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampa, Rampal S/o Chhajuram S/o Pirana Har Do Sambhag 21/176 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2357/21416 Bhag Santpal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirani Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 55//6
31	55/15	Private	Agriculture	0.0051	Smt. Punam D/o Ramkala D/o Chhaju Ram 1/176 Bhag Ramkawar, Omprakash, Karan Singh, Ved Prakash S/o Khubchand S/o Kashiram Har Char Sambhag 1/6 Bhag Dharambeer S/o Ganpat Ram S/o Kashiram 1/8 Bhag Chandra Kala W/o Hoshiyar Singh S/o Ramprasad 40/2677 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o va Smt/ Kirosta Wd/o va Parmeshwarri Mata Rajendra Singh S/o Ganpat Har Panch Sambhag 2357/21416 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Teckchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Hanuman Singh S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawar S/o Jagdish Prasad S/o

					Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chajuram 20/2677 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampa, Rampal S/o Chhajuram S/o Pirana Har Do Sambhag 21/176 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2357/21416 Bhag Santpal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirani Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 55//15
32	55/16	Private	Agriculture	0.0986	Smt. Punam D/o Ramkala D/o Chhaju Ram 1/176 Bhag Ramkawar, Omprakash, Karan Singh, Ved Prakash S/o Khubchand S/o Kashiram Har Char Sambhag 1/6 Bhag Dharambeer S/o Ganpat Ram S/o Kashiram 1/8 Bhag Chandra Kala W/o Hoshiyar Singh S/o Ramprasad 40/2677 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o va Smt/ Kirosta Wd/o va Parmeshwarri Mata Rajendra Singh S/o Ganpat Har Panch Sambhag 2357/21416 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Teckchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Hanuman Singh S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawan S/o Jagdish Prasad S/o Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chajuram 20/2677 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampa, Rampal S/o Chhajuram S/o Pirana Har Do Sambhag 21/176 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2357/21416 Bhag Santpal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirani Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 55//16
33	56//1/1	Private	Agriculture	0.0809	Smt. Punam D/o Ramkala D/o Chhaju Ram 1/176 Bhag Ramkawar, Omprakash, Karan Singh, Ved Prakash S/o Khubchand S/o Kashiram Har Char Sambhag 1/6 Bhag Dharambeer S/o Ganpat Ram S/o Kashiram 1/8 Bhag Chandra Kala W/o Hoshiyar Singh S/o Ramprasad 40/2677 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o va Smt/ Kirosta Wd/o va Parmeshwarri Mata Rajendra Singh S/o Ganpat Har Panch Sambhag 2357/21416 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Teckchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Hanuman Singh

					S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawar S/o Jagdish Prasad S/o Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chajuram 20/2677 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampa, Rampal S/o Chhajuram S/o Pirana Har Do Sambhag 21/176 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2357/21416 Bhag Santpal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirani Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 56/1/1
34	56//1/2	Private	Agriculture	0.2529	Mohar Singh S/o Bahadur S/O Lakshman 1/2 Bhag Sabhanand, Munshi Ram, Chhotelal S/o Dhani Ram S/o Bahadur Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 56//1/2
35	56//10	Private	Agriculture	0.3288	Smt. Punam D/o Ramkala D/o Chhaju Ram 1/176 Bhag Ramkawar, Omprakash, Karan Singh, Ved Prakash S/o Khubchand S/o Kashiram Har Char Sambhag 1/6 Bhag Dharambeer S/o Ganpat Ram S/o Kashiram 1/8 Bhag Chandra Kala W/o Hoshiyar Singh S/o Ramprasad 40/2677 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o va Smt/ Kirosta Wd/o va Parmeshwarri Mata Rajendra Singh S/o Ganpat Har Panch Sambhag 2357/21416 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Teckchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Hanuman Singh S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawar S/o Jagdish Prasad S/o Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chajuram 20/2677 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampa, Rampal S/o Chhajuram S/o Pirana Har Do Sambhag 21/176 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2357/21416 Bhag Santpal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirani Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 56//10
36	56//11	Private	Agriculture	0.11129	Smt. Punam D/o Ramkala D/o Chhaju Ram 1/176 Bhag Ramkawar, Omprakash, Karan Singh, Ved Prakash S/o Khubchand S/o Kashiram Har Char Sambhag 1/6 Bhag Dharambeer S/o Ganpat Ram S/o Kashiram 1/8 Bhag Chandra Kala W/o

					Hoshiyar Singh S/o Ramprasad 40/2677 Bhag Uday Singh, Pradeep S/o va Smt. Geeta D/o va Smt/ Kirosta Wd/o va Parmeshwarri Mata Rajendra Singh S/o Ganpat Har Panch Sambhag 2357/21416 Bhag Anil Kumar S/o Santpal S/o Teckchand 1/20 Bhag Ashok Kumar S/o Banwari Lal S/o Tekchand 1/20 Bhag Hanuman Singh S/o Ranjeet Singh S/o Khubchand 1/24 Bhag Satyawan S/o Jagdish Prasad S/o Khubchand 1/24 Bhag Smt. Dev Kala W/o Dharampal S/o Chajuram 20/2677 Bhag Smt. Sushma Devi W/o Rampal S/o Chhajuram 20/2677 Bhag Ramjilal S/o Pirana S/o Thakur Singh 1/8 Bhag Dharampa, Rampal S/o Chhajuram S/o Pirana Har Do Sambhag 21/176 Bhag Ramchandra S/o Balbeer S/o Pransukh Urf Pirana 2357/21416 Bhag Santpal, Banwari S/o Tekchand S/o Pirani Har Do Sambhag 1/40 Bhag Vasideh 56/11
37	56/2	Private	Agriculture	0.1062	Heera Lal S/o Smt. Sarwan D/o Kaliya 178/5441 Bhag Smt. Mishri Devi W/o Hari Singh S/o Sawal Ram 119/5441 Bhag Bhup Singh S/o Ramkuwar S/o Kesho 520/5441 Bhag Babu Lal S/o Net Ram S/o Mukhram 80/5441 Bhag Rambeer, Ombeer S/o Vijay Singh S/o Lokchand Har Do Sambhag 216/5441 Bhag Vijay Singh S/o Lokchand S/o Hardeva 464/5441 Bhag Gheesa Ram S/o Jeevan Ram S/o Kashi Ram 6078553/118439688 Bhag Dharampal S/o Ramkumar S/o Kesha 557/5441 Bhag Jagmal, Ramniwas S/o Devkaran S/o Hardeva Har Do Sambhag 680/5441 Bhag Ramesh, Ashok Kumar, Rampal S/o Ramnarayan Har Teen Sambhag 80/5441 Bhag Sube Singh S/o Smt. Maktul D/o Begraj 340/5441 Bhag Vasideh Ishwar Singh, Rajpal S/o Shriram S/o Umda S/o Rupa Har Do Sambhag 240/5441 Bhag Vasi Khatripur Anita D/o Smt. Kalawati D/o Smt. Sarti 177/54410 Bhag Amilal, Matadeen S/o Smt. Sarti S/o Kaliya Har Do Sambhag 3817658/133244649 Bhag Ravindra, Sanjeev S/o va Kusum, Sarjeeta D/o Smt. Kalawati D/o Smt. Sarti Har Char Sambhag 7635316/666223245 Bhag Sunil Kumar S/o va Sangeeta D/o Kawar Singh S/o Smt. Sarti Har Do Sambhag 1908829/133244649 Bhag Pradeep Kumar S/o Basti Ram S/o Ganpat 361/48978 Bhag Jaswant Singh S/o Smt Maktul S/o Begraj S/o Kishan 1020/5441 Bhag Ramniwas

					S/o Smt Lili D/o Smt. Surji 59/21764 Bhag Matadeen S/o va Sarvan, Bimla D/o Smt. Surji S/o Kaliya Har Teen Sambhag 848973/39479896 Bhag Ramautar S/o Smt. Sariya S/o Kaliya 282991/39479896 Bhag Sharda, Maya, Santosh D/o Smt Sariya S/o Kaliya Har Teen Sambhag 848973/39479896 Bhag Lali Devi, Savitri Devi D/o Smt. Lili S/o Smt. Surji Har Do Sambhag 282991/59219844 Bhag Vasideh 56/2
Viilage: Jat Guwana					
38	12//1	Private	Agriculture	0.0152	Kawarpaal S/O Bharat Singh S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 1/4 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 1/8 Bhag Raghbeer Singh , Babulal , Chhote Laal , Ishwar Singh , Rajendra Singh S/O Ramsingh S/O Ganpat Har Pangh Sambhag 1/4 Bhag Vikas , Vishal S/O Mahendra Singh Umrau Singh Har Do Sambhag 11/270 Bhag Rajesh Singh , Rekha D/O Jagmal Singh S/O Ganpal Singh Har Do Sanbhag 1/27 Bhag Rajbeer Singh, Laala Ram S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har 2 Sambhag 17/540 Bhag Ashok Kumar S/O Sher Singh S/O Biharilal Com Ahir 1/270 Bhag Prem Bai , Pana Bai, Laali Bai D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh Har Teen Sambhag 29/540 Bhag Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nitya Nand 1/24 Bhag Mahendra Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 3/40 Bhag Vasideh Smt. Aruna Bharti W/O Barahmprakash S/O Matadeen 1/20 Bhag Vasi Amndi Ateli Ravi , Rajat S/O Vay Ponam Wd/O Surender Singh S/O Umrav Singh Har Teen Samhag 1/24 Bhag Vasi Dublana 12//1
39	13//14	Private	Agriculture	0.1821	Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nita Nand 1/2 Bhag Vasi Dublana Ravi , Rajat S/O V Poonam Wd/O Surendra Singh S/O Umrau Singh Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Vasi Dulana 13//14
40	13//15	Private	Agriculture	0.263	Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nita Nand 1/2 Bhag Vasi Dublana Ravi , Rajat S/O V Poonam Wd/O Surendra Singh S/O Umrau Singh Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Vasi Dulana 13//15
41	13//16	Private	Agriculture	0.1771	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh

					S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 13//16
42	13//17	Private	Agriculture	0.2428	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 13//17
43	13//24	Private	Agriculture	0.3339	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 13//24
44	13//25	Private	Agriculture	0.1113	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O

					Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipaal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 13/25
45	13/5	Private	Agriculture	0.3996	Kawarpaal S/O Bharat Singh S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 1/4 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 1/8 Bhag Raghbeer Singh , Babulal , Chhote Laal , Ishwar Singh , Rajendra Singh S/O Ramsingh S/O Ganpat Har Pangh Sambhag 1/4 Bhag Vikas , Vishal S/O Mahendra Singh Umrau Singh Har Do Sambhag 11/270 Bhag Rajesh Singh , Rekha D/O Jagmal Singh S/O Ganpal Singh Har Do Sanbhag 1/27 Bhag Rajbeer Singh, Laala Ram S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har 2 Sambhag 17/540 Bhag Ashok Kumar S/O Sher Singh S/O Biharilaal Com Ahir 1/270 Bhag Prem Bai , Pana Bai, Laali Bai D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh Har Teen Sambhag 29/540 Bhag Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nitya Nand 1/24 Bhag Mahendra Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 3/40 Bhag Vasideh Smt. Aruna Bharti W/O Barahmprakash S/O Matadeen 1/20 Bhag Vasi Amndi Ateli Ravi , Rajat S/O Vay Ponam Wd/O Surender Singh S/O Umrav Singh Har Teen Samhag 1/24 Bhag Vasi Dublana 13/5
46	13/6	Private	Agriculture	0.3389	Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nita Nand 1/2 Bhag Vasi Dublana Ravi , Rajat S/O V Poonam Wd/O Surendra Singh S/O Umrau Singh Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Vasi Dulana 13/6
47	13/7	Private	Agriculture	0.1062	Kawarpaal S/O Bharat Singh S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 1/4 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 1/8 Bhag Raghbeer

					Singh , Babulal , Chhote Laal , Ishwar Singh , Rajendra Singh S/O Ramsingh S/O Ganpat Har Pangh Sambhag 1/4 Bhag Vikas , Vishal S/O Mahendra Singh Umrau Singh Har Do Sambhag 11/270 Bhag Rajesh Singh , Rekha D/O Jagmal Singh S/O Ganpal Singh Har Do Sambhag 1/27 Bhag Rajbeer Singh, Laala Ram S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har 2 Sambhag 17/540 Bhag Ashok Kumar S/O Sher Singh S/O Biharilal Com Ahir 1/270 Bhag Prem Bai , Pana Bai, Laali Bai D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh Har Teen Sambhag 29/540 Bhag Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nitya Nand 1/24 Bhag Mahendra Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 3/40 Bhag Vasideh Smt. Aruna Bharti W/O Barahmprakash S/O Matadeen 1/20 Bhag Vasi Amndi Ateli Ravi , Rajat S/O Vay Ponam Wd/O Surender Singh S/O Umrav Singh Har Teen Samhag 1/24 Bhag Vasi Dublana 13/7
48	16//13	Private	Agriculture	0.1442	Umrau Singh S/O Neeta Nand S/O Kishan Laal 1/2 Bhag Vasideh Anita Kumari , Sunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal 1/4 Bhag Vasi Dublana 16//13
49	16//14	Private	Agriculture	0.2479	Umrau Singh S/O Neeta Nand S/O Kishan Laal 1/2 Bhag Vasideh Anita Kumari , Sunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal 1/4 Bhag Vasi Dublana 16//14
50	16//17	Private	Agriculture	0.2175	Smt. Sushila D/O Ramniwas S/O Raghubeer 1/24 Bhag Vasi Khatripur Jaswant Singh , Jagram , Jagbeer Singh S/O Mam Chand S/O Kishan Laal Har Teen Sambhag 1/34 Bhag Vasi Khatripur Beem Singh Har Dhayan Singh S/O Ramawtar S/O Kishan Lal Har Do Sambhag 1/34 Bhag Vasi Khatripur Bimla , Manju D/O Ramniwas Har Do Sambhag 5/204 Bhag Vasi Khatripur Hetram S/O Balbeer Singh S/O Motiram 55/1224 Bhag Prathvi Singh S/O Raghubeer Singh S/O Net Ram 379/1224 Bhag Vasideh Smt. Anju Devi W/O Narendra Kumar S/O Yaad Ram 25/1224 Bhag Vasi Dublana Surat Singh S/O Gheesa Ram S/O Net Ram 1/4 Bhag Vasi Dinlana Satywan S/O Gheesa Ram S/O Net Ram 133/612 Bahg Vasi Dunlana Smt.

					Saroja Devi W/O Surat Singh S/O Gheesa Ram 5/153 Bhag Vasideh 16//17
51	16//18	Private	Agriculture	0.2276	Bshesar , Amar Singh S/O Bishmbar S/O Hardayal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Vasi Dublana Radheshyam , Rajendra S/O V Meva Wd/O Payare Laal S/O Bishmbar S/O Hardayal Har Teen Sambhag 1/18 Bhag Vasideh Ramchandra , Rambilas S/O Leela Ram S/O Jhuthaa Ram Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasi Dublana Hetram S/O Balbeer S/O Moti Ram 7/2 Bhag Vasi Dublana 16//18
52	16//23/1	Private	Agriculture	0.0607	Bshesar , Amar Singh S/O Bishmbar S/O Hardayal Har Do Sambhag 1/9 Bhag Vasi Dublana Radheshyam , Rajendra S/O V Meva Wd/O Payare Laal S/O Bishmbar S/O Hardayal Har Teen Sambhag 1/18 Bhag Vasideh Ramchandra , Rambilas S/O Leela Ram S/O Jhuthaa Ram Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasi Dublana Hetram S/O Balbeer S/O Moti Ram 7/2 Bhag Vasi Dublana 16//23/1
53	16//23/2	Private	Agriculture	0.2428	Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam , Ram Chandra , Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Ramanand, Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Kailash Chand Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Murari Lal S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt. Santra, Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Krishana Bai D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Chandgi Devi Wd/O Chunna S/O Mangtu Har Saat Sambhag 7/70 Bhag Vasi Nuni Kala Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Madan Lal Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Ashok Kumar S/O Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt. Santo Bai Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Aasha Bai D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt Kamla Devi Wd/O Jagdish S/O Chunna Har Panch Sambhag 1/10 Bhag Vasi Nunikala Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Subhash S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Maya D/O

					Ramauvtar S/O Chuni Laal Har Do Sambhag 1/10 Bhag Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Radhe Shayam Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Suresh S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Bindiya D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Durga W/O Basant Laal Chunna Har Chaar Sambhag 1/10 Bhaag Vasideh 16/23/2
54	16/24/1	Private	Agriculture	0.1416	Smt. Sushila D/O Ramniwas S/O Raghubeer 1/24 Bhag Vasi Khatripur Jaswant Singh , Jagram , Jagbeer Singh S/O Mam Chand S/O Kishan Laal Har Teen Sambhag 1/34 Bhag Vasi Khatripur Beem Singh Har Dhayan Singh S/O Ramawtar S/O Kishan Lal Har Do Sambhag 1/34 Bhag Vasi Khatripur Bimla , Manju D/O Ramniwas Har Do Sambhag 5/204 Bhag Vasi Khatripur Hetram S/O Balbeer Singh S/O Motiram 55/1224 Bhag Prathvi Singh S/O Raghubeer Singh S/O Net Ram 379/1224 Bhag Vasideh Smt. Anju Devi W/O Narendra Kumar S/O Yaad Ram 25/1224 Bhag Vasi Dublana Surat Singh S/O Gheesa Ram S/O Net Ram 1/4 Bhag Vasi Dinlana Satywan S/O Gheesa Ram S/O Net Ram 133/612 Bahg Vasi Dunlana Smt. Saroja Devi W/O Surat Singh S/O Gheesa Ram 5/153 Bhag Vasideh 16/24/1
55	16/3	Private	Agriculture	0.0101	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 16/3
56	16/4	Private	Agriculture	0.3971	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita

					Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 16//4
57	16//5	Private	Agriculture	0.0354	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 16//5
58	16//7/1	Private	Agriculture	0.1315	Suresh , Naresh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Laal Har Do Sambhag 2/5 Bhag Vasi Dublana Smt. Anita Kumari , Saunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh Har Do Sambhag 1/0 Bhag Vasi Dublana Smt Ramdei M/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 2401/174420 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal Singh 15041/174420 Bhag Vadi Dublana Shamsher Singh S/O Jaipal Singh S/O Kishan Pal 1/261630 Bhag Vasi Dublana Devendra, Narendra S/O V Smt. Anita W/O Shamsher Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 10465/52326 Bhag Vasi Dublana Praduman Singh , Abhimanyu Yadav S/O V Rachna D/O Rajendra Singh S/O Jaipal Singh Har Teen Sambhag 1/5 Bahg Vasi Dublana 16//7/1

59	16/7/2	Private	Agriculture	0.2326	Umrau Singh S/O Neeta Nand S/O Kishan Laal 1/2 Bhag Vasideh Anita Kumari , Sunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal 1/4 Bhag Vasi Dublana 16/7/2
60	16/8	Private	Agriculture	0.0759	Umrau Singh S/O Neeta Nand S/O Kishan Laal 1/2 Bhag Vasideh Anita Kumari , Sunita D/O Gajraj Singh S/O Jaipal Har Do Sambhag 1/4 Bhag Vasi Dublana Rakesh S/O Gajraj Singh S/O Jaipal 1/4 Bhag Vasi Dublana 16/8
61	168	Private	Rasta	0.0253	Nagar Panchayat 168
62	170	Government	Rasta	0.0253	Nagar Panchayat 170
63	2//14	Private	Agriculture	0.0025	Seeta Ram , Saty Narayan S/O Bhavi Sahay S/O Dilsukh Har Do Sambhag Vasi Dublana 2//14
64	2//16	Private	Agriculture	0.2656	Raghbeer Singh Babulaal , Chhote , Ishwar , Rajendra S/O Smt Resham , Krishan Antra Bai D/O Smt . Shayo Bai Wd/O Ram Singh S/O Har No Sambhag Hissedaran Tabadla Dahindgaan Vikas , Vishal S/O Mahender Singh S/O Uma Rav Har Do Sambhag Vasi Dublana Tabadlaan Garindgaan 2//16
65	2//25/1	Private	Agriculture	0.06576	Babalaal S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 59/1020 Bhag Vasideh Sger Singh S/O Bihari Laal S/O Ram Dayal 5/204 Bhag Vasi Guwani Shri Ram S/O Ram Singh S/O Gheesa Ram 4/51 Bhag Vasi Guwani Ajaypaal , Shayoraj S/O V Smt Anita D/O V Smt. Kiros Devi Wd/O Lakhmi Chand S/O Ramdut Har Char Sambhag 1/68 Bhag Vasi Guwani Ashok Kumar S/O Shwe Singh S/O Bihari Laal 1/30 Bhag Guwani Ram Kumar S/O Ram Chandra S/O Khuba Raam 1/136 Bhag Vasideh Smt Shavitri Devi W/O Laal Chand S/O Ramchandra 1/136 Bhag Vasi Guwanisataypaal S/O Sher Singh S/O Bihari Laal 1/51 Bhag Vasi Guwani Sheeshpaal S/O Sher Singh S/O Bihari Laal 27/1360 Bhag Vasi Guwani Rekha S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh 3/680 Bhag Bihari Laal S/O Ramdayal S/O 1/102 Bhag Smt Panna Bai Prem Bai D/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har Do Sambhag 13147/1352180 Bhag Lali Bai D/O Jagmaal Singh S/O Ganpat

					<p>Singh 673/131920 Bhag Sanjay Kumar S/O Surendra Singh S/O Ram Kumar 1/408 Bhag Smt Sawitri Devi W/O Laal Chand Ram Chandra 1/136 Bhag Smt. Pushpa Devi W/O Ran Singh Ram Kumar 1/408 Bhag Vasideh Bhupendra Singh S/O Krishan Kumar 1/408 Bhag Vasi Guwani Smt Shakuntla Devi W/O Mahendra Singbh , Mohan Laal 39/3977 Bhag Raghbeer Singh S/O Ram Singh S/O Ganpat 103 /2040 Bhag Ishwar S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 1339/40120 Bhag Kawarpal S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 29035 / 811308 Bhag Deepak Singh S/O Krishan Singh S/O Mohan Singh 397/7954 Bhag Vasideh Smt. Kavita Devi W/O Rakesh Kumar S/O Kanai Ram 400/3977 Bhag Vasi Gram Parta Pur Vasi. T. Bahrod Smt. Rajesh Devi W/O Satish Kumar S/O Kanai Ram 400/3977 Bhag Vasi Gram Prta Pur Vasi. T. Bahrod Chhote Laal S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 42923/1622616 Bhag Smt. Munni Devi W/O Kawar Paal S/O Bharath Singh 80/3977 Bhag Smt. Shakuntla W/O Mahendra S/O Mohan Singh 40/3977 Bhag Vasideh Smt. Kailash Devi W/O Deshraj S/O Yaad Raam 181/3977 Bhag Vasi Guwani Rajendra S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 368831/8113080 Bhag Kuldeep Singh S/O Krishan Singh S/O Mohan Singh 277/7954 Bhag Smt. Munni Devi W/O Kawarpaal S/O Bharat Singh 80/3977 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 481/31816 Bhag Mahendra Singh S/O Ganpat Singh 2729 /31816 Bhag Smt Sushila Devi W/O Sataypaal S/O Mayachand 2/3977 Bhag Vasideh 2/25/1</p>
66	2/25/2	Private	Agriculture	0.0531	<p>Kawarpaal S/O Bharat Singh S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 1/4 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 1/8 Bhag Raghbeer Singh , Babulal , Chhote Laal , Ishwar Singh , Rajendra Singh S/O Ramsingh S/O Ganpat Har Pangh Sambhag 1/4 Bhag Vikas , Vishal S/O Mahendra Singh Umrau Singh Har Do Sambhag 11/270 Bhag Rajesh Singh , Rekha D/O Jagmal Singh S/O Ganpal Singh Har Do Sanbhag 1/27 Bhag Rajbeer Singh, Laala Ram S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har 2 Sambhag 17/540 Bhag Ashok Kumar S/O Sher Singh S/O Biharilaal Com Ahir 1/270</p>

					Bhag Prem Bai , Pana Bai, Laali Bai D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh Har Teen Sambhag 29/540 Bhag Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nitya Nand 1/24 Bhag Mahendra Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 3/40 Bhag Vasideh Smt. Aruna Bharti W/O Barahmprakash S/O Matadeen 1/20 Bhag Vasi Amndi Ateli Ravi , Rajat S/O Vay Ponam Wd/O Surender Singh S/O Umrav Singh Har Teen Samhag 1/24 Bhag Vasi Dublana 2//25/2
67	3//20/2	Private	Agriculture	0.2074	Babalaal S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 59/1020 Bhag Vasideh Sger Singh S/O Bihari Laal S/O Ram Dayal 5/204 Bhag Vasi Guwani Shri Ram S/O Ram Singh S/O Gheesa Ram 4/51 Bhag Vasi Guwani Ajaypaal , Shayoraj S/O V Smt Anita D/O V Smt. Kiros Devi Wd/O Lakhmi Chand S/O Ramdut Har Char Sambhag 1/68 Bhag Vasi Guwani Ashok Kumar S/O Shwe Singh S/O Bihari Laal 1/30 Bhag Guwani Ram Kumar S/O Ram Chandra S/O Khuba Raam 1/136 Bhag Vasideh Smt Shavitri Devi W/O Laal Chand S/O Ramchandra 1/136 Bhag Vasi Guwanisataypaal S/O Sher Singh S/O Bihari Laal 1/51 Bhag Vasi Guwani Sheeshpaal S/O Sher Singh S/O Bihari Laal 27/1360 Bhag Vasi Guwani Rekha S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh 3/680 Bhag Bihari Laal S/O Ramdayal S/O 1/102 Bhag Smt Panna Bai Prem Bai D/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har Do Sambhag 13147/1352180 Bhag Lali Bai D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh 673/131920 Bhag Sanjay Kumar S/O Surendra Singh S/O Ram Kumar 1/408 Bhag Smt Sawitri Devi W/O Laal Chand Ram Chandra 1/136 Bhag Smt. Pushpa Devi W/O Ran Singh Ram Kumar 1/408 Bhag Vasideh Bhupendra Singh S/O Krishan Kumar 1/408 Bhag Vasi Guwani Smt Shakuntla Devi W/O Mahendra Singbh , Mohan Laal 39/3977 Bhag Raghbeer Singh S/O Ram Singh S/O Ganpat 103 /2040 Bhag Ishwar S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 1339/40120 Bhag Kawarpal S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 29035 / 811308 Bhag Deepak Singh S/O Krishan Singh S/O Mohan Singh 397/7954 Bhag Vasideh Smt. Kavita Devi W/O Rakesh Kumar S/O Kanai Ram 400/3977 Bhag Vasi Gram Parta Pur Vasi. T. Bahrod Smt. Rajesh Devi W/O Satish Kumar S/O

					<p>Kanai Ram 400/3977 Bhag Vasi Gram Prta Pur Vasi. T. Bahrod Chhote Laal S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 42923/1622616 Bhag Smt. Munni Devi W/O Kawar Paal S/O Bharath Singh 80/3977 Bhag Smt. Shakuntla W/O Mahendra S/O Mohan Singh 40/3977 Bhag Vasideh Smt. Kailash Devi W/O Deshraj S/O Yaad Raam 181/3977 Bhag Vasi Guwani Rajendra S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 368831/8113080 Bhag Kuldeep Singh S/O Krishan Singh S/O Mohan Singh 277/7954 Bhag Smt. Munni Devi W/O Kawarpaal S/O Bharat Singh 80/3977 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 481/31816 Bhag Mahendra Singh S/O Ganpat Singh 2729 /31816 Bhag Smt Sushila Devi W/O Sataypaal S/O Mayachand 2/3977 Bhag Vasideh 3//20/2</p>
68	3//21/1	Private	Agriculture	0.0809	<p>Babalaal S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 59/1020 Bhag Vasideh Sger Singh S/O Bihari Laal S/O Ram Dayal 5/204 Bhag Vasi Guwani Shri Ram S/O Ram Singh S/O Gheesa Ram 4/51 Bhag Vasi Guwani Ajaypaal , Shayoraj S/O V Smt Anita D/O V Smt. Kiros Devi Wd/O Lakhmi Chand S/O Ramdut Har Char Sambhag 1/68 Bhag Vasi Guwani Ashok Kumar S/O Shwe Singh S/O Bihari Laal 1/30 Bhag Guwani Ram Kumar S/O Ram Chandra S/O Khuba Raam 1/136 Bhag Vasideh Smt Shavitri Devi W/O Laal Chand S/O Ramchandra 1/136 Bhag Vasi Guwanisataypaal S/O Sher Singh S/O Bihari Laal 1/51 Bhag Vasi Guwani Sheeshpaal S/O Sher Singh S/O Bihari Laal 27/1360 Bhag Vasi Guwani Rekha S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh 3/680 Bhag Bihari Laal S/O Ramdayal S/O 1/102 Bhag Smt Panna Bai Prem Bai D/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har Do Sambhag 13147/1352180 Bhag Lali Bai D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh 673/131920 Bhag Sanjay Kumar S/O Surendra Singh S/O Ram Kumar 1/408 Bhag Smt Sawitri Devi W/O Laal Chand Ram Chandra 1/136 Bhag Smt. Pushpa Devi W/O Ran Singh Ram Kumar 1/408 Bhag Vasideh Bhupendra Singh S/O Krishan Kumar 1/408 Bhag Vasi Guwani Smt Shakuntla Devi W/O Mahendra Singbh , Mohan Laal 39/3977 Bhag Raghbeer Singh S/O Ram Singh S/O Ganpat 103 /2040</p>

					<p>Bhag Ishwar S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 1339/40120 Bhag Kawarpal S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 29035 / 811308 Bhag Deepak Singh S/O Krishan Singh S/O Mohan Singh 397/7954 Bhag Vasideh Smt. Kavita Devi W/O Rakesh Kumar S/O Kanai Ram 400/3977 Bhag Vasi Gram Parta Pur Vasi. T. Bahrod Smt. Rajesh Devi W/O Satish Kumar S/O Kanai Ram 400/3977 Bhag Vasi Gram Prta Pur Vasi. T. Bahrod Chhote Laal S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 42923/1622616 Bhag Smt. Munni Devi W/O Kawar Paal S/O Bharath Singh 80/3977 Bhag Smt. Shakuntla W/O Mahendra S/O Mohan Singh 40/3977 Bhag Vasideh Smt. Kailash Devi W/O Deshraj S/O Yaad Raam 181/3977 Bhag Vasi Guwani Rajendra S/O Ram Singh S/O Ganpat Singh 368831/8113080 Bhag Kuldeep Singh S/O Krishan Singh S/O Mohan Singh 277/7954 Bhag Smt. Munni Devi W/O Kawarpaal S/O Bharat Singh 80/3977 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 481/31816 Bhag Mahendra Singh S/O Ganpat Singh 2729 /31816 Bhag Smt Sushila Devi W/O Sataypaal S/O Mayachand 2/3977 Bhag Vasideh 3//21/1</p>
69	3//21/2	Private	Agriculture	0.0051	<p>Kawarpaal S/O Bharat Singh S/O Bharat Singh S/O Ganpat Singh 1/4 Bhag Krishan Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 1/8 Bhag Raghbeer Singh , Babulal , Chhote Laal , Ishwar Singh , Rajendra Singh S/O Ramsingh S/O Ganpat Har Pangh Sambhag 1/4 Bhag Vikas , Vishal S/O Mahendra Singh Umrau Singh Har Do Sambhag 11/270 Bhag Rajesh Singh , Rekha D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh Har Do Sanbhag 1/27 Bhag Rajbeer Singh, Laala Ram S/O Jagmaal Singh S/O Ganpat Singh Har 2 Sambhag 17/540 Bhag Ashok Kumar S/O Sher Singh S/O Biharilaal Com Ahir 1/270 Bhag Prem Bai , Pana Bai, Laali Bai D/O Jagmal Singh S/O Ganpat Singh Har Teen Sambhag 29/540 Bhag Virendra Singh S/O Umrau Singh S/O Nitya Nand 1/24 Bhag Mahendra Singh S/O Mohan Singh S/O Ganpat Singh 3/40 Bhag Vasideh Smt. Aruna Bharti W/O Barahmprakash S/O Matadeen 1/20 Bhag Vasi Amndi Ateli Ravi , Rajat S/O Vay Ponam Wd/O Surender Singh S/O Umrav Singh Har Teen Samhag 1/24 Bhag Vasi Dublana 3//21/2</p>

70	31//13	Private	Agriculture	0.0911	Smt. Ram Kala W/O Kawar Singh S/O Sardar Singh 373/4432 Bhag Bhag Abhay Singh Shamsher Singh S/O Manohar Laal S/O Har Do Sambhag 721/4432 Bhag Smt Sushila Devi Wd/O Sher Singh S/O Sardar Singh 17/554 Bhag Smt. Tara Devi W/O Manohar Laal S/O Nityanand 333/4432 Bhag Ashok Kumar S/O Sher Singh S/O Sardar Singh 139/2216 Bhag Parveen Kumar S/O Sher Singh S/O Sardara Singh 83/2216 Bhag Jaiparkash S/O Kawar Singh S/O Sardar Singh 59//1108 Kawar Singh S/O Sardar Singh S/O Nityanand 23/1108 Bhag Vasideh Ram Mehar Singh S/O Sher Singh S/O Madu 373/2216 Bhag Vasi Salag Ki Dhani Gurgaon Subhag Om Parkash Deshraj S/O Fateh Singh Urf Laal Singh S/O Sardar Singh Har Teen Sambhag 1351/4432 Bhag Vasideh 31//13
71	31//3	Private	Agriculture	0.3845	Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam , Ram Chandra , Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Ramanand, Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Kailash Chand Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Murari Lal S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt. Santra, Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Krishana Bai D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Chandgi Devi Wd/O Chunna S/O Mangtu Har Saat Sambhag 7/70 Bhag Vasi Nuni Kala Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Madan Lal Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Ashok Kumar S/O Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt. Santo Bai Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Aasha Bai D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt Kamla Devi Wd/O Jagdish S/O Chunna Har Panch Sambhag 1/10 Bhag Vasi Nunikala Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Subhash S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Maya D/O

					Ramauvtar S/O Chuni Laal Har Do Sambhag 1/10 Bhag Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Radhe Shayam Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Suresh S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Bindiya D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Durga W/O Basant Laal Chunna Har Chaar Sambhag 1/10 Bhaag Vasideh 31//3
72	31//4/1	Private	Agriculture	0.0658	Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam , Ram Chandra , Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Ramanand, Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Kailash Chand Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Murari Lal S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt. Santra, Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Krishana Bai D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Chandgi Devi Wd/O Chunna S/O Mangtu Har Saat Sambhag 7/70 Bhag Vasi Nuni Kala Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Madan Lal Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Ashok Kumar S/O Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt. Santo Bai Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Aasha Bai D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Smt Kamla Devi Wd/O Jagdish S/O Chunna Har Panch Sambhag 1/10 Bhag Vasi Nunikala Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Subhash S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Maya D/O Ramauvtar S/O Chuni Laal Har Do Sambhag 1/10 Bhag Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Radhe Shayam Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Suresh S/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Bindiya D/O V Ramchandra Ji Maharaj Vaka Nunikala Baa Ahtmam Durga W/O

					Basant Laal Chunna Har Chaar Sambhag 1/10 Bhaag Vasideh 31//4/1
73	31//7/2	Private	Agriculture	0.0051	Nagar Panchayat 31//7/2
74	31//8	Private	Agriculture	0.3111	Nagar Panchayat 31//8
75	49	Private	Rasta	0.0531	Nagar Panchayat 49
			TOTAL	77.3717	

[F. No. EC08/07/GF/3a2/3D7]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.